The Tribune

ESTABLISHED IN 1881

Striking a discordant note

Stop politics over issues of national security

THE 'ceasefire' between the NDA government and the opposition parties in the wake of the Pulwama attack has proved to be shortlived. Both camps are well and truly back in the election mode, taking swipes at each other and resorting to political grandstanding. On Wednesday, 21 parties — including the Congress, Trinamool Congress, TDP, BSP and Left outfits — expressed resentment over the 'blatant politicisation' of the sacrifices of the armed forces. They stopped short of naming the ruling party (BJP), but complained that the Prime Minister had not yet convened an all-party meeting to discuss the prevailing security situation.

A day later, PM Narendra Modi hit back at his detractors during a nationwide interaction with BJP workers via videoconferencing. He alleged that some selfish people disliked a strong government, while yet again dismissing the proposed 'mahagathbandhan' of opposition parties as 'mahamilavat'. Earlier in the week, Modi had targeted the Gandhi family during the inauguration of the National War Memorial, accusing previous Congress governments of forsaking national interests and giving priority to the family instead of the country.

The PM's assertion soon after the Balakot airstrike that the country was in safe hands and he would never let it down was perceived as an attempt to personalise a military success. It's regrettable that both the NDA and the Opposition are goading each other into making political, over-the-top statements. The worst instance is BS Yeddyurappa's statement on the BJP's electoral advantage due to the airstrike. Even though the General Election is fast approaching, this is not the right topic for our leaders to indulge in a slugfest. Such discord will give the neighbour an opportunity to question the BJP-led government's intentions and play the 'victim' card to the hilt. The edge gained by India courtesy the airstrike and the diplomatic onslaught should not be frittered away. The defence forces, which are in a state of high alert, can certainly do without the distraction caused by political bravado. Unity in adversity is the need of the hour. At stake right now is the nation's security, which must not be compromised at any cost. The electoral battle can be fought another day.

Haryana chokes itself

Land amendment Bill will hit its green cover hard

ARYANA has played out the old, old dodge. With a contemptuous disregard for civil society's apprehensions and serious reservations from the Opposition benches, the Haryana Assembly has given the nod to the Punjab Land Preservation (Haryana Amendment) Bill, 2019. It has been introduced retrospectively from November 1, 1966, when the state came into being. Whatever may be thought of the soundness or otherwise of the move, it is perfectly certain which section will gain optimally from it: the builders' lobby. The next segment that will feel compelled to extract its pound of flesh is the political class. Elections and funds are compulsive bedfellows.

The decision, Chief Minister Manohar Lal Khattar expressly asserted, was necessitated by the state's will to strike a balance between 'development' and 'environment', as farm land and development plans were under the PLPA. About 1,500 building licences had been granted and if the Supreme Court were to take action, the ramifications would be markedly huge. Hence the rush, a concerned CM inferred. And so, it has been decided — arbitrarily — to open several areas covered by the Aravallis in Gurugram and Faridabad to real estate. About 60,000 acre of forests will be up for grabs. Civil society need not be alarmed, for the state Forest Minister has reassured that it is in 'public interest', only the public doesn't know. Chiefly whose interest will be served is anybody's guess.

Haryana has an abysmal forest cover of 3.59 per cent, the lowest in the country. It can't sacrifice any more of its forests at the altar of development. There will be grave consequences for unleashing concretisation on the state, which is an irreversible process. The plunder of its ecology will be irredeemable. Already, air pollution has come up as a major challenge in New Delhi and the NCR. There is not the smallest hesitation in saying who will bear the brunt of this recklessness and be subjected to the repercussions: the people of the state. What the short-sighted state has wished upon itself is self-combustion.

THOUGHT FOR THE DAY

Older men declare war. But it is the youth that must

fight and die. — **Herbert Hoover**

ON THIS DAY...100 YEARS AGO

The Tribune.

LAHORE, SATURDAY, MARCH 1, 1919

The Late Amir and Cow-Killing.

IN our obituary notice of the late Amir we referred to the fact that the Amir had, during his visit to India 12 years ago, appealed to his co-religionists in India to abstain from cow killing in connection with the celebration of Bakrid. It is interesting to recall the words of his late Majesty:—"If God be willing we hope to be at Delhi on *Id-i qurban* this year. It is our religious duty to perform sacrifice on that day. Though cows in common with other animals are sacrificed, our religion does not make it obligatory upon us to sacrifice cows. On the contrary we may sacrifice camels, goats, etc, instead. We intend not to sacrifice cows on this occasion in consideration of the feelings of the Hindus of India in general and of Delhi in particular. Our visit to India should be an occasion of joy to Hindus and Mussalmans alike." On another occasion he was told that the Mussalmans of a certain city intended to sacrifice a hundred cows on the occasion of *Id* in honour of his visit. He replied that they should not sacrifice one single cow. Here is an instance of respect for the religious feelings of one's fellowmen which ought to be an example not merely to the Amir's co-religionists.

India Railway Rates.

MR. S.C. Ghose, Special Officer with the Railway Board, has prepared a useful monograph on Indian railway rates issued by the Government in a bulky volume of nearly 600 pages with an exhaustive index and appendices. Mr. Ghose states that the idea of the monograph originated with the Hon'ble Sir Robert Gullan, late President of the railway Board, and it was taken up in July 1917. It is a statement of facts relating to the history, policy and the making of railway rates, a study of which enables one to suggest in what way improvements may be made.

The chance India took

Surgical strikes, by air or land, are designed to convey a message of intent



LT GEN SYED ATA HASNAIN (RETD)

FORMER GOC, 15 CORPS, KASHMIR

N assessing an ongoing military situation, things can change in a matter of minutes. That is why it is good to limit assessment to only trends and actions already taken. India has already responded to the Pulwama outrage by selecting one option from the large spectrum before it. Each such option had its pros and cons. The option at the high end was a full-scale mobilisation of all its military resources and readiness to go to war without restraint, just as it had done in 2001 in the wake of the Jaish attack on Parliament. Other options included surface-based surgical strike along the LoC, a repetition of the 2016 operation. However, the element of surprise would not have been afforded due to high predictability of a repeat.

Considering proportionality as an essential element of the concept of response, a potential offensive operation across the LoC to capture a couple of Pakistani posts may have hit a higher than desired level of escalation, right at the outset. All this is being explained to highlight the dilemma existing before the highest leadership in India. It is not a simple decision of only activating the military domain. The diplomatic aspects and the overall state of relations with the international community, and in particular key players, is always an essential aspect. The risk to the nation involved in carrying out a military response has to be thoroughly analysed and the flanks and rear secured as part of the planning. Many times, the diplomatic and military domains complement each other, one or the other taking a higher level of priority at any point of time.

The final choice of launching the IAF in a surgical strike against the JeM facilities at Balakot was the most



HIGH COSTS: Escalation is a big challenge and must remain under control.

The moment the Indian operation was completed, a Pakistani response of some kind was inevitable.

apt. The quantum of aircraft employed, along with the munitions, were the right package for such an operation. There are many reasons for this belief. First, it was sufficiently lethal and in enough depth to convey India's intent of searching for and striking terrorist leaders anywhere in Pakistan. The lethality aspect also carried an inbuilt assurance of accuracy as the munitions were all state of the art. The aspect of proportionality conveyed that India was calibrating and not escalating a war-like situation, by targeting only terrorist-related infrastructure. Since India had already succeeded in achieving certain traction with the international community, overkill in choice of objective or method of operation could prove counterproductive. That was adequately built into the selected option. There was the option of targeting the more visible high-profile JeM facility at Bahawalpur, just 8 km from Pakistan army's 31 Corps. However, it may have been assessed to have a more effective air defence cover due to the proximity to the corps HQ and was probably discarded as a potential objective.

Potentially losing an aircraft in the strike was definitely a risk and would convey a very negative message about IAF capability. The IAF overcame that problem quite professionally through some deception and suitable selection of launching airfields and routing. One aspect that the public by and large has not understood is that such a strike, as also the surgical strike of 2016, was never intended to be actions to cause deterrence. In hybrid war conditions, achieving deterrence is extremely difficult as there is a range of domains which can be employed for response even if the classic military domain is closed. These surgical strikes, by air or on surface, are essentially designed to convey a message of intent and political will to calibrate higher than usual. A Pakistani response to the Indian surgical air strike could not be deterred and India was aware of it. The moment the Indian operation was completed, a Pakistani response of some kind was inevitable. Pakistan, too, had its options and would have done a risk analysis, especially in view of its precarious economic condition, which in no way gives it the option of an all-out war. It found sol-

ace in doing a demonstration of an intrusion into the Indian air space near the LoC and was promptly engaged by a combat air patrol (CAP) comprising two Indian MiG-21 aircraft. Pakistan lost one aircraft (reported as an F-16) while an Indian MiG-21 was shot down and its pilot captured by Pakistan.

Is this enough provocation to initiate higher escalation? India again has many options, but will probably prefer to bide its time and await more conciliatory gestures by the Pakistan leadership. PM Imran Khan addressed the nation and a change of attitude appeared evident. He is aware that his nation has lost international support for the sake of a few terrorists, his military counts as strategic assets. The immediate release of the pilot in Pakistani custody may help mollify Indian opinion but meaningless gestures will not cut ice.

Most analysts agree that it is international pressure on Pakistan which will work the fastest and most effectively. Given that, India may not wish to escalate the situation and continue to provide the international community sufficient traction to pressure Pakistan. However, also given the history of sponsored terrorist acts, this may just about be the last time that India may follow such a course of action. Hereafter, options much higher in escalation dynamics would become the order of the day.

The political connect is something on which little is being written today because it's the professional military and diplomatic sphere which is in focus. However, there is no taking away credit from the decision-making process adopted by the political leadership in India. Besides all other risks, it was also a political risk. A setback to the IAF in the conduct of aerial strike could have been disastrous for the ruling dispensation. However, further risk will continue as the crisis is still on. Escalation remains the major challenge. It must remain firmly under control while considering all risk.

When radio was window to world

H KISHIE SINGH

ORLD Radio Day recently reminded me of my first addiction in life. It is still with me and the easy access to music, news and stories gives me my daily fix.

I was very young when the first radio came into our home. It was a large wooden box, highly polished; the left half housed the speaker, the right half had a semi-circular glass panel with numbers written on it and knobs below which worked the radio. The top right hand corner had an electric eye which turned green when the radio was ready to receive. On the top left was a picture of a hand cranked gramophone with a large megaphone. A dog sat in front of the megaphone

listening to the music. This was the logo of His Masters Voice, HMV.

My father used to listen to the morning news. The war was still on in Europe and he wanted the latest updates. He would switch on the radio before 8 am for the radio to warm up.

As the green light came on, the radio squeaked, squelched and shrieked fuelling my excitement. The news was in English, I understood only a smidgen! I sat there just staring at this magical contraption.

It was in those days, my formative years, that the radio entered my subconscious. It has been a permanent resident since.

Later, I polished my English listening to the English news by Melville D'Mello and Roshan Menon. Desh Ki Aawaaz, Devkinandan Pandey taught me Hindi. 'A Date with You' with Primila Premchand and her signature tune — Glen Miller's 'In the Mood'—was my introduction to jazz. That addiction, or is it a love affair, is still very much with me.

Ameen Sayani's *Binaca Geet Mala*

still resonates in my head, as does Binaca Hit Parade from Radio Ceylon. Then came the great leap forward, the transistor. My first transistor radio was the size of a pocketbook. I loved it! On my first posting abroad, I took it with me to Bangkok, only to find that the second Japanese invasion was a fait accompli! Sony, Akai, Panasonic reigned supreme.

I had to buy a radio with an FM sta-

tion. Bangkok was the first city on the Asian mainland to have television. American movies had a Thai soundtrack which the expats did not understand. No problem, the original soundtrack was on an FM station! Years later in Montreal, I enrolled for

a mass communication course in a local college. We had a course in Radio Communications. The college had a community radio broadcasting studio. Students were allowed to set up their own radio stations, their own call signs. I set up a radio station called 'AIR'. My call sign — 'This is AIR, All India

Railway Station! Aap Samachar me English suno ge, Hindi, French, Bangla, Punjabi, Aarbi...!' And the music in the background?

'In the Mood' by Glen Miller!

LETTERS TO THE EDITOR

Hot rhetoric won't help Refer to the editorial 'Time for

diplomacy' (Feb 28); let the political class in India and Pakistan be sensible enough to deal with the present delicate situation with maturity by talking with each other. The hot rhetoric from either side will only lead to a disastrous point of no return. One should not try to drink the glass of nuclear arrogance that will eliminate life. Shamefully, our leaders are trying to gain favour of the masses by politicising the martyrdom of our soldiers for votes.

RK KAPOOR, CHANDIGARH

War not an option

Apropos the editorial 'Exercise restraint' (Feb 28), peace, if not ruthlessly chased, will reduce humans to pieces. The US and North Korea, two nuclear States, ultimately realised, after exchange of threats and bravado postures, what John F Kennedy said, 'We have the power to make this the best generation of mankind in the history of the world—or to make it the last.' In this conciliatory approach, much of the credit goes to Trump, being the head of the mightiest nation. We should take a lesson from this. A similar situation exists between India and Pak-

consequences of war.

istan. We need to understand the

BM SINGH, AMRITSAR

Not their personal war

Apropos 'Exercise restraint' (Feb 28), the Indian pilot in Pakistan's custody must be treated humanely and returned to India. The Pakistan army has already violated International Humanitarian Law and Geneva Convention after displaying disturbing photographs of the injured pilot on social media. Such an atrocious conduct should be condemned. One must remember that soldiers engaged in retaliation or a war do not fight a personal war.

TUSHAR ANAND, PATNA

Walk the middle path

Our scriptures counsel us neither to be vociferously overjoyed during opulence nor too morose in adversity ('Perfect preemptive strike', Feb 27). Moderation in actions and feelings is essential. Our government should avoid complacency and triumphalism and should instead devote itself earnestly to contain Pakistan's adventurism. Foul utterances only reflect unhealthy demeanour on the part of a loose talker.

KL NOATAY, BY MAIL

Don't keep us guessing

On day one, in a surprise air attack, IAF jets crushed the JeM training camp in Pakistan. The operation lasted 21 minutes. On day two, air strikes by the IAF continued and around noon, the Pakistan media announced the shooting down of an Indian aircraft. Pakistan claimed that it had captured a Wing Commander and a second pilot, who was injured, had been hospitalised. Surprisingly, the Indian Government kept silent on the information and it was only in the evening that it admitted that one MiG-21 pilot was missing in action. The family of the pilot and the public was kept in the dark for about six hours. People were scanning media channels to ascertain facts. Men in uniform are prepared to lay down their lives for protecting the motherland. But it is imperative on the government to spell out the truth immediately, removing the suspense over any such news.

WG CDR J S BHALLA (RETD), BY MAIL

Why India is different!

The early dawn cross-border attack, characterised as 'preemptive, non-military action' against terror, by the IAF was planned so meticulously that during execu-

tion no casualty of any civilian or that of Pakistan's military occurred. But the destruction of the targeted terrorist camps was ensured. Sadly, this is unlike Pakistan's politically-backed, Army's planned attacks executed by their terrorists against us that cause casualties to our armed forces and civilians alike. This difference makes our country 'mahaan'. A befitting reply to the enemy, and a salute to our martyrs.

KK SOOD, NANGAL

Railway food fare

The website for passenger information regarding train spot, seat availability, confirmation by entering PNR, schedule and fare is quite helpful, as brought out in the editorial 'Food in trains' (Feb 27). However, one can book only a single-journey ticket on IRCTC site. A multi-train journey can have combined ticket and offer the benefit of the total kilometre fare. In most trains, the food served is unhygienic. 'Travelkhana' has started service in running trains and are looting passengers by charging Rs 200 per thali as against Rs 130 by the IRCTC. This needs to be discouraged.

OP GARG, PATIALA

Letters to the Editor, typed in double space, should not exceed the 200-word limit. These should be cogently written and can be sent by **e-mail to: Letters@tribunemail.com**

PoWs must be treated with respect, dignity



MAJOR RK BALI (RETD) VETERAN OF 1962, 1965 AND 1971 WARS

The way a country's armed forces treat enemy soldiers speaks volumes about the ethos and traditions upheld by them. It is the responsibility of every soldier to honour and respect the men in uniform irrespective of the army and the country they belong to.

IDEOS of an IAF pilot, Wing Commander Abhinandan Varthaman, being roughed up and questioned in Pakistan have turned the spotlight on the treatment of soldiers captured in the enemy territory during a military confrontation. In a time when social media moulds public sentiment, it is easy for people to witness the events live, whether it is a terrorist attack or the way a soldier is being treated behind enemy lines.

It is heart-rending and regretful to see a valiant soldier not being accorded respect and dignity. The way a country's armed forces treat enemy soldiers speaks volumes about the ethos and traditions upheld by them. Varthaman's videos and TV coverage took me about 54 years back to another conflict and a prisoner of war (PoW), who surely has a different story to tell than the IAF pilot.

It was 1965, and the place was Rann of Kutch, the scene of the India-Pakistan war. I was a 27-year-old Major from 2nd Battalion of the Sikh Light Infantry in charge of the Vigokot and Sardar Post on the India-Pakistan border. With the confrontation between the two neighbours escalating into a full-fledged war, I and my men had the responsibility of taking on the enemy soldiers head on. While there were several direct encounters, too, which we repulsed effectively, the enemy would try to enter our territory stealthily. We had a minefield around our post to sabotage any such intrusion.

On the night of June 16, a Pakistani patrol led by Major Khurch lane. We surprised Major Afridi from to show compassion towards the PoWs. Khan Afridi got trapped in our minefield, which had deadly bouncing mines. He and his two soldiers were



seriously wounded. But as they were armed, we couldn't risk approaching them directly. So, as a few of my soldiers diverted their attention, I manoeuvred through the minefield to reach the trio. I was followed by my sahayak-cum-runner, Kashmira Singh, and wireless operator Amrik Singh. Both followed my marked footsteps to avoid stepping on a landmine, as we neither had any map of the minefield nor any mine the rear flank, and disarmed him of the loaded light machine gun (LMG), which he had been aiming at

my troops. We disarmed him of his weapons, including a pistol and some grenades. I still remember the interesting conversation with him in the minefield.

Me: Who the hell are you? Afridi: I am Major Khurch Khan Afridi Me: What are you doing here? Afridi: I came to provoke you. Me: I am afraid it did not happen.

Given that all three Pakistanis were disarmed and wounded, it was my duty I left my water bottle with them and returned through the live minefield once again to get medical help for them. The medical officer bravely volunteered to accompany us. We again reached the wounded enemy soldiers. The medical officer examined them and administered first aid. He recommended immediate evacuation for all three as the condition of two of them was serious and warranted immediate medical treatment.

We first picked up Major Afridi and brought him to the MI (medical inspection) room. After leaving the officer with the doctor, I and my every soldier to honour and respect sahayak went through the minefield for the third time to pick up the remaining two wounded PoWs. By

that time, one of the soldiers had succumbed to his injuries. We picked up the Naik, but he didn't make it to the MI room and died on the way. All three of us had tears in our eyes on failing to save the man. Considering the risk we took to save them, we lamented that he did not live to enjoy his freedom.

According to the doctor's advice, Major Afridi had to be evacuated to a hospital to be treated by a specialist. A helicopter was required. My position was at a lower level and was within the range of Pakistani machine guns. Therefore, I requested the enemy commander to not fire on the chopper that was going to evacuate their fellow officer. He assured me that they would honour my request. The Pakistani Major was evacuated by helicopter and sent to Pune Command Hospital. When the Southern Army Commander, Lt Gen Moti Sagar, visited him in the hospital, Major Afridi requested him to convey his thanks to me for saving his life at great personal risk.

After the ceasefire, when we were busy clearing the mines at my post, Lt Gen Moti Sagar paid a surprise visit. He greeted me with a smile and hugged me, and conveyed Major Afridi's message. Having tea in a field cup with the General that day was an honour equivalent to a gallantry medal for me as it showed that I had upheld the glorious tradition of our Army of giving full honour to a PoW. I hope that our vengeful neighbour will treat our air warrior with respect and ensure that he returns safely as it is the responsibility of the uniform and the men in uniform irrespective of the army and the country they belong to.

All is not well on the economic front



JAYSHREE SENGUPTA SENIOR FELLOW, OBSERVER RESEARCH FOUNDATION

The moderation in economic activity in India has manifested itself in lower air passenger traffic, low vehicle sales, reduced production of capital goods and deceleration of industrial growth. Foreign investors will wait for the outcome of the General Election before making

fresh commitments.

RIME Minister Narendra Modi declared recently in South Korea that the fundamentals of India's economy were sound. That's true, but ignoring certain troubling signs for the economy may not be the right path for the government at this juncture. Globally, there are a number of stressed economies today; India, too, seems to be caught in a bind over some important issues. India may be seen as chugging along at a relatively high rate of growth of around 7 per cent, but looking at some core economic fundamentals, there is a need for immediate attention. With the elections approaching, the NDA government will, of course, claim credit for the sustained high economic growth over the past five years, but it needs to take action to avert the impending problems.

Globally, the US economy is slowing down. Most importantly, China is showing signs of an intractable slowdown which will affect all, including India, because of its size and importance in the global economy. Germany, Italy and Britain are also showing signs of slower GDP growth.

In India, agriculture remains stressed as food inflation stays low; as a result, the earnings of farmers are smaller than before. The promised doubling of farm income is a distant dream. Farmers generate demand for industrial goods. Their requirement for two-wheelers, mobile phones, agricultural machinery, consumer goods and gold is important for resuscitating industrial growth.

Low demand has remained a prob-



CHALLENGE: Meeting the fiscal deficit target will help India retain a good ranking by the international credit rating agencies.

lem for the economy and the government has rightly reduced interest rates by 0.25 per cent to 6.25 per cent on the grounds that the rate of inflation has remained low over an extended period. It will act as a stimulus that the economy needs, especially in boosting private investment. A low level of private investment is responsible for the slowdown in industrial growth.

The government has offered an income of Rs 6,000 per year to farmers in the interim Budget. However small it may be, people in the villages would welcome it because farmers suffer from the 'money illusion'.

Cash in hand makes them feel richer and buy more goods.

Apart from agriculture, India Inc is not doing well. Business Standard reported that the declared corporate results had been unusually poor. The third quarter (Q3) profit results for the current financial year show a pattern of slowdown being experienced by other countries, marked by falling margins. In India, the moderation in economic activity manifested itself in lower air passenger traffic, low vehicle sales, smaller capital goods' production and, in general, deceleration of industrial growth. IIP (Index of Indus-

trial Production) growth and export growth have both been lower than before recently. Export growth is likely to face hurdles because according to a recent report by the World Trade Organisation (WTO), international trade has been shrinking mainly due to the trade disputes between the US and China. India is also likely to face problems in its pharmaceutical exports to the US as the latter is preparing to impose various barriers on its trade with India.

In the corporate sector, the combined net profit of 2,338 companies was down by 28 per cent year-on-year compared to Q3 in FY2018. The combined net profits of 2,005 companies (excluding gas and non-banking finance companies) were down by 39.7 per cent to Rs 47,500 crore, which is the worst performance in the past three years. Many famous names such as Tata Motors, Vodafone Idea, Punj Lloyd and Adani Power suffered losses because of slow growth of revenue compared to expenditure.

Fortunately, the service sector has remained buoyant and the IT industry clocked reasonable net profits of 6.7 per cent. Globally, India is competing with IT companies from other countries in markets abroad. The depreciation of the rupee has cut into their margins.

The banking and finance sector remained under duress, though there has been recovery; profits of banks in the last quarter were Rs 900 crore. But many public sector banks posted net losses. Since China's slowdown, there has been a downswing in commodity

■ Vikrami Samvat

er raw material has fallen. Hence, our metal and mining industries may not do well in future. Rise in crude oil prices is also an imminent threat to India's current account deficit, which may widen if imports of oil become costlier.

prices as its demand for metals and oth-


On the fiscal front, the offer by the Reserve Bank of India (RBI) to the government of its surplus funds of Rs 28,000 crore has been a welcome boost to bringing about macroeconomic stability in the economy as the money will help in bridging the gap in the fiscal deficit target of 3.4 per cent of the GDP, which the government could not have met otherwise, especially with bleak prospects of a big GST revenue collection. Meeting the fiscal deficit target will help India retain a good rating by the international credit rating agencies. It will help India raise capital in the international capital markets to bridge the infrastructural gap visa-vis China. Poor infrastructure makes us a third-world country.

Foreign investors will wait and watch for the election outcome before making fresh commitments. The FDI (foreign direct investment) flows have already decreased as some FDI has been put on hold. A stable government after the Lok Sabha elections is important for the economy. An assurance of reformist policies by the new government will help investors make up their minds.

Rising government expenditure has played a key role in recent times to keep the economy rolling. The elections will witness a substantial rise in government expenditure, which may further boost demand.

FORECAST

OUICK CROSSWORD



YESTERDAY'S SOLUTION

Across: 1 Clasp, 4 Politic, 8 Owl, 9 Orang-utan, 10 Digress, 11 Tabby, 13 Return, 15 Engulf, 18 Egret, 19 Empower, 21 Bald eagle, 23 Age, 24 Wrestle, 25 Elect. **Down:** 1 Chowder, 2 Alligator, 3 Prone, 4 Praise, 5 Lighten, 6 Tot, 7 Canny, 12 Blue whale, 14 Retreat, 16 Ferment, 17 Meagre, 18 Elbow, 20 Piece, 22 Lee.

ACROSS 1 Largest Mediterranean island (6)

4 Violet-blue gemstone (8) 9 Elaborately decorated (6)

10 A prehistoric period (5,3) 12 A cooking fat (4)

13 Hushed (5) 14 Depressed (4)

17 Retract what was said (3,4,5)

20 Contentment (12) 23 Prevalent (4)

24 Light meal (5) 25 Doglike predatory animal (4)

28 Abusive harangue (8) 29 Fondle (6)

30 Put at risk (8) 31 Ghost (6)

DOWN 1 Take responsibility for (8)

2 Deeply sorry (8) 3 Much (4)

5 Unimaginative (6-2-4)

6 Melody (4) 7 Annual (6) 8 Wobble (6)

11 Open to suspicion (12) 15 Constantly available (2,3)

16 Decree (5) 18 Breach of the peace (8)

19 Really (2,6)

21 A card game (6) 22 Frightened (6)

26 Southwest Asian country (4) 27 Dull heavy blow (4)

5 6 9 5 3 5 9 8 6 4 6 5 6 6 3 6 **EASY**

SU DO KU

CALENDAR

MARCH 1. 2019 FRIDAY

2075

■ Sha	ka Sa	amvat	:				1940)		
■ Pha	Phalgun Shaka 10									
■ Pha	Phalgun Parvishte 17									
■ Hija	Hijari 1440									
■ Krishan Paksh Tithi 10, up to 8.40 am										
■ Sidhi Yoga up to 10:42 am										
■ Purvashadha Nakshatra up to 5:55 am										
■ Mod	■ Moon in Sagittarius sign									
	VEGTERRAY'S SOLUTION									
	YESTERDAY'S SOLUTION									
7	2	4	1	8	5	9	6	3		
3	9	8	2	4	6	5	7	1		
1	5	6	3	7	9	4	2	8		
2	6	5	4	9	8	1	3	7		
4	8	1	7	5	3	6	9	2		
9	3	7	6	2	1	8	4	5		
8	4	9	5	3	2	7	1	6		
5	1	3	9	6	7	2	8	4		
6	7	2	8	1	4	3	5	9		

SUNSET: FRIDAY 18:20 HRS SATURDAY 06:49 HRS Sunny Partly Cloudy Cloudy Rainy

outiny Turky oloud	Joioday	Rully	1088)
CITY	MAX	MIN	
Chandigarh	23	06	0
New Delhi	23	07	0
PUNJAB			
Amritsar	21	08	0
Bathinda	23	06	0
Jalandhar	21	07	0
Ludhiana	22	07	0
HARYANA	No.		
Bhiwani	23	09	0
Hisar	23	07	0
Sirsa	23	07	0
HIMACHAL PRA	DESH		1000
Dharamsala	15	03	0
Manali	10	-01	0
Shimla	14	02	0
JAMMU & KASH	IMIR		5.000
Jammu	21	11	8
Leh	01	-10	2
Srinagar	10	01	2

22

08

06

-02

UTTARAKHAND

Dehradun

Mussoorie

TEMPERATURE IN ^OC

DELHI THE HINDU SATURDAY, MARCH 2, 2019

The Akali factor

With its alliance in Punjab, the BJP admits the need to take a back seat in some States

The Shiromani Akali Dal has been among the most steadfast allies of the Bharatiya Janata Party, the two parties having been in coalition since 1998. It comes as no surprise that they have aligned again in a seat-sharing arrangement in Punjab for the Lok Sabha election, with the Akalis as the dominant partner to contest 10 seats in the State and the BJP contesting the other three. In 2014, the alliance won 35% of the vote to secure six of the 13 constituencies in a tripartite contest. The Congress, which won three seats, will seek to build on its victory in the Assembly elections in 2017 as Statelevel incumbents usually enjoy some momentum going into a national election. The Akali-BJP alliance took a beating in the Assembly election after having been in power for two terms, but still managed a substantial 30.6% vote share, which could keep it competitive in the Lok Sabha election. There is also the emergence of the Aam Aadmi Party as a viable contestant in the State (especially in the southern Malwa region). For the BJP, a coalition with the Akalis, despite being allotted only three seats, was therefore an imperative. As with its other coalition partners such as the Shiv Sena, the alliance in Punjab too went through degrees of rough weather, but there was too much at stake for seat-sharing talks to fail. Besides reasons of arithmetic, the SAD also presents a strong and traditionally anti-Congress position in its ideological core, tinged with a certain degree of sectarianism. This coheres well with the overall vision

In allocating a larger share to the Akalis in Punjab, the AIADMK and other partners in Tamil Nadu, besides retaining its alliance with the Shiv Sena in Maharashtra, the BJP has signalled its awareness of the efficacy of coherent pre-poll coalitions based on the party's strengths in these States. The BJP-led National Democratic Alliance has seen some attrition since 2014, with the loss of the Telugu Desam Party. But it has compensated with additions such as the Janata Dal (United), besides the retention of other allies. Even though it has projected a certain personalised form of administration with Prime Minister Narendra Modi being the dominant face of the government, the BJP is crucially dependent on the support of its allies. In the last five years, the party has steadily lost parliamentary by-elections and its current tally in the Lok Sabha is below the majority mark. Only with the support of the allies does the NDA now have a comfortable majority. The BJP might scoff at attempts made by the Opposition to form a grand coalition and portray them as an incoherent mishmash of organisations, but the fact that coalitions in Indian politics are here to stay is not lost on its leadership.

Hanoi hiccup

Despite the collapse of talks, the U.S. and North Korea must persist with CBMs

The abrupt end of talks between U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jonga peaceful solution to the Korean nuclear crisis. Both sides cut short a two-day summit on the second day on Thursday without even signing a joint communiqué. They also gave conflicting versions on why the talks collapsed. Mr. Trump said Mr. Kim insisted on a full withdrawal of American sanctions in return for the closure of only one nuclear facility. However, North Korean Foreign Minister Ri Yong-ho later said Pyongyang had sought only partial sanctions relief in return for dismantling the Yongbyon nuclear site, the North's main facility. Whatever the actual reason, one thing is clear: the bonhomie between the two leaders after last year's Singapore summit was missing in Hanoi. After the Singapore meet, both sides had agreed to have "new U.S.-DPRK [North Korea] relations" and establish a "lasting and stable peace regime" on the Korean peninsula. Pyongyang had also promised to work toward "complete denuclearisation". No such comments about the future course of the peace process were issued this time. The North Koreans have ruled out any immediate plans for a future meeting between the two sides.

A part of the problem was the failure of both Washington and Pyongyang in following up on commitments made in Singapore. A few weeks ahead of that summit in June, North Korea had announced a complete freeze on nuclear and missile tests as a reconciliatory gesture. It had asked the U.S. to reciprocate – its main demand was a formal declaration of an end to the 1950-53 Korean War, but the Trump administration refused to do so. Lack of confidence-building measures too blunted the momentum created in Singapore. When U.S. Secretary of State Mike Pompeo first visited Pyongyang, Mr. Kim refused to meet him. Later, the American intelligence community reported that North Korea continued its ballistic missile programme after the first Trump-Kim summit. With these problems still in place, the second summit between the leaders was announced. Any hopes of clinching a big agreement in Hanoi fell as both sides stuck to their respective demands. However, the setback need not necessarily bring the peace process to a halt. Mr. Trump himself has said denuclearisation is a long process. The freeze on nuclear and missile tests that Mr. Kim announced is still in place. The Korean peninsula has been calm, while inter-Korean relations have markedly improved. Before the Hanoi summit, there were reports that the U.S. would declare an end to the Korean war and that both countries would open liaison offices in each other's capitals as part of normalisation of ties. They should go ahead with such measures and build confidence and mutual trust while also taking a phased approach to dealing with more contentious issues such as denuclearisation.

Ensure a minimum income for all

A basic income scheme will deliver benefits to the poor only if it comes on top of public services



The idea of a universal basic income (UBI) is gaining ground globally. It has supporters among the political left and right, and among proponents as well as opponents of the freemarket economy. A UBI requires the government to pay every citizen a fixed amount of money on a regular basis and without any conditionalities. Crucial to the appeal for such a demand – for a UBI – is that millions of people remain unemployed and are extremely poor, despite rapid economic growth in the last three decades. The National Democratic Alliance government has already unfolded a limited version of the UBI in the form of the Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN) which promises ₹6,000 per annum to farmers who own less than 2 hectares of land. Going by media reports, the election manifesto of the Congress Party may announce an even more ambitious version of the scheme.

Where it will work

The UBI is neither an antidote to the vagaries of market forces nor a substitute for basic public services, especially health and education. Besides, there is no need to transfer money to middle- and high-income earners as well as large landowners.

However, there is a strong case

some groups: landless labourers, agricultural workers and marginal farmers who suffer from multi-dimensional poverty. These groups have not benefited from economic growth. They were and still are the poorest Indians. Various welfare schemes have also failed to bring them out of penury.

A case in point is the access to institutional credit issued by banks and cooperative societies. According to National Sample Survey Office (NSSO) data from the 70th round, institutional credits account for less than 15% of the total borrowing by landless agricultural workers; the figure for marginal and small farmers is only 30%. These groups have to borrow from moneylenders and adhatiyas at exorbitant interest rates ranging from 24 to 60%. As a result, they do not stand to benefit much from the interest rate subsidy for the agriculture sector. Likewise, the benefits of subsidised fertilizers and power are enjoyed largely by big farmers. In urban areas, contract workers and those in the informal sector face a similar pro-The rapid pace of automation of low-skill jobs and formalisation of the retail sector mean the prospects of these groups are even bleaker.

An income support of, say, ₹15,000 per annum can be a good supplement to their livelihoods an amount worth more than a third of the average consumption of the poorest 25% households, and more than a fourth of the annual income of marginal farmers.

This additional income can reduce the incidence of indebtedness among marginal farmers, thehelping them escape moneylenders and adhatiyas. Be-



sides, it can go a long way in helping the poor to make ends meet. Several studies have shown that at high levels of impoverishment, even a small income supplement can improve nutrient intake, and increase enrolment and school attendance for students coming from poor households.

Better productivity In other words, income transfers to the poor will lead to improved health and educational outcomes, which in turn would lead to a more productive workforce. It seems to be a good idea to transfer the money into the bank accounts of women of the beneficiary households. Women tend to spend more of their income on health and the education of children.

The effect of an income transfer scheme on unemployment is a moot point. In principle, cash transfers can result in withdrawal of beneficiaries from the labour force. However, the income support suggested above is not too large to discourage beneficiaries from seeking work. In fact, it can promote employment and economic activities. For instance, income receipts can come in handy as interest-free working capital for several categories of beneficiaries (fruit and vegetable vendors and

their business and employment in the process.

Moreover, such a scheme will have three immediate benefits. One, it will help bring a large number of households out of the poverty trap or prevent them from falling into it in the event of exigencies such as illness. Two, it will reduce income inequalities. Three, since the poor spend most of their income, a boost in their income will increase demand and promote economic activities in rural areas. Nonetheless, an income transfer scheme cannot be a substitute for universal basic services. The direct income support to the poor will deliver the benefits mentioned only if it comes on top of public services such as primary health and education. This means that direct transfers should not be at the expense of public services for primary health and education. If anything, budgetary allocation for these services should be raised significantly. Programmes such as the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme should also stay. With direct income support, the demand for the programmes will come down naturally. However, in the interim, it will serve to screen the poorest in the country and give them a crucial safety net.

Using datasets

If basic public services are maintained, there is limited fiscal space for direct income support. It will have to be restricted to the poorest of poor households. The Socio-Economic and Caste Census (SECC) 2011 can be used to identify the neediest. Groups suffering from multidimensional poverty such as the destitute, the shelterless, manual scavengers, tribal groups, and former bonded labourers are automatically included. The dataset includes more than six crore landless labourers. It also includes many small farmers who face deprivation criteria such as families without any bread-earning adult member, and those without a pucca house.

The other needy group, small farmers, missing from the SECC can be identified using the dataset from the Agriculture Census of 2015-16. Together, these two datasets can help identify the poorest Indians, especially in rural India. However, many households such as marginal farmers belong to both datasets. The Aadhaar identity can be used to rule out duplications and update the list of eligible households

As an approximation, the number of eligible households is 10 crore. That is, even in its basic form, the scheme will require approximately ₹1.5 lakh crore per annum. The PM-KISAN Yojana can be aligned to meet a part of the cost. Moreover, the tax kitty can be expanded by reintroducing wealth tax. Nonetheless, the required amount is beyond the Centre's fiscal capacity at the moment. Therefore, the cost will have to be shared by States. States such as Telangana and Odisha are already providing direct income support to their farmers. These States can extend their schemes to include the 'non-farmer poor'. The other States too should join in.

The income transfer scheme is costly. However, the cost of persistent poverty is much higher.

Ram Singh is a Professor at the Delhi School of Economics

The mixed signals from Pakistan

One can get a fair idea of the Pakistani military's thinking by analysing the politicians' statements and actions



MOHAMMED AYOOB

ow that the first round of military tit-for-tats is over, it is important that New Delhi settles down to parsing the mixed signals coming out of Pakistan. While keeping all options open, it is important for the government to make a definitive assessment regarding Pakistan's intentions before taking the next step in both the military and diplomatic spheres. This is a difficult job, among other things because the real decision-makers in Pakistan are not the Prime Minister and his cabinet but the top generals ensconced in General Headquarters in Rawalpindi.

Nonetheless, one can get a fair idea of the thinking by Pakistani decision-makers by analysing the statements and actions of politicians because they are often orchestrated by the military high command. Pakistan Prime Minister Imran Khan's pronouncements are, therefore, worth following closely. His most recent statement in the Pakistan Parliament betrays the internal conflict in both his and his generals' assessment of the current India-Pakistan standoff and its impact on the standing of the Pakistani military in the eves of the country's population.

Mr. Khan has, on the one hand, emphasised his desire for de-escalation without accepting blame for the initial action, the Pulwama terrorist attack, that triggered the present crisis. While ostensibly addressing the Indian government, he has attempted to present a reasonable face to the international community by expressing his yearning for peace in the subcontinent. He has especially emphasised the fact that both countries are nuclear powers and, therefore, any further escalation could lead to disastrous results.

The de-escalatory ladder

His announcement on Thursday that Wing Commander Abhinandan Varthaman would be released "unconditionally" falls in this category of de-escalatory signals. His statement also made it clear that he wanted to link the release to the reopening of negotiations with India in order to find a way out of the current crisis.

While India welcomed this move, it refused to give Pakistan credit for what Islamabad considers a humanitarian gesture. India has characterised it as an act undertaken in consonance with the Geneva Convention that Pakistan. as a signatory, is compelled to fol-



low. Therefore, Islamabad does not deserve extra credit for merely fulfilling international obligations.

In the same speech, Mr. Khan warned the Indian leadership, "Do not take this confrontation further", saying otherwise Pakistan will be "forced to retaliate". He also made no apologies for the terrorist acts committed by jihadi groups spawned by Pakistan's military intelligence. Instead, he once again asked New Delhi for proof that the Pulwama attack could be traced to Pakistan despite the Bahawalpurbased Jaish-e-Mohammad's acknowledgement, immediately after the suicide bombing, that it was responsible for the incident.

There are various reasons one can decipher for Pakistan's double-speak. Mr. Khan's de-escalatory rhetoric is in part the result of external pressure, especially from the U.S. and Saudi Arabia. The Saudi Foreign Minister made a dash to Islamabad to advise the Pakistan government not to let the crisis get out of hand. It was also clear from U.S. President Donald Trump's statement in Hanoi, in which he suggested that good news was about to emanate from South Asia, that Washington had put pressure on Islamabad and possibly on New Delhi not to engage in further military action.

It is true that the fear of escalation to the nuclear level haunts both Indian and Pakistani decision-makers and acts as a formidable restraint preventing both from intensifying the conflict. An action-reaction dynamic, such as the attack, can conceivably graduate to the nuclear level if Pakistan, which does not accept the "no first use" doctrine, decides to take recourse to tactical nuclear weapons, which it has stockpiled, if it finds itself unable to withstand India's superior conventional power.

On the other hand, the Indian nuclear doctrine does not make a distinction between tactical and strategic nuclear strikes and implies that India will respond through massive retaliation even if a tactical weapon use does only a limited amount of damage. It is, therefore, difficult to predict in this context where the escalatory process, if left unchecked, would

However, all these very real concerns about uncontrolled escalation have to be measured against the Pakistani military brass's obsession with its honour and credibility among its people. Both have been severely damaged by its inability to anticipate and thwart the Indian aerial attack on Balakot deep inside Pakistani territory. The military is the real power behind the throne in Pakistan. Mr. Khan's ascent to office was deftly managed by the military high command, which, unlike in India, is also in control of the country's nuclear weapons and delivery

These facts make any future escalatory scenario look very scary. For, if pushed to the wall and in danger of losing control of the state, the Pakistani military can employ a highly reckless strategy that would unleash an unprecedented catastrophe in the Indian subcontinent. It is no wonder that Mr. Khan has to speak with both sides of his mouth in a desperate attempt to preserve the military's honour while attempting to get off the escalatory ladder that can lead to unpredictable consequences.

Mohammed Ayoob is University Distinguished Professor Emeritus of International Relations, Michigan State University and Non-Resident Senior Fellow, Center for Global Policy, Washington DC

LETTERS TO THE EDITOR Letters emailed to letters@thehindu.co.in must carry the full postal address and the full name or the name with initials.

Step back now

It is time to stop the tensions between the two nuclear-armed countries, India and Pakistan. As the writer (Editorial page, "Living on the edge", March 1), who has in-depth knowledge about the politics of the subcontinent, says, there should be a way to keep de-escalating. God forbid if further tensions between the two neighbours become worse and more destructive. Leaders in both countries have the right opportunity now to show real statesmanship and solve all differences at the diplomatic high table. Better sense must prevail. JAVEED BIN NABI,

■ It is noteworthy that there were no conditions attached to the release of the Indian pilot (Page 1, "Pakistan will release Abhinandan today", March 1). With this, one hopes that the war clouds over India and Pakistan will fade away. With both nations

in possession of sophisticated weaponry, war is no option to settle disputes. There may not be any harm if there are preliminary rounds of talks to defuse the situation. This will not be construed as a sign of weakness but as one of maturity in dealing with a difficult situation. How the government can manage this just before the general election will be interesting. D.B.N. MURTHY,

■ Given the fact that a number of terror outfits operate from within Pakistan and have been moving around with impunity for decades now, one is not sure what action can be taken by Pakistan Prime Minister Imran Khan, or by any other Pakistan Prime Minister for that matter, on such terror organisations. As these outfits are being used to stage a proxy war, what kind of a crackdown, and a genuine one at that, can be expected is anybody's guess. Unless there is a

comprehension of the core issues, we will continue to beat around the bush till we reach the next flashpoint. International pressure should be sustained till Pakistan takes concrete measures against terrorists and terror outfits. S. PARTHASARATHY,

■ The Indian reaction to the

deadly attack on a convoy of CRPF personnel triggered a quick, justifiable response, though it led to the downing of an Indian fighter aircraft and pilot. The pleasant and surprising response by Pakistan has, however, suggested that there may still be room for efforts to resolve the long-running India Pakistan dispute. Could Pakistan Prime Minister Imran Khan's move to order the release of the Indian pilot now serve as an opportunity for both sides to take a fresh look? One can only hope so. Let us recall the action of Navjot Sidhu who, in his own way, sought to improve

not have more of such people and moves in both countries? KAMALA MENON COCHRAN,

■ Pakistan's decision to

release the Indian pilot is a

step that will promote peace

and deserves acknowledgement by India. We have taught our neighbour a lesson with the air strikes. Now that the purpose has been served, it is the duty of leaders in both countries to de-escalate and try to explore peace. It may not be an exaggeration to say that countries like the U.S. are like merchants of war and genuinely uninterested in peace. P.H. HEMA SAGAR,

■ There is the widespread perception that the political leadership in Pakistan is under the thumb of the Pakistan Army and the ISI. If Prime Minister Imran Khan has chosen to decide independently and act boldly India-Pakistan relations. Why on a crucial issue – the

release of the Indian pilot he deserves to be complimented. Let this be a harbinger of happier things to come. But will he also see the writing on the wall and ensure that support for terror groups is stopped? Saner counsel must prevail. S.V. VENKATAKRISHNAN,

Dog control

We are two holidaymakers from the U.K. entering the final week of our two-month, and the 12th, visit to Kerala. This year we have been sickened by the increase in the number of stray dogs on the beaches and by their appalling condition. They scavenge an existence, suffering from mange and fleas. Most have no hair left, and can be seen limping from injuries and desperate for some form of humane intervention. This year, two of our Indian friends were hospitalised with serious injuries caused while trying to avoid stray dogs on the road and consequently cannot work. One friend was taking his daughter to school on his motorcycle and she received minor injuries after the incident. We hope we will be able to return next year to discover funds having been invested to remove all stray dogs from public places. Sentiment is one thing, suffering is another. ANDY & HILDA SMALL,

Mutilating notes

The Reserve Bank of India issues instructions asking people not to write on currency notes. Despite this, one comes across notes that have been scribbled on with pen or pencil. Banks continue to dispense such notes even through their ATMs. When cash is credited through cash deposit machines, the same notes are often rejected. If banks themselves cannot follow the RBI's guidelines, how prudent is it to insist on us following this rule? SHALINI MURTHY,

MORE LETTERS ONLINE:

Some deterrence mathematics



TICKER

MIHIR SHARMA

consider what we know about the airstrikes launched by the Indian Air Force (IAF) this week into Khyber-Pakhtunkhwa. in Pakistan proper. We know that Balakot, the location of the Jaish-e-Mohammed seminary and training camp that was being targeted, is some 80 kilometres from the Line of Control. We can assume then that the

et us objectively

IAF warplanes went some distance into Pakistani-controlled airspace given that, reportedly, Israeli SPICE-2000 pre-guided bombs were used that have a glide range of about 60 km. To be clear, this represents three significant innovations to India's arsenal of retaliation for attacks by Pakistan-backed jihadists. First, the use of air power; second, the willingness to enter Pakistani airspace; and third, the willingness to strike in Pakistan proper and not in Pakistan-occupied Kashmir.

Prime Minister Narendra Modi and his government would be right, thus, to claim that they have shown significantly greater risk tolerance in response to a jihadist provocation than their predecessors.

We should also consider the effects of the Balakot strike. First, did it achieve its stated military ends? Here we need to examine official statements and independent evidence. "Sources" have claimed 300 deaths and this was widely reported as fact in the Indian media — but it is clear that this need not be believed, as it is not an official statement. The Ministry of External Affairs has, however, stated that a "very large number of JeM terrorists, trainers, senior commanders and groups of *jihadis* who were being trained for *fidayeen* action were eliminated". This does not put a number on the deaths. More importantly, let us hear what the IAF itself, the most impeccable source in this context, has to say: "We have evidence to show that whatever we wanted to do and the targets we wanted to destroy, we have done that... it will be premature to give number of casualties." This is very careful phrasing. It does not imply that there were a "very large" number of deaths. It does not even imply, interestingly, that the intention was to directly degrade the JeM installation.

It is thus entirely possible, and even logical, to suppose that the strategic intent of the strikes was to demonstrate the three significant innovations mentioned earlier rather than to degrade JeM capabilities. This would seem to be a sensible conclusion especially given the copious evidence from neutral sources, including foreign intelligence services, that the JeM and other jihadist outfits have moved their main training camps further away from the LoC a decade or more ago. It is also worth noting that multiple independent sources, such as the Atlantic Council's Digital Forensic Research Laboratory and the Australian Strategic Policy Institute's (ASPI) International Cyber Policy Centre have released satellitebased research indicating that there was no significant damage to the JeM facility. Both agree that there are clear impact areas 150 to 200 metres away from the boundaries of the facility. ASPI points out that, given that "statistically fewer than 0.2 per cent" of SPICE-2000 bombs "hit further than 10 metres from the designated strike area", it is likely that the intended target was indeed hit, and the purpose of the mission was to show intent and capability (and not to directly hamper JeM operations).

We now come to the second question about the effects of the Balakot strike. Does it significantly push the envelope in terms of deterring Pakistani adventurism in Kashmir or elsewhere? As a reminder, India seeks a method to ensure that sub-conventional war waged by Pakistan can be answered and deterred in a manner that utilises India's conventional superiority — while staying well below the nuclear threshold. The problem is that Pakistan's own air force in response to the Balakot raid carried out a major sortie into Indian airspace that led to the shooting down of a MiG-21 and the capture of an Indian pilot. Thus, as Ankit Panda, a senior fellow at the Federation of American Scientists, put it in *The Atlantic*: 'Pakistan's own retaliation serves to reestablish deterrence by demonstrating it has conventional options of its own short of nuclear weapons". From this point of view, therefore, the strikes cannot be called a success. If deterrence through India's conventional superiority is to be established now, then India will have to escalate to a point where its greater resources make the difference. This is, to put it mildly, both difficult and dangerous and thus inadvisable.

Given that, objectively, the outcome of the airstrikes can at best be described as of mixed usefulness to India's overall objectives, should they have been carried out? Here we have to examine the cost. By far the biggest cost was that India was spending its hard-earned reputation for strategic restraint and responsibility, built up over successive governments. This capital cannot be run down forever, and could have been spent elsewhere. Why it was instead spent on this particular occasion, with not enough to show for it, is a question that only the Prime Minister can answer.

Email: mihir.s.sharma@gmail.com; Twitter: @mihirssharma

Arthur Moore and Indo-Pak peace

Moore died in the hope for "real peace between India and Pakistan". That remains the flickering faith of the millions who wished Abhinandan a speedy release



WHERE MONEY TALKS

SUNANDA K DATTA-RAY

¬ very Indian's thoughts must be with Abhinandan Vartnaman, the monister pilot whom Pakistan's prime minister has released from captivity. Every Indian's prayer must be that Imran Khan's willingness and ability to keep his generous promise means not that the Indian air force wing commander lives to fight another day but that the days of fighting are over.

But looking beyond the happy release, it would be unrealistic not to recognise that such situations may occur again and again until an amicable solution is found to the Kashmir dispute. As Arthur Moore, editor of The Statesman, wrote, "Pakistan canal disputes, boundary disputes, displaced persons disputes — all these may be solved; trade between the two countries may be developed; but there will never be satisfactory relations between India and Pakistan till the Kashmir issue is amicably settled." That was in A Study of Nehru that Rafiq Zakaria edited and published in 1960 long after the British government had ensured Moore was sacked for his radical views. But he was still deeply involved in India, and called his article on Nehru "My Friend's Son" because he related to Motilal Nehru with whom he had become friendly when he represented the Bengal European constituency in the Legislative Assembly from 1927 to 1933.

In his unmarked pauper's grave outside London, Moore must suffer agonies as India and Pakistan pirouette on the brink of war and as a Pakistani listener to Mr Khan's speech laments "it is now our second nature to live in the well of hell". Moore thought of the federal plan associated with Nehru as the only way of saving South Asia from further conflict. There was no Kashmir problem then but the principle of uniting peoples and countries already appealed to Moore who was much taken with the ideas of an American journalist, Clarence Streit, who published Union Now, a book calling for an international federation of democracies in which the sovereignty and jurisdiction of national states might decline, but the individual's status would improve.

Applying that idealistic notion to the British empire, Moore published an article, "A Federal British Commonwealth", in the Manchester Guardian in October 1938 and reproduced this thinly-veiled plea for dominion status for India in The Statesman. Urging the federation of transport and communications under a single command, he warned "we must federate or perish". India was to blaze a global trail. "We are a large part of the world and can contribute much to a world order if we can produce a united India", declared his first editorial in 1939. He returned to the theme at the Indian Institute of International Affairs which he addressed on the "The Necessity for a British League of Nations". Underlying it was the hope that if war broke out, a united front by India in support of Britain might persuade London to concede political reforms.

Moore put these proposals to a startled Subhas Chandra Bose who feared the British

government wouldn't play along but promised to discuss them with Gandhi and Nehru. If they agreed, Jinnah and the British could be approached. The All India Congress Committee's demand for "a world federation of free nations" for "the future peace, security and ordered progress of the world" and to prevent aggression and exploitation so closely mirrored the political and economic federalism Moore propagated in his "This Our War" series of articles that people suspected him of being a closet Congressman.

Moore saw a subcontinental federation as the only way of containing the Kashmir problem. In 1948, he spoke to Gandhi about his plan for Kashmir to "be treated as an equal third party" in "a federated commonwealth state, with common foreign affairs, common defence, and such finance as concerned these subjects, but all three to be separate self-governing States". Gandhi who "was much interested" asked him to get Nehru's opinion. Moore was about to do so when Gandhi was killed. When he could discuss it with Nehru, the answer was not "No" but that "the time is not yet". Later, Nehru confided in Selig Harrison of The Washington Post "confederation remains our ultimate goal".

Nehru's response sent Moore to his death fortified with the hope "that at last there could be real peace between India and Pakistan and that the worst evils of partition would be forever wiped out". That still remains the flickering faith of the millions who are desperate like that Pakistani to get out of the "well of hell" and who wish Wing Commander Varthaman a speedy recovery from his ordeal.

LUNCH WITH BS ▶ ZOYA AKHTAR | WRITER-DIRECTOR

Director's cut

Film making is an

expensive medium and it

takes deft management

of finances and people,

apart from, of course, a

gripping narrative and

competent actors. Art

does not thrive in a

chamber. When she

learnt a lot about

managing people

made *Dil Dhadakne Do*

(2015), Akhtar said she

Every movie has changed her, but Gully Boy more so than any other, Akhtar tells Urvi Malvania & Arundhuti Dasgupta

T t's cold no? Can we reduce the AC please?" Zoya Akhtar is on the dot for our rather late lunch appointment at San:Qui, a restaurant at Four Seasons Mumbai that describes itself as a "dramatic dining room" and promises a "pan-Asian culinary tour". Whatever that may be, when it comes to the freeze factor, this restaurant is no different from the rest in the city that dial it up to Arctic levels. The plusher they are, the worse it gets (yes, it is a pet peeve). But unlike our rants that are usually met with a studied glance into space, Akhtar's words result in action. A few suggestions on seating and a word with those in charge of the cooling and we are set.

Akhtar speaks very fast, but with the assurance of someone who is used to her words being taken seriously. As a director and a woman among a large fraternity of male professionals, she has probably had ample practice.

"And a green tea please," she halts the retreating back of our attendant with a firm command. No lunch for me, she announces much to our dismay. On a diet, she wants just green tea and water. Her aide obliges us with a meal while we decide to tuck in later.

For the 46-year-old director who has directed four feature films and a couple of movies for Amazon and Netflix.

Gully Boy has been a sublime rush of emotions. Akhtar is just back from Berlin, her first grand showing at an international film festival and she is blown away by the scale of the festival and its audience. The experience of watching her film in an 1.800seat-theatre on an 80-feet screen is incomparable. "It was just so big and like so weird," she says sipping her jasmine tea. Much like the experience of making the movie, like a

sucker punch to the gut.

From the people she interacted with to the poetry they exposed her to and the manner in which their lives intertwined, Gully Boy has been an explosive thrill. Akhtar, who is an avid hip-hop and rap fan, says that she was tuned into the American rap scene, but barely knew any in India. "I would never have met these guys if not for the movie," she says. The young boys who inspired the movie grew up in the slums in Mumbai and in the outskirts of Delhi, listening to Eminem and Tupac Shakur on YouTube. So did she but in a world so far removed from theirs that it could almost be a parallel universe. 'The internet is just an amazing shift," she says. Without having ever stepped out of their localities, leave alone the country, the rappers in India have taken what is primarily an American angst-ridden art form that references local racial inequal-

ities and made it their own. And drew poetry Akhtar to the movie, to the

rappers. Akhtar is a closet poet. Largely thanks to her father, she Akhtar who has worked with her on Gully Boy has a poem for every occasion and can still recite large verses

from memory. All her growing up years, she says, her father was introducing poetry to her and Farhan (her actor-director brother). She writes, but vows she will never pub lish her verse.

Mother Daisy Irani was their introduction to world cinema. She watched everything from Italian and French to Bollywood staples with her. The love for the craft of movie making is probably her mother's doing as

is - and Akhtar rolls her eyes a set of rules. "She is a Parsi. So we were told, never be late. Respect money and your work. Switch off the lights when you leave a room.' Even today, she is always the first to a meeting in an industry where hardly anyone turns up on time.

Akhtar says the four films that she has directed so far have been great learning experiences. Luck by Chance (2009), her first movie did not quite set the box office on fire but it gave her the confidence to take on more. And then came Zindagi Na Milegi Dobara (2011) that brought commercial and critical success.

Money is important, she says. At the end of the day, the producer or whoever is putting his money into the venture must get a return on the investment. But what she does not get is the all-consuming obsession that even critics and audiences have developed with the ₹100-crore club. "Why should it matter how much a movie makes on a weekend? You like it or you don't. I can understand trade getting interested in movie collections but why

The digital universe, of Netflix and Amazon and others, liberate her from such constraints. A movie is watched, liked or disliked without its financials being dragged into the conversation. "There is no box office or money pressure. That's a huge positive."

Film making is an expensive medium and it takes deft management of finances and people, apart from, of course, a gripping narrative and competent actors. Art does not thrive in a vacuum or an echo chamber When she made Dil Dhadakne Do (2015), Akhtar said she learnt a lot about managing people. "It was a huge ensemble cast, taught me a lot about handling relationships. It was



also my most nuanced film, and I grew a lot professionally on that set." What draws her to a script? How does she choose the story she wants

It is always the story first and then everything else. Once the story hooks her in, the rest take shape, the characters and the locations she shoots in, everything. "My locations speak too, they are like characters in the movie." For Gully Boy, Dharavi, the slum where she shot in Mumbai was a crucial part of the film. She says that the slum was a revelation in many ways. For one, it was the smoothest experience she has had

shooting outdoors in a metro, she says. No one really has time to stare or upset a movie crew's rhythm. They don't have the time and they just don't care. "They are just so cool," she says. But the slums

> someone who is ensconced in the privileged world of Bollywood, Akhtar bristles at the insinuation but masks her irritation with the practised ease of a professional. "I am not alien to the place (Dharavi). I live here, I know these places. I have shopped there for leather like anyone else."

Despite the familiarity, what never fails to shock her is the inequality that is sewn into the fabric of the city. Working on Gully Boy drew an even starker picture of the harsh truth. Many have said that this is perhaps the most political movie she has made so far, also the most boldly and openly so in recent times.

Akhtar does not respond directly to the observation. No movie can really be apolitical, she says. Be it an entertainer, a thriller or a biopic, a film reveals everything about how one looks at race, gender, love, equality and whatever else you can think of. So in that sense Gully Boy is political but so is every other film. And it is as much about politics as it is about an ordinary human beating the odds to keep his hopes alive. As a woman and a director

what does she make of the odds industry, in the wake of the #Metoo movement? She feels that Bollywood is unfairly singled out in this case; other industries have worse stories. It is all part of the national narrative around women. 'We (women directors/writers) put out a statement that we won't work with proven offenders. Today, we are in a position to employ people and that is the best way to ensure a safe working environment."

Akhtar has another appointment to go to and the restaurant is about to close and hunger is gnawing at our insides. We look hopefully at the gentleman who has materialised by our side. He smiles ruefully, the kitchen has closed.

Zaid crops to the rescue



PEOPLE LIKE THEM

GEETANJALI KRISHNA

t a time when farmer distress is on an all-time high, I find myself looking for farming models that are able to tweak traditional agricultural practices to increase profit. Years ago, I saw one such model in Bharatpur (Rajasthan) where farmers fed their cattle the same grain they'd traditionally given them but after they'd sprouted it. The simple act of sprouting improved their milk yields substantially. Last year, I met the good people of Nagla Tula who craft garments from desi rain-fed cotton that they commission farmers in Tamil Nadu, Karnataka and Telangana to grow, reviving traditional and long-forgotten multi-cropping techniques. Unexpectedly, farmers made tidy profits on the chilli they had planted with cotton. Similarly, last week, while on field visits to Barabanki (UP) and Panipat (Haryana), I saw farmers successfully plant zaid crops to boost their income.

Zaid crops are essentially irrigated crops that can be planted between rabi and kharif seasons from March to June to give farmers income from a third crop every year. In Barabanki, the zaid crop of choice is *mentha arvensis* (wild mint). Sown in mid-February and harvested two times from April onwards, mentha leaves are dried to extract oil. This is used in products ranging from toothpaste to pan masala. Farmers here estimate that a bigha of mentha can yield as much as 30 litres of oil. "It is an easy crop to grow here, as we have good irrigation facilities," Tej Narain, a local farmer told me. "It's growing period also fits well in our traditional rice-wheat cropping system." Most farmers in Haidargarh, his village, have small holdings of less than two bighas. "We find it costs about ₹10,000 per *bigha*" to sow the crop," he said. "If all goes well, it gives a return of about ₹30,000". For Narain and other small scale farmers in the area, mentha has provided a muchneeded extra income. "Earlier, we left the fields fallow between the rabi and kharif seasons," he said. "Planting a third crop instead has given us added income and insulated us from risks".

Farmers in Panipat are sowing muskmelon as a zaid crop, but have tweaked the process further for better results. Like mentha, this too is sown between the wheat and rice crops. "Earlier, we used to sow melon after harvesting wheat in April," said Ram Singh, a farmer there. But they found that often. when the melon crop was in its delicate early stages, temperatures in May were too high for it. "Now, we plant melon before harvesting wheat," he said, showing me his nursery of melon seeds in a protected nook by the well. Neat ridges were already being prepared along the periphery of his field for melon plantation. This ensures that the melon crop is well-rooted before the summer sets in and has made a substantial improvement to their yield. Singh estimates that his input costs for melon plantation are about ₹1 lakh per acre. He earns between ₹2-2.5 lakh from the harvest.

Given the uncertainty of agrarian life, zaid crops can substantially pad farmer profits, boost yields and improve their quality of life. As Narain said, "mentha cultivation has changed the lives of small farmers like me — I don't think many of us would have survived without it".

Life in cantonment



PEOPLE LIKE US

KISHORE SINGH

hose of us who reside on civvy street have flawed notions about life in the country's cantonments. Once upon a time this was defined by an envy for the "facilities" enjoyed by the defence forces - subsidised canteen services, for instance, and the availability of liquor at rates no bootlegger could match. This counts for less now as hypermarkets have helped the price-sensitive housewife pick out bargains in her neighbourhood, or online, and the availability of alcohol is no longer an issue, unless you live in prohibition-bound Gujarat, Bihar, or Nagaland, in which case "connections" with faujis can help you score the occasional tipple. There are some more myths about frequent partying, or access to cars with drivers for the memsahibs, but as is often the case, the taint of a few merely misrepresents the rest.

Growing up in cantonments was a privilege and vastly different from these perceived distortions. Most cantonments, even in the midst of rapidly expanding cities, tend to be oases amidst the squalor that is urban India. Public areas are as well tended as homes and embody the spirit that we can live cohesively, and well, should we choose to. For a youngster, cantonments offer what crowded city colonies fail to provide - affordable sports facilities, libraries, clubs where you learn to socialise without being an embarrassment, tolerance and understanding of the other, and the ability to cope with

life's googlies. If that is the upside of cantonment life, there are downers too. Accommodation is not always a given with a queue for family quarters that can take up to half of one's posting with life lived in a cramped mess room. Allotted homes are often too old to cope with modern amenities. Frequent postings imply constant adjusting to newer environments, and friends, schools, teachers and uneven teaching standards. My own growing up as an army brat led me to 13 schools across the country's length and breadth in places as far apart as Deolali and Wellington, Coonoor and Kolkata, Kasauli and Pathankot.

My father wasn't the only fauii in a family that has had strong martial roots. Both grandfathers served in the Army – one travelling to London before the start of the second World War to pick up a medal and a pension guaranteed to three generations, the other participating in the same war and doing time as a prisoner of war in Italy. Expectedly, several members of the tribe chose the Army as careers, taking hardship, non-family postings in their stride while helping their own children compete with their civilian peers whose continuity in education served them better when it came to studying for higher education and alternative professions.

But the lure of the Army remains strong among children of defence personnel. The new generation in the family is spread all the way from Congo as part of a UN peacekeeping force to those who have qualified as pilots in the Army's aviation wing, while others remain in the infantry. artillery and armoured corps. As a grateful nation pays lip-service to our soldiers keeping vigil in these ratcheting times, we might do well to remember that life in the cantonments isn't just about pruned trees and starched linen. And that soldiers are being lost every day on the borders while we pursue our own, less altruistic, aims.

The week's takeaways

erhaps the biggest positive takeaway from the military action over the last few days is the evidence of India's new diplomatic heft. People old enough to remember earlier conflict situations will recall how no non-aligned country spoke up for India during the wars of the 1960s — though India had been a co-founder and leader of the non-aligned movement. Even in 1971, it was principally the Soviet Union that stood by India, as it had done more than once by using its veto in the UN Security Council. In comparison, today India enjoys the support of not just the leading western powers but also of middling powers like Australia, friendly engagement with Russia, and most remarkably some helpful intervention by Arab countries. To have the external affairs minister speak as a guest of honour at the Organisation of Islamic Cooperation, even as the Pakistan foreign minister feels obliged to boycott it in protest, is something that few would have predicted.

The change in the diplomatic situation began with Bill Clinton and Kargil in 1999, and has to be credited to the sustained diplomacy of successive governments and prime ministers, including the present one; India's increasing importance as a market; and changed perceptions about Pakistan as "an international migraine", to quote a former US secretary of state. Husain Haqqani, the former Pakistan ambassador to the US, had to point out the uncomfortable truth to Islamabad that not one country had spoken out in its favour after India sent in its Mirages.

The biggest negative takeaway from this past week has to be the news-distorting nationalism of ratings-hungry TV news channels, with bellicose anchors screaming war from the safety of their studios while the wives of fallen soldiers pleaded for dialogue and peace—and got trolled for their pains. It is an old dictum that one should not fall prey to one's own propaganda, and it must be hoped that those in charge of national security and international relations have cooler heads than those venting on talk shows. It would be as well to remember the pressure that news television mounted on the Vajpayee government to yield to the Kandahar hijackers, leading to the freeing of (among others) the leader of the Jaish-e-Mohammed. The country is paying for that today.

The truth about the military engagement over two days is that it was not a clear victory for India. The Modi government has taken a step forward by putting in place a more aggressive response to cross-border terrorism, and by striking targets in Pakistan, but the country has also lost a fighter plane. Though the prime minister has talked somewhat needlessly of pilot projects and the real stuff to come, India cannot be sure of a clean victory in any full-fledged conflict—even if there is reason to engage in such.

Indeed, the loss of the MiG-21 raises the inevitable question why the air force still has to fly such dated aircraft, putting both planes and pilots at risk. The failure to equip the armed forces with contemporary weapons in sufficient numbers, such as to offer a demonstrable deterrent, points to the hard fact that defence budgets (especially for weapons acquisition) have been squeezed for years together. The finance minister rightly asked why India should not do what the Americans did by taking out Osama bin Laden. The only reason why not, is the difference in capabilities. That is what needs to be addressed.

There is one other domestic issue to consider: Is the policy on Jammu & Kashmir working? The figures show escalating violence and killings, while field reports talk of growing alienation in the Kashmir valley. The unusual experiment with a coalition government comprising polar opposites did not last, and the state is under President's rule. Terrorism in the state would not continue if it had no domestic roots. Ignoring this reality is not going to achieve anything. Instead, matters could get worse—especially if there are more episodes of Kashmiri students and workers being driven out of other parts of the country. The Kashmir problem cannot be ended without winning over the Kashmiri.



Imran Khan's choice: Lead or follow on

In last 50 years, Pakistan has lost face, support and economic status. Balakot has given Khan a chance to change that

NATIONAL INTEREST

here are two challenges when you talk about Pakistan today. First, whether you focus on the history, geography or politics. And second, whatever tack you choose, where do you begin? I could have begun this National Interest, for example, with 2019, today, as Wing Commander Abhinandan Varthaman returned home. I could have also chosen 2009, 1999, 1989 or 1979.

I am taking you back, instead to 1969, don't worry, you will be back soon to Friday, March 1, 2019.

It was in 1969 that Muslim countries, smarting under Israel's spectacular victory in the six-day-war of 1967 decided to form Organisation of Islamic Conference (OIC). Indira Gandhi wasn't about to stay out and decided to send minister Fakhruddin Ali Ahmed (later President of India) as the head of the Indian delegation.

Her move was thwarted by an outraged Pakistan. It found sympathy in the ummah. The SHEKHAR GUPTA Islamic world accepted the log-

ic that there could be no OIC without the country with the largest Muslim population in the world at the time. Remember, Pakistan was yet undivided. India was left rejected and humiliated.

Jump exactly 50 years, as we had promised, to March 1, 2019. Watch External Affairs Minister Sushma Swarai holding forth at the OIC summit as an honoured guest. She delivered a finely crafted speech, which underlined India as a home to the third-largest Muslim population in the world. She said Muslims were integral to India's diversity and, less than 100 of them had joined ISIS.

Of course, there will be many valid arguments and qualifications here, over her party's marginalisation and "Otherisation" of the mainstream Indian Muslim and the demonisation of Kashmiris. But please do not overlook at the significance of a top woman leader of a conservative Hindu nationalist Indian government saying this to the world's Muslims. Even more, you can't miss the supreme irony of a sulking Pakistan staying out of this OIC summit in protest against the

Fifty years ago, Pakistan had the power to veto India's presence at the premier Islamic alliance. Today, all it can do is express hollow peeve and humiliation with a boycott. How did Pakistan, which calls itself the "Citadel of Islam" (Islam ka Qila), with its nukes and missiles, 20 crore Muslims, get itself in such a sorry place? Think about it.

will now drag you back 40 years to 1979. Pakistan lost the 1971 war and broke up. It was still rebuilding

itself — and quite well — when the Soviet Union invaded Afghanistan. It brought America and its allies, including Saudi Arabia and China in as, what is now called, the Af-Pak region became the hottest battlefield of the Cold War. Pakistan was their willing, capable and indispensable ally. This started the process of easy and free re-arming of the Pakistani military, strengthened new dictator Ziaul Haq who, over time, began to see himself as the true com-

mander of this jihad.

The new power had gone to his head. If they could lead this war against a superpower, why couldn't they do so against India? This grew into a kind of national hubris. Please note again that militancy began in Indian Punjab in 1981, the AK-47s appeared the following year, and then RPG-7 grenade-launchers. These were standard Afghan jihad weapons.

I made my first visit to Pakistan as this phase was peaking, in the summer of 1985, to cover the trial of Sikh hijackers of an Indian Airlines aircraft. I was awed by the difference in the levels of ordinary people's prosperity, quality of life, infrastructure, even the quality of telecom services, which was like oxygen for journalists in the pre-internet era. In short, the average Pakistani lived much better than the average Indian in 1985. Data tells you why. Pakistan's per capita income then was about 60 per cent higher

Apologies for doing this to you again, but leapfrog to 2019. Now, the average Indian earns about 25 per cent more than the average Pakistani. How did the Pakistanis, despite their newfound geo-strategic value for those winning the Cold War, lose a 60 per cent head start and slip so far behind? That gap is increasing almost by five percentage points every year. The Indian economy is growing by about three percentage points faster than Pakistan's, whose population is rising at twice the pace of India's. The net result is a nearfive per cent, steady differential in per capita GDP.

How did we get here? Zulfikar Ali Bhutto famously threatened a 1,000-year war on India. In the 50 of these since 1969, Pakistan has so lost its pre-eminence that even its ummah prefers India to it. In the 40 years since it embraced jihad, it has ruined its economy. But wait, this isn't all the price Pakistan has paid for this permanent blood feud with India. Keep adding.

 $B^{\mbox{y}}$ 1989, the defeated Soviets were negotiating their retreat from Afghanistan. A victorious Pakistani establishment instinctively turned its attention east. This is precisely when the ongoing troubles in Jammu and Kashmir began. The selfstyled Ghazis in khaki were now going to win the jihad that really mattered to them. The next three years were the bloodiest. Kashmir and Punjab count ed corpses by the thousands.

But Pakistan grappled with some internal changes. Democratic forces fought back often, and Zia's legatees were engaged in an internal tussle with politicians. Nawaz Sharif, originally an army favourite, preferred peace. He dared, exactly a decade after the insurgency in Kashmir was launched, to make peace with Vajpayee, in January 1999. His army responded by infiltrating Kargil that winter.

Pakistan lost that war and two more important things: One, the larger global view that Kashmir was a disputed territory ended. There was new unanimity that the Line of Control was the de facto border and must be respected. Second, the same year, Pakistan lost its hard-earned democracy again as Pervez Musharraf toppled Nawaz. In those 10 years, therefore, Pakistan lost its moral cause on Kashmir and returned to military rule. All because of that one selfdestructive obsession.

We have come a long way since. With the madness of 26/11 Pakistan earned the awful but well-deserved status as the locus of global jihad. Then, as during the Kargil and post-Parliament attack standoffs India had the world on its side by acting responsibly and not retaliating. Today, India has the world, including Saudi Arabia and UAE, on its side even after it retaliated.

Let's make a balance sheet. In 50 years, Pakistan lost its pre-eminence in the Islamic world. The Arabs are counselling restraint to it, Iran is hostile. In the past 40 years, its per capita income has suffered almost a 90 per cent net deficit relative to India and the gap is rising. In the past 30, it has lost its campaigns in Indian Punjab and Kashmir, and permanently embedded iihadis in its cities and institutions. And in the last two decades, the LoC has become the de facto border in Kashmir, nobody has any patience with terror as an instrument of policy, there isn't even token disapproval of India bombing Pakistan's mainland, and most importantly, India and the world have called Pakistan's nuclear bluff.

Imran can carry on as in the past, or take fresh guard and begin a new inning. It will be risky, but there is a chance of success if he dares. If he doesn't. two things are guaranteed: Failure for him, and continued slide for his nation despite its talented people, strong nationalism, the gift of geography and a formidable army. That's the bottom line.

By Special Arrangement with ThePrint

Who wins if India and Pakistan fight?



VIEWPOINT **DEVANGSHU DATA**

ars have been fought for all sorts of obscure reasons, ranging from the entirely rational to the completely insane. Russia and Japan, for instance, once went to war in order to win a Chinese contract to build a railway line in Manchuria. The Taiping Rebellion. which led to the deaths of over 20 million. was sparked off when a man who claimed to be the younger brother of Jesus Christ demanded the right to establish a heavenly

kingdom. Sundry wars everywhere have

been fought over religious minutiae that

make little sense to non-believers.

This war between India and Pakistan is being fought for rational reasons. One side has consistently pursued an asymmetric strategy of fomenting terrorism and insurgency for nearly three decades and it sees no reason not to continue. The government on the other side wants to win reelection and is looking to score points Hence, it looked to escalate matters by air strikes across the border after five years of doing very little. That meant, of course, that the Pakistanis had to escalate further. Of course, India and Pakistan are not

officially at war. But both sides have mobilised resources and there has been heavy and continuous shelling ever since the Pulwama terror attack. Both sides have claimed kills in aerial dogfights, and the airspace has been shut down and civilians have been evacuated from border areas. In effect, this is a war, though neither side has bothered to declare it. That leaves some diplomatic wriggle room of course.

More than casualties in military action. this war is one of perception. It has already seen the generation of terabytes of fake news and disinformation. Cyberspace has been flooded with conflicting reports and pictures sourced from all over the place. What makes matters more confusing is the ganda on social media where conflicting fact that officials on both sides have made absurd and unverifiable claims.

Indian officials claimed "off the record" that the airstrike at Balakot killed anywhere between 300 and 650 terrorists. Pakistan claims the only casualty is a crow. Who knows what the truth is? Pakistan claimed it downed two fighters and produced one IAF officer as proof. India denied that Wing Commander Abhinandan had gone missing for several hours until he was paraded on TV. India continues to insist that one Pakistani fighter was downed, and Pakistan continues to stoutly deny this happened.

In wars, adversaries routinely indulge in propaganda. Governments lying to inflate their successes, to conceal weaknesses and to deflate losses are age old phenomena. One classic example of that was the Spanish Flu that killed millions in 1918-19. The Flu originated in America and it infected millions of troops sitting in the trenches of Western Europe. But it's called the Spanish Flu because Spain, being a non-combatant, was the first nation where the national media reported its existence.

A hundred years later, the difference lies in the amplification of lies and propa-

narratives and fake news are competing for eyeballs. This makes it impossible for even balanced neutrals to make sense of what's going on. It also devalues the authenticity of official releases from either government since the claims by one country are instantly denied by the other. The ensuing trollfest may be entertaining but it obfuscates the truth, whatever it might be.

War was once famously defined as diplomacy by other means. But what are the strategic objectives of these two governments now? One would just like to keep the pot boiling in Kashmir. The other would like to win an election.

Oddly, those objectives may not be incompatible. The Modi government has done more to foster alienation in Kashmir than any previous central administration. It has also done its best to polarise Indians along caste and religious lines. That cannot make Pakistan unhappy. By allowing India to claim a diplomatic victory. Pakistan can strengthen the case for Modi's re-election. Hence, it could be looking to de-escalate, seeing a potential win-win.

Twitter: @devangshudatta

Reignited nepotism

EYE CULTURE

VIKRAM JOHRI

ne of the hallmarks of the new ingness to welcome new talent et to fame, glamour and super success. not connected to the notoriously nepotistic industry. From Ayushmann Khurrana to Rajkummar Rao, Bollywood is increasingly offering roles to outsiders, a term reserved for those who are not connected by birth or marriage to a member of the industry.

This, however, is at best a qualified assertion. It is true that we see more outsiders in key roles today, but that could equally be an outcome of the sheer number of films being produced. The Hindi film industry alone produces close to a thousand films per year, with other local industries adding to that number. With so much work to go around, there is little doubt that Bollywood looks to newcomers from outside its circles.

And yet, it can be notoriously hard for a "struggler" — Bollywood-speak for a newcomer to Mumbai trying to enter the entertainment business — to make ends meet. Nawazuddin Siddiqui wrote in his autobiography of the challenges during his early days in Mumbai to find enough money to buy vada pav, the city staple. For years, he struggled in the shadows until finally achieving success with Black Friday in 2007.

The debate gained traction after it was popularised by Kangana Ranaut, who used her appearance on Koffee with Karan in 2017 to attack the industry's ways. Karan Johar, the show's host, and Saif Ali Khan, Ranaut's co-guest on the show, came out with statements criticising her, and the episode became a rallying cry for both sides of the nepotism divide. Ultimately, the word came to define the mix of insouciance and indulgence that Bollywood insiders operate with.

Last year saw a new generation of Bollywood progeny make their screen debuts, and it is perhaps a mark of how central the debate has become in Bollywood that each of these newcomers felt the need to acknowledge their privilege. Both Sara Ali Khan and Jhanvi Kapoor repeatedly expressed gratitude for the opportunities their lineage affords them. Khan was candid enough to add in one interview that it would be silly for her not to use her advantage when it is clear that there is an advantage to use.

Yet, the controversy refuses to subside. Part of the reason for the heartburn is the outsize possibilities for success that Bollywood offers. No one complains about television or theatre being

inward-looking. That's because even television stars and theatre actors (the latter perhaps covertly) hope for the sort of success only Bollywood can bestow. From brand endorsements to celebrity Bollywood, it is said, is its will- alliances, Bollywood is the ultimate tick-

> Meanwhile penotism too works at several levels. The famous argument that it can only get you a foot in the door has been lambasted by critics for its downgrading of an important insider privilege. But in the new Bollywood, where success can translate, like a chain reaction, into gains in related fields. mere appearance on the screen is no longer a guarantor of fame. A number of star kids have failed to recapture the magic of their parents - and have thus lost out not merely on roles but on other perks as well.

A look at megastars from the past few decades adds a further measure of nuance to the debate. From non-film families, both Amitabh Bachchan and Shahrukh Khan built their superstardom on the back of charisma and talent, qualities that the box office rewards and Bollywood recognises regardless of background, Indeed, a number of today's top stars, from Deepika Padukone to Anushka Sharma, are also not from Bollywood families, even if it can be argued that they belong to the same upper strata of society as Bollywood royalty, making their stint in Mumbai smoother than that of someone like Siddiqui, whose trajectory involved travelling the incomparably more chastening distance from Budhana in UP.

It has also become easier for nonactors to gain a toehold. Sohum Shah used the monies he made as a realtor in Sri Ganganagar to make films in Mumbai, arthouse darlings such as *Ship* of Theseus and Tumbbad. Like many other youngsters, his move to Mumbai was prompted by a wish to become an actor. But it is as producer that he tasted success, even as he continues to don the makeup for his own productions.

Koffee with Karan, which started the current nepotism debate, is facing those barbs anew this season, as guests on the couch, barring a precious few, trace their lineage to within Bollywood. The latest episode, for example, featured the daughter of Chunky Pandey and the son of Jackie Shroff. No matter, Like its host, the show has a carefully constructed persona that is much more about signalling to Bollywood's inner gang than it is about anything material to film aspirants. May the walls of privilege continue to dismantle!

Every week, Eye Culture features writers with an entertaining critical take on art, music, dance, film and sport

One world, two nuts



LINE AND LENGTH

T C A SRINIVASA-RAGHAVAN

ere's a question for far greater minds than mine to answer: Why hasn't North Korea, which lavs claim to all of South Korea, behaved like Pakistan, which lays claim to only a very tiny portion of India?

After all, in most other respects there is little to choose from between them. They are like two peas in a pod.

Thus, both got rid of their colonial masters around the same time: Korea in 1945 and in 1947 Pakistan got created. Both were the result of a partition.

One partition was caused by common but reluctant consent. The other was caused by Russia and America. And therein lies an irony.

The British thought India and Pakistan could govern themselves. The Russians

and the Americans thought that Korea was unfit for self-rule.

So the British walked away leaving India and Pakistan to it. But the Russians and the Americans created two protectorates — one each in the North and the South of Korea.

In the event, while India and South Korea showed they could govern themselves, Pakistan and North Korea have shown they can't, not quite.

Pakistan immediately went to war against India — just two months after breaking away. North Korea went to war against South Korea in 1950. In 1953, its army was roundly defeated. Korea formally broke into two in 1953.

The same thing happened to the Pakistan army in 1971. Pakistan broke into two.

The Koreans now have the demilitarised zone (DMZ). We have the LAC (Line of Actual Control), now called the LOC (Line of Control).

The Russians groomed the North Korean Army and armed it. They even helped out with nuclear technology. The Americans didn't go that far but

they did arm Pakistan to the teeth. They also turned a blind eye to Pakistan's progress towards nuclear weapons in the 1980s. In the 1990s, the Russians dumped

North Korea as a huge nuisance. The Americans dumped Pakistan for the same

reason — also in the 1990s. Freed from American pressure, Pakistan tested its nuclear weapon in 1998. North Korea tested its in 2006.

Today, both have become Chinese protectorates. China has a veto on international cooperation against these two countries.

The North Korean economy is in a mess. The Pakistan economy is also in a mess..

The differences

But major similarities end here. North Korea, after some initial acts of terrorism. gave it up in 1983. Pakistan started developing terrorism exactly then, in fact, in the same month — October.

North Korean troops indulged in some minor transgressions of the DMZ and the Northern Limit Line in the West Sea. But Pakistan, the lakhs of minor skirmishes apart, has gone the whole hog at the LOC not once but four times. On that score, at least, it is the bigger nutcase.

Another difference: The North Korean army knows its limits and has behaved itself. The Pakistan army, in contrast, has no concept of limits and has been causing mavhem wherever it can, including within Pakistan. Its Jihadi groups are like those country made handguns of North India: They can fire in both directions.

However, in mitigation, Pakistan chooses its head of government via elections. North Korea takes the hereditary

But the real power in both countries lies with the army. Pakistan's prime min-

ister appoints the army chief and is then controlled by him.

everything but is just as vulnerable to the army's power. If the army wants it can depose him in a jiffy. In Pakistan, there is active politics, a vibrant civil society, a reasonably free

press, an excellent judiciary and a general

longing to be rid of the army yoke. In North

In North Korea, the top guy heads

Korea, it is the very opposite. Pakistan has a great sense of humour. North Korea has the Great Leader who decides when a citizen may laugh.

The paradoxes

There was a time when the US dandled Pakistan on its knees and treated North Korea like a wild hooligan. Now it is the other way around.

North Korea is being pulled out of its 65-year isolation by, of all countries, the US. In contrast, Pakistan is being pushed into it after 65 years by, of all countries,

Russia, which had always treated Pakistan as a pariah, is now trying to prevent this isolation thing. And China is picking up the debris of the old relationships, more so in Pakistan than in North Korea.

In the end, though, everyone has a bad feeling about all this because neither North Korea nor Pakistan can be trusted. They are like that only, total nutjobs because, as has been well said, while other countries have armies, in Pakistan and North Korea the armies have a country.

THE EDITORIAL PAGE

WORDLY WISE

YOU MUST NOT FIGHT TOO OFTEN WITH ONE ENEMY, OR YOU WILL TEACH HIM ALL YOUR ART OF WAR.

— NAPOLEON BONAPARTE

The Indian EXPRESS

Solve To Solve

RAMNATH GOENKA

BECAUSE THE TRUTH INVOLVES US ALL

PULWAMA PULLBACK

A cautionary note as the pilot returns: No need for triumphalism on camera or off it

ITH WING COMMANDER Abhinandan's return home, hopefully, the de-escalation of tensions between India and Pakistan will gather pace. The next few days and weeks will be a test for the governments of both countries — of how they keep steady as they ease back from the brink. The Narendra Modi government will need a lot of room for manoeuvre as it steers towards business as usual with a difference — it has made its point that there will be no more impunity for terror. At this delicate juncture, however, there may be at least two reasons to worry that that space could be constricted and constrained. There are two cautionary notes to be struck. One, with Pulwama and Balakot taking place almost within touching distance of a critical parliamentary election, politicians of the ruling party and in the Opposition, and especially the former, must resist the temptation to use it to draw harder lines within. And two, crucial discursive space must not be abdicated by the political leadership for studio warriors on television and in social media spaces to rush into.

On Wednesday, a meeting of 21 Opposition parties flagged the first concern. They were anguished, they said at the "blatant politicisation" of the sacrifices of the armed forces by the ruling party. The reaction of two senior BJP ministers to the Opposition's intervention only seemed to confirm the allegation. Prakash Javadekar said that the "Opposition parties' statement has pleased Pakistan and its media"; Arun Jaitley said "Your ill-advised statement is being used by Pakistan to bolster its case". That the BJP leadership should seek to label its political opponents as playing into Pakistan's hands simply because they are raising questions on its handling of a matter of national security is unacceptable. It is as unseemly as BS Yeddyurappa boasting that India's pre-emptive strike against a terror camp in Balakot will assure the BJP of 22 seats in Karnataka in the upcoming Lok Sabha election. Or party president Amit Shah drawing a direct line between the IAF strike across the LoC, the surgical strikes after the Uri attack and the upcoming national election at a party event in Lucknow. Of course, this attempt to taint the political adversary as unpatriotic as a way of banishing democratic dissent is not a post-Pulwama phenomenon. It was seen and heard earlier during the campaign for Bihar in 2015, for instance, when Shah claimed there would be fireworks in Pakistan if the BJP lost the assembly election. Or when PM Modi himself insinuated that a conspiracy against his party was hatched over dinner by a former PM and vice president of India with senior Pakistan officials ahead of the Gujarat elections in 2017.

The war-mongering on vast sections of the electronic media is part of the noise of a vibrant and talkative democracy. It becomes a matter of concern, however, if and when it assumes the ring of authority. Post-Pulwama, it needs to be said again: TV anchors may delude themselves into thinking they are leaders but if the reverse should happen it would be a terrible thing.

SLOWING DOWN

Latest data on economy could help build a case for monetary easing or another rate cut when RBI reviews monetary policy

OT SO ROBUST news has come in on the economic front. The Central Statistics Office's (CSO) just-released second advance estimates of national income for 2018-19 show growth in gross value added (basically GDP, net of indirect taxes and subsidies) at 6.8 per cent. This is below the 7 per cent estimate that was made in the CSO's earlier release on January 7. The 6.8 per cent figure comes on top of the 6.9 per cent figure for 2017-18, which makes it a second successive year of below-seven per cent growth. And if one compares it with the 7.9 per cent, 8 per cent and 7.2 per cent rates for the preceding three fiscals, it adds up to a not very pretty picture — of an economy that has recorded deceleration in the last two years of the Narendra Modi government, after having accelerated in the first three years.

Equally worrying is the year-on-year growth in October-December 2018, which, at 6.3 per cent, is the lowest in six quarters. Taken together with a 1.8 per cent annual growth in production of eight core infrastructure industries in January — the slowest pace of growth in 19 months, it is not what any government would like to project ahead of elections. The higher than expected slowdown also comes at a time when global economic growth is moderating, amid fears over Brexit, and with domestic flows to the stock markets which were robust last year tapering off, leading to the Indian markets under performing vis a vis other major markets in Asia. Viewed against this backdrop, it now appears that the RBI under its new governor, Shaktikanta Das, made the right call last month when it changed its policy stance from calibrated tightening to neutral and cut the repo rate by 25 basis points.

The latest data on the economy should help further build a case for monetary easing or another rate cut when the RBI reviews its monetary policy in April. Contrary to the belief last year that the Narendra Modi-led government too would leave office showcasing accelerating economic growth, like the first NDA government under Atal Bihari Vajpayee, it now looks like there could be parallels with the previous UPA government in terms of deceleration in economic growth at the end. With polls around the corner, the serious work of repairing the economy may have to wait until a new government takes over. If that's the case, regaining the growth momentum may take longer even if there is a near term boost because of poll spending.

DOCTOR HADIYA

She has found her way, as women do, when they are not obstructed and thwarted

HE PHOTOGRAPH OF a hijab-clad woman wearing a doctor's coat and a stethoscope, was accompanied by the best congratulatory message that could have come the young homeopath's way: In a Facebook post, Shafin Jahan shared his wife Hadiya's achievement and wrote: "This shining victory is an outstanding achievement because it comes at the end of count less prayers applied these struggles of

Hadiya has proved her mettle many times over since her marriage to Shafin and conversion to Islam in December 2016 led her father to appeal to the Kerala HC to annul her wedding. From her parents negating her choice of partner with their contention that she had been indoctrinated for recruitment to the Islamic State in Syria, to the Court dismissing her voice as that of a woman "weak and vulnerable, capable of being exploited in many ways" and annulling her marriage, Hadiya has lived out the nightmare in which agency is denied. Yet, she has fought her battles in a way only a woman can.

In a recent commercial for a sports brand, tennis star Serena Williams takes viewers through a quick account of how sportswomen, and indeed all women testing boundaries, are dismissed with a pejorative "crazy". Yet, crazy can be groundbreaking good — it can mean a woman deaf to the repressions of society, a woman determined to stand up and be accounted for, a woman who will not be infantilised. With her recent accomplishment, Hadiya has shown that sometimes the most empowering thing for a woman is simply to be left alone. She can find her way.

The road from the brink



For India and Pakistan, the bigger challenge is to re-imagine a win-win narrative

PRATAP BHANU MEHTA

ONE MILITARY EPISODE cannot, by itself, decisively change the trajectory of one of modern history's longest running conflicts. But, as both sides — India and Pakistan — signal temporary de-escalation, it might be worth revisiting the historical and psychological dynamics that constitute the present moment.

The settlement of 1947, developments within Pakistan and the trajectory of geopolitics has produced a state of Pakistan with dual insecurity. The state has a problematic relationship to Islam that gives radical groups more state patronage than is healthy for Pakistan. The army requires perpetually feeding a sense of insecurity, inventing threats where there are none. Pakistan is internally diverse and complex, but its political currents don't make much of a dent on these structural realities of the state. Pakistan's internal dynamics and its identity are still the most important drivers of this story.

The great powers have consistently had a stake in the Pakistani state. Americans could not call the bluff of the Pakistani state, militarising the society to an unprecedented degree. Now, the Chinese see it as an indispensable asset. Saudi Arabia has close links with Pakistan. These realities are not going to change soon. There is enough international exasperation with Pakistan that India might have an opportunity for a diplomatic win or two (blacklisting a couple of organisations). But for the international community to truly put pressure on Pakistan, it will have to call its bluff on Afghanistan, China will have to bring its strategic asset to heel, and Saudi pressure will have to go beyond avoiding catastrophic conflict with India. This is still a tall order.

The consequences of military action against Pakistan are uncertain at best. Gains that accrue in the short term are nullified by simply shifting the conflict to another site. The 1971 victory produced a state that was more Islamist and insecure than ever; and, neither Kargil nor Uri produced immunity from terrorist attacks. The simple truth is that military strikes may be fully effective only if they seriously hit elite interests in the other country. But this is a level of escalation that is hard to imagine. The supply of potential terrorists and the absorptive capacity to take damage to nonelite assets is not as low as we assume. In the short run, war might even embolden them.

The human cost of the US's conventional war on terrorism was devastating and the world is still not immune from terrorist threats. The issue is not simply of whether you can undertake a conventional war under a nuclear umbrella. There are of course, unconscionably high risks there. But, the issue is also whether conventional military means can help you secure objectives against terrorism. There is reason to doubt this. It is not war, but India's internal resilience that has frustrated Pakistan.

Military action is effective if it concen-

trates the international community's attention. The international community has been complacent on Pakistan because they could count on India's good behaviour. India's stature grew. But it also could be taken for granted. What the military strikes could possibly do is re-engage the international community. But this is a double-edged sword, unless the international community really makes Pakistan's elites pay a price. It is not clear that the engagement of the international community will breach the limits on Saudi and Chinese support for Pakistan mentioned above. Whether we acknowledge it or not, the subtle re-hyphenation will, over time, begin. India should, of course, engage all parties. But the only short term winners in this round in international stature are the Saudis; they seem to be emerging as the indispensable state in the international system. The ideological consequences of this need to be watched.

India's domestic imperatives are also double-edged. This government, in particular, seeks domestic validation by taking a hard line. This government also uses nationalism as a narcotic. It wants to induce a sense of crisis that makes people rally around a strong leader. This government also totally lost the plot in Kashmir. In some ways, the Pulwama attack was probably designed to give fillip to communal forces in India, and it mildly succeeded. The Indian public is also rightly exasperated with Pakistan. But these tendencies are countered by one fact. As A B Vajpayee had sagaciously understood, democracies like India have a low threshold for military casualties. Despite the nauseating dominance of Twitter and TV warriors, Indians will not be casual about the loss of military lives, especially when strategic objectives are not clear. The sense that India's triumphant narrative lost steam since Wing Commander Abhinandan was captured is testimony to that. This is not weakness. It is humanity. So the government is now caught between two imperatives: Its pressing electoral needs (its top leaders have made it a political issue) to present a triumphant, muscular narrative on the one hand, and, the recognition that the risks of something going wrong are very high, on the other hand. Hopefully, it will find an artful way of declaring victory and move on. This will be tricky because it, in the short run, lost the narrative of war, after inflating expectations of what escalation can achieve.

Pakistan, for its part, really does need to ask the question: Are characters like Masood Azhar, and groups like Lashkar and Jaish, serving its national interests? Pakistan's obduracy on this issue has all the classic symptoms of spite, as described by the philosopher Robert Solomon. In acting out of spite "one acts for itself, but it acts against one's interest." It is more comforting for Pakistan to play victim at the hands of its own creations than to face an adversary, or look at itself in the mirror. Imran Khan's test is whether he can take Pakistan out of its own victim syndrome.

So, despite the de-escalation we are locked in a position where we can neither endure our situation nor the means to overcome it. War is at best an expression of exasperation, not a solution; at worst, it is cynical politics. Revenge is psychologically satiating, but self-destructive: Just look at Pakistan. In the short run, we hope diplomacy works. But the underlying challenge remains: Finding a win-win narrative that can help deal with the treacherous psychological complexes that have so scarred South Asia. The Manmohan-Musharraf formula was one sensible and practical proposal on the table — a win for all parties including Kashmir. But, more deeply, the long struggle for converting South Asia into a zone of exuberant freedom, rather than a contest between pinched up identities, has to continue. The cost of war and militarisation will not just be economic, it will be a warping of our souls which will forever diminish our possibilities

> The writer is vice-chancellor of Ashoka University. Views are personal

TALK, BUT NOT ON KASHMIR

India-Pakistan dialogue should focus, instead, on reviving trade

KHALED AHMED

ON FEBRUARY 27, Wing Commander Abhinandan of the Indian Air Force (IAF) was arrested in Pakistan after his jet went down during a mission inside Pakistan. He was shown on television praising the Pakistan Army for treating him well, while bravely refusing to answer questions. The officer was impressive as he spoke, his face covered with blood, a brave son of a decorated IAF officer. Pakistan has done well to return him to India for the sake of peace.

On February 26, according to the Indian news agency ANI, "Indian Air Force Mirage 2000 fighters destroyed multiple terrorist camps across the Line of Control" killing hundreds of terrorists undergoing training. This news came after the Pakistan Army spokesperson Major General Asif Ghafoor had claimed that "Indian aircraft intruded from Muzaffarabad sector" and dropped a payload near Balakot after "facing timely and effective response from Pakistan Air Force".

Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Gajendra Singh Shekhawat was the first to tweet on the attacks from the Indian government's side. This was the first time after the 1971 war that IAF had crossed into Pakistan-controlled air space, he said. On the Pakistani side Major-General Asif Ghafoor, Director-General Inter-Services Public Relations (ISPR) gave information about the "Indian aircrafts' intrusion across the LOC in Muzaffarabad Sector" to the media.

Pictures released by the DG-ISPR appeared in the Pakistani press showing a burnt steep

The two must seriously think of 'normalising', that is, allowing 'connectivity' under SAARC through free trade and free movement of goods and traffic. India should be given a road through Pakistan to another SAARC member, Afghanistan, and onwards to Central Asia. The project started by Atal Bihari Vajpayee must be carried to its conclusion — to give the people of South Asia a

chance to live in peace

Despite the de-escalation we

where we can neither endure

our situation nor the means

to overcome it. War is at best

exasperation, not a solution;

at worst, it is cynical politics.

In the short run, we hope

diplomacy works. But the

remains: Finding a win-win

narrative that can help deal

psychological complexes

that have so scarred South

underlying challenge

with the treacherous

Asia.

are locked in a position

an expression of

mountainside with "no sign of any damage to any property, apart from a few pine trees". India claimed that it had struck Balakot.

The world outside immediately focused on the infamous camp near Mansehra where the terrorist organisation, Jaish-e-Mohammad (JeM) was known to train terrorists. Mansehra became internationally known after a Pakistan airforce officer Adnan Rashid defected to the al Qaeda while training there. He later tried to kill former President Pervez Musharraf.

Musharraf, also a former army chief, who is today on the run from an anti-terrorism court says he didn't kill Benazir Bhutto but some "rogue elements within the army" might have. He asserted: "I don't have any facts. But my assessment is accurate. I think a lady who is known to be inclined towards the West is seen suspiciously by those elements." But elements within the army thought Musharraf was doing something worse: Getting cosy with India. He survived an assassination attempt.

an assassination attempt.
Even then, Pakistan and India need to talk.
Some dialogue between the two countries is on. Ramesh Kumar Vankwani, a Pakistan Tehreek-e-Insaf Member of the National Assembly, was recently in India for the Kumbh Mela. He met Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister Sushma Swaraj. The Pakistani daily Express Tribune reported him as saying: "I have communicated a positive note to the Indian leaders and I hope there will now be a change in

their behaviour." (See also 'A Hindu in Pakistan' IE, January 19).

The world is neither with India nor with Pakistan as it asks them to stop escalating their quarrel after the Pulwama tragedy. While not defending India over its violation of the Line of Control, it keeps reminding Pakistan about its "covert war" outfits like JeM and Lashkar-e-Taiba. This is something that Pakistani TV shows too have started discussing. On February 7, for instance, Dawn TV anchor Meher Bokhari, talked about the Paris-based Forward Action Task Force's (FATF) stricture on Pakistan for "not doing enough" against its "terrorists".

India and Pakistan, though, must avoid discussing Kashmir. This is because there is always a stalemate with India demanding that Pakistan let up on cross-border terrorism and Pakistan insisting on talking about all items of disagreement, "including Kashmir". Such peace pantomime has not worked and will not work. The two must seriously think of "normalising", that is, allowing "connectivity" under SAARC through free trade and free movement of goods and traffic. India should be given a road through Pakistan to another SAARC member, Afghanistan, and onwards to Central Asia. The project started by Atal Bihari Vajpayee must be carried to its conclusion to give the people of South Asia a chance to live in peace.

> The writer is consulting editor, Newsweek Pakistan

March 2, 1979, Forty Years Ago

Arms supply to Pindi will mar fies, US told withdrawal.

The proposite The mixture as before

The proposite The mixture as the

STOP ARMS TO PAK
WITHOUT MINCING WORDS India has told
America that if it supplies arms to Pakistan,
it will provoke anti-US reaction in the country. More forthcoming than the prime minister and the foreign minister during their
talks with the US deputy secretary of state,
Warren Christopher, was the foreign secretary, Jagat Mehta. He reportedly told the visiting official that the question was not that
of quantum of arms but of principal and once
the US violated it, the basic understanding
between the two would be shattered.
Christopher did not promise that America
would not supply arms to Pakistan. All he re-

portedly said was that the supply would be

confined to small arms.

INDO-US DEADLOCK

INDO-US DEADLOCK
INDIA HAS SUGGESTED to the United States that any American legislation on the question of supplies of nuclear fuel should apply to future agreements and not to contractual obligations undertaken by the US administration in the past. This suggestion is understood to have been made to the US delegation led by the US deputy secretary of state, Warren Christopher. At the two-day talks that concluded on March 1, the question of nuclear fuel supplies figured prominently but it appears that neither side seems to be budging from its position. The US delegation

insisted on India accepting the safeguards, New Delhi insisted that it could not accept any discriminatory conditions.

CHINA-VIETNAM TALKS
THE CHINESE GOVERNMENT sent an official note to the Vietnamese embassy in Peking proposing that the two countries hold talks "as soon as possible" to end their two-week border conflict, Peking's official Xinhua news agency reported. Xinhua said China proposed that both governments "appoint a vice-minister of foreign affairs as a representative to meet at an early date at a mutually agreed place for concrete negotiations" on ending their current border conflict.

-GLOBAL TIMES, CHINA

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, MARCH 2, 2019

THE IDEAS PAGE

Quota, old plus new

There are substantial inequalities even within Dalits. In addition to the 15 per cent quota, the community should also have reservation based on socioeconomic criteria



AND KALAIYARASAN A

RESERVATIONS ARE SOMETIMES criticised in a constructive manner by analysts who argue that quotas are cornered by a few jatis at the expense of those who "really need them". Among Dalits, the Jatavs of Uttar Pradesh and the Mahars of Maharashtra have been targeted by such critiques. The India Human Development Survey, and its last two rounds of 2004-05 and 2011-12, helps us assess the limitations of such a discourse which, usually, does not rely on any solid data.


In terms of their annual per capita mean income (APCMI), Jatavs are not at all doing better than other important Dalit jatis of UP: They earned only Rs 6,135 a year in 2011-12, against Rs 6,643 for the Pasis and Rs 9,077 for the Dhobis. Interestingly, the APCMI of the Jatavs had increased by 125 per cent between 2004-05 and 2011-12, whereas that of the Pasis has jumped by 162 per cent and that of the Dhobis by 198 per cent.

Despite this increase, Dalits, with an average mean income of Rs 6,847 in 2011-12, continued to lag far behind all the other caste groups, including Brahmins (Rs 15,497) and Yadavs (Rs 12,271), something which may complicate the relations between the BSP and SP. The only Hindu jatis earning less than the average Dalits were the Lodhis and the Gaderias.

Jatavs did not do that well economically in spite of a marginal advantage in terms of education: In 2011-12, 2.5 per cent of them were graduates, when graduates represented only 0.5 per cent of the Pasis and 0.6 per cent of the Dhobis. Jatavs lagged behind other Dalit jatis from the point of view of their APCMI despite their comparatively higher access to the salariat: More than 10 per cent of Jatavs had a salaried job in 2011-12, against 6.6 per cent of the Pasis and 4.5 per cent of the Dhobis. Note that, in contrast, more than 10 per cent of upper castes have graduated in UP and more than 22 per cent of Brahmins were part of the salariat.

We can explain the Jatav paradox by factoring in the class element: Jatavs are polarised, with, on the one hand, an elite group enjoying a good education as well as government jobs, and on the other hand, a mass of poor. Indeed, no Dalit jati counts so many agricultural labourers in their midst in 2011-12 (63 per cent, against 34 per cent among Dhobis). As a result, among the Jatavs, the poorest 20 per cent earned 10 times less than the richest 20 per cent (Rs 2,745 against Rs 26,363).

The situation of the Dalits of Maharashtra is not very different. Certainly, Mahars were more affluent than Mangs and Chambhars in 2011-12: Their APCMI was Rs 27,177 (and even Rs 31,241 in the case of the Buddhists) when it had reached only Rs 25,274 in the case of the Chambhars and Rs 23,070 in the case of the Mangs. But this gap is not so large, whereas Mahars continued to lag behind Brahmins (Rs 44,638) and Marathas (Rs 37,255). The rather limited gap between Dalit jatis in Maharashtra is mirrored in similar levels of education too: About 5 per cent of



the members of the three jatis — with very minor variations — have graduated (compared to 26 per cent among Brahmins).

Similarly, the percentage of salaried people among these three jatis was rather homogenous, ranging from 22 per cent (Chambhars) to 28 per cent (Mahars). In contrast, more than 54 per cent of Brahmins were part of the salariat.

These data do not allow the neutral observer to argue that Mahars have been the only or even the main beneficiaries of reservations for Scheduled Castes: All Dalits have gained something. If among the winners, some have been more equal than others, it is in terms of class. Among the Mahars, for instance, the socioeconomic differentiation is as pronounced as among the Jatavs. Here again, the richest 20 per cent earned 10 times more than the poorest 20 per cent (Rs 68,401 against Rs 7,254). These inequalities have something to do with occupation as all Mahars are not employees of the public sector, far from that: More than 44 per cent of them are still daily labourers.

A few lessons can be drawn from these data. First, to be a Dalit in UP and to be a Dalit in Maharashtra is not the same thing in terms of income, education and occupation. Second, Dalits are not catching up yet — far from that – even if the growth rate of their APCMI is among the highest. It was more than 200 per cent between 2004-05 and 2011-12 — a record — but Mahars were still earning 40 per cent less than the Brahmins of Maharashtra and 27 per cent less than the Marathas.

Third, the socioeconomic differentiation within the Dalit jatis is as pronounced as in other caste groups (see our article, 'Anxieties of the dominant', IE, January 3, 2018). Therefore, it is wrong to assume that those who need access to reservations because they continue to remain at the bottom of the pyramid for generations will get it if jatibased sub-quotas were introduced, as was recommended recently in a report commissioned by the UP government ('Quota and bad faith', IE, February 8). In the case of the Dalits, this would mean, for instance, that Jatavs and Mahars would not have access to

the 15 per cent quotas, but only to a subquota reserved to them. That would not help the poorest among the Jatavs and the Mahars who, on the contrary, would have to compete with the middle class of their caste group for a smaller number of positions. To address the problems of the most disadvantaged, a class element has to be taken into account within each jati.

But the "creamy layer" formula — which relies on class-related criteria - would not do either because of the stigma still associated with untouchability. Surveys show that when the same CV was sent to a potential employer in response to a call for applications, those with a Brahmin name were much more likely to result in a call for job talk/interview, compared to the CV bearing a Dalit name — which generated a large number of negative responses (or no reply at all). Indeed, in institutions where there is no reservation for SCs (the judiciary, Rajya Sabha, etc.), Dalits remain massively underrepresented despite the fact that they have, in their ranks, a large number of people with the required diplomas and skills.


By validating the 10 per cent quota for the "general category", the Supreme Court has unintentionally opened a window of opportunity for revisiting the reservation policy in favour of the needful Dalits. First, this decision makes it possible to go beyond the 50 per cent threshold (and not only in Tamil Nadu anymore). Second, it legitimises the use of socioeconomic criteria in the creation of reservations. In addition to the 15 per cent quota, that Dalits need to retain because of the stigma still affecting them, they should also receive a quota based on socioeconomic criteria, since it is among the Dalits that the largest numbers of poor are still found. This recommendation should apply to Adivasis too.

Jaffrelot is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris, professor of Indian Politics and Sociology at King's India Institute, London. Kalaiyarasan A is assistant professor at the Madras Institute of Development Studies

The pillar stands

"The most effective way to stabilise the Korean Peninsula is to push North

Indian statistical system can withstand political pressures. Legislation and public scrutiny can strengthen it further



WHAT THE OTHERS SAY

Korea and the US to move toward each other."

ONE UNFORTUNATE FALLOUT of the recent controversy regarding the non-publication of the labour force survey report by the National Sample Survey Organisation has been the questions raised on the autonomy and independence of the Indian official statistical system. As reported in this newspaper, the possibility of junking the survey report in favour of more acceptable numbers from other sources are being explored. An objective understanding of the official statistical system would dispel many of the fears raised in this context, but cannot overstate the need to further strengthen the institutions.

The credibility of processed official statistics require the government to stay at an arms-length from the processes of data collection, processing and dissemination. It is in this context that the need for an independent board or authority to manage national statistics is widely accepted. The heads of the national statistical organisations are thus treated differently from the usual civil service appointments.

In countries like India, the statistical system is horizontally and vertically decentralised. At the Centre, there are ministries/departments with departmental statistical offices. The vertical decentralisation happens between Union and the states — with the states having powers in some sectors as per the division of responsibilities listed in the Constitution. In this framework, the statistical officers are part of the general civil service and have to necessarily report to the departmental secretaries who are answerable to the concerned minister. Here, it is not always possible for them to exercise the kind of independence one would want them to. The situation is somewhat mitigated by having a common cadre of statistical personnel in all central government offices. This ensures that the statistical officers have on them a controlling influence outside the organisations where they work and leads to better coordination among them. We should be thankful to the foresight of the post-Independence administration for these simple administrative innovations.

Like in all other areas, a country with an established tradition of producing official statistics is unlikely to be influenced by transient factors. The Indian statistical system has enjoyed the reputation of being one of the best among similarly-placed countries. Indian statisticians have provided leadership internationally and still occupy key positions in many international agencies and many of them are actively involved in global statistical networks. This would place a moral responsibility on the official statisticians of the country to live up to the standards set by their peers in international fora.

There are also strong links between users and data producers in India with several seminars organised by the Central Statistical Office with the data-user community. There are also sessions on official statistics during annual conferences of professional bodies

like the Econometric Society or the Indian Association for Research in Income and Wealth. This has helped the system to understand user needs and the users to appreciate the problems in data collection, increasing the transparency of official data.

A proactive media furthers a system that is visible and answerable to the public. The heightened media interest in official statistics has grown with the expansion of both print and visual media besides social media in recent years. This healthy media interest is encouraging.

One sure way of eliminating any bias towards releasing or withholding of any specific official statistics or reports is to have pre-announced data release dates and strictly adhering to these dates. This is the case with the release of key national indicators like GDP, IIP, CPI, WPI, trade data, etc. However, in many cases like survey reports, no such release dates are announced. This provides an opportunity for the ruling regime to decide on the release or withholding of reports or data.

Legislation guaranteeing the independence of statistical agencies is another way of safeguarding the independence of official statistics. Such legislation has been recommended by the UN to member countries. Efforts to legislate the establishment of a statutory statistical commission have not borne fruit in our country. The government's reluctance to part with its control of statistical information by creating statutory bodies is easily understood, given the impact, such information can have. Here the stature of the head of statistical services — in this case the position of the chief statistician — becomes very important for the professional leadership and integrity it can provide to the system. This is a necessary but not sufficient condition for the independence and autonomy of official statistics. It is seen from experience that in most similarly-placed independent authorities, the government of the day has always a dominant say in the decisions.

censuses and surveys to validate or question statistics produced by administrative authorities from their records have been part of the Indian system. Census and surveys are generally transparent exercises using widely-accepted concepts and definitions involving non-governmental experts in their design. Administrative records are not usually available for public scrutiny and the statistics compiled from them do not have the same technical rigour. Very little is known about the point of data generation and the manner in which the instructions are understood or followed at the primary level. Many times, small changes in the procedures or coverage affect the comparability of such data. Where the data are used to assess the achievements of targets assigned to the implementing entities, it is possible that such data gets compromised. The strong tradition of independent statistical surveys and censuses has helped provide alternative narratives in the Indian context.

Reliance on independently-conducted

The pillars on which the statistical system in India stand are very strong and can withstand efforts to tilt it in any direction. The public and media interest in the current discussions on the autonomy of Indian official statistics is a very encouraging development.

The writer is former head of the National Statistical Commission



Blue revolution that will be

A new department and fresh policies have given a spurt to productivity of fish farms

The 'creamy layer' formula

related criteria — would not

stigma still associated with

shown that when the same

CV was sent to a potential

employer in response to a call

for applications, those with a

Brahmin name were much

a job talk/interview,

a Dalit name — which

reply at all). Indeed, in

more susceptible to result in

compared to the CV bearing

generated a large number of

negative responses (or no

institutions where there is

no reservation for SCs (the

judiciary, Rajya Sabha, etc.),

Dalits remain massively

under-represented.

— which relies on class-

do either because of the

untouchability. Surveys

Tarun Shridhar

CREATING A SEPARATE department for fisheries in the Union government is a significant step. Fisheries are the primary source of livelihood for several communities. A concentrated effort by an independent department could help the government achieve its objective of doubling farmers' income, provided its policies address the challenge of sustainability.

India is the world's second-largest fish producer with exports worth more than Rs 47,000 crore. Fisheries are the country's single-largest agriculture export, with a growth rate of 6 to 10 per cent in the past five years. Its significance is underscored by the fact that the growth rate of the farm sector in the same period is around 2.5 per cent.

sebbratever, lbke, i patietroethed worldh, l'Adeiry proufishe and does a no actoe and inland water fisherication of the challenge of the ch tainability is the inf December 2816 and the fattler ming through increased coarrage en-Organisation's State of World Fisheries and hanced productivity, species diversification wedding. From her parents negating her choice of partner with their contention that she Aquaculture reports note that nearly 90 per—and better market returns. had been indoctrinated for recruitment to the Islamic State in Syria to the Court dismiss-cent of the global marine lish stocks have elthes been pure as a project and other properties are the properties are the properties are the properties and the properties are the pro depleted by an and annual ingdovernanciago Hadiyon bas lived out the night in section which or

badriologically ipossibleshe has fought her battlesonts weithouly as icountroand motor. These In pade to proper the evarior grassing idend, teased statement appropriate hereards are in the control of the c mand for animal protein, global fish producture, waters: High value species such as tuna cantinough a quick account of flow sports women, and indeed all women testing boundation should touch 196 million tonnes by "not be caught by fishermen who use these aries, are dismissed with a pejorative crazy". Yet, crazy can be groundbreaking good—2025—it currently stands at 171 million "vessels. This means that while the near-shore tot faes making wow and can't on be repressions of society wavenage design; not easier to the control of the co plent bear accounted for favorous, who will not be infactly is solve that the face of the control of the contro

country has a comparative advantage in this respect. It has a marine fisher population of 3.5 million; 10.5 million people are engaged in inland fishery and fish farming. However, the productivity in both sectors is low — in terms of per fisher, per boat and per farm. In Norway, a fisherman/farmer catches/produces 250 kg per day while the Indian average is four to five kg.

However, the performance of this sector in India is impressive when one compares it with the average growth of the fisheries sector all over the world. The Blue Revolution scheme launched a few years ago seeks to make fishery and aquaculture a viable and rewarding vocation. The scheme adopted a two-pronged approach: Sustainable capture

nexerto, iHapbiyai has Blooked ith as obegriotees the most emerging these three for as worthin ably tial to lyridate their annier avided ritigance noway will bring immense benefits to fishing comtrates on aquaculture — fish farming. The munities. The new National Policy on Marine

Fisheries, therefore, talks of introducing deep-sea fishing vessels and assisting fishing communities to convert their vessels and gears for the waters beyond.

We, however, need to be cautious of falling prey to the temptation of introducing large-scale industrial fishing. We must factor in the sustainability challenges and acknowledge that fishing is a primary livelihood activity for a large number of communities and individuals. The policies framed by the new department should aim at enhancing productivity, better returns and increased incomes.

The policy envisages intensive fish farming through increased stocking of seed, better feed quality and diversification of species. Innovative practices such as re-circulatory aquaculture system aim to realise the goal of more crop per drop. As a result, the productivity of freshwater fish farms has gone up to more than 3 metric tonnes per hectare from the 2.5 tonnes per hectare. Productivity of brackish water coastal aquaculture has touched 10 to 12 metric tonnes per hectare a sharp increase from the previous two to four tonnes per hectare. Thirty thousand hectares have been added to the area under fish farming. The government has invested in hatcheries to meet the ever-increasing demand for good quality fish seed. The expansion of aquaculture would increase this demand exponentially. Future policies must prioritise seed production in order to attain self-sufficiency in the sector.

The introduction of cage culture in reservoirs and other open water bodies has led to an increase in output. Nearly 8,000 cages have been installed and even though a cage gives a modest yield of three tonnes of fish, this translates into a more than 1,000 per cent increase in productivity. This new practice gives freedom to fishermen from the risk of traversing dangerous rivers and restricted

Regular stocking of reservoirs and other water bodies has resulted in a marked increase in catch. Open sea cage culture is at a pilot stage and the initial trials have given promising results. This may prove another game changer.

The investment of Rs 3,000 crore in the Blue Revolution is being supplemented through the Rs 7,523-crore Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. This will meet the capital investment

requirement of this sector. The new department will give undivided attention to creating and strengthening infrastructure facilities in marine and inland fisheries and give a boost to aquaculture and postharvest activities. The country should be producing more than 15 million tonnes fish by the end of 2019. It should be on its way to become a hub for sustainable fish production.

The writer is secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India

LETTERS TO THE EDITOR

FORESTS AND PEOPLE

THIS REFERS TO the article, 'How to kill a forest', (IE, February 28) and the editorial, 'Forests rights, wrongs (IE, March 1). The traditional view of conservation of nature in protected areas by relocating forest dwellers has gone through a transformation. Now the focus of conservation efforts is maintaining the natural world, where the living and the non-living constituents coexist. Traditional forest dwellers are part of such a natural system. The forest rights act tried to acknowledge these ecological dynamics. One must be reminded that the applicants are some of the

Sudip Kumar Dey, Kolkata

DIPLOMATIC VICTORY

poorest of the poor.

THIS REFERS TO the editorial, 'Call for calm' (IE, February 28). In view of the anguish against the terrorist attack in Pulwama, there was an urgent for India to retaliate. The government had promised such a response immediately after the tragedy. India has shown restraint all along. The overwhelming international support for India's position is a diplomatic victory for the country. The IAF had resrticted its offensive to a "non-military pre-emptive one". On the contrary, in the name of retaliation, Pakistani aircraft crossed into Indian airspace with the intention of destroying military installations near the border. Peace between the two nations will be viable only when both respect each

LETTER OF THE WEEK

WAR AND PEACE THIS REFERS TO the editorial. 'The day after' (IE, February 28). The editorial is right in stating that our TV warriors should exercise some restraint. It's very easy to shout and raise slogans in TV studios. It is shocking that war strategies are being discussed on television. Let army generals take decisions about the prevailing situation One cannot be a patriotic by mere lip

Hitesh Parmar, Rajkot

other's concerns. Chanchal Nandy, Burdwan

service.

FORCES MATTER

THIS REFERS TO the article, 'Staring at a stalemate' (IE, February 25). I disagree with the assertion that "India's conventional military superiority is questionable". According to Global Firepower 2018, India has the fourth-most powerful military in the world, whereas Pakistan ranks 17th. Diplomatically, Pakistan would be isolated but for China. And it harbours terrorists.

Kirit Trivedi, Ahmedabad

FINANCIAL EXPRESS WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SATURDAY, MARCH 2, 2019

WHAT DRIVES TERRORISM

Sushma Swaraj, minister of external affairs

Terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes. But in each case, it is driven by distortion of religion, and a misguided belief in its power to succeed

New norms for poll aspirants a vote for accountability

Govt does well to ask for stricter disclosure on I-T returns, mandatory PAN disclosure

HE GOVERNMENT DID well to accept the Election Commission of India's (ECI's) recommendation that candidates contesting elections must mandatorily file their income tax (I-T) returns of the preceding five years and details of offshore assets at the time of filing nomination papers. The new disclosure norms will not only apply to the candidate, but also extend to the spouse and dependents—in case the candidate is a coparcener in a Hindu Undivided Family, such details will be required of every member. This is a sea-change from the norms earlier, under which candidates were required to submit I-T returns details (self, spouse and dependents) for only the previous year. Although they were required under the law to give PAN details (self, spouse and dependents), most didn't provide these; the new norms require that these details be provided, and, if there is no PAN allotted, this be explicitly mentioned. The government approved the new norms at the behest of the ECI, since these would make the scrutiny of candidates' income-history by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) easier. CBDT already scrutinises cases referred to it by the ECI, mostly where the contesting candidate's assets have seen a phenomenal increase since the last election, where PAN is not disclosed but a candidate's movable assets total over ₹5 crore and where the candidate's new movable assets, compared to the last election, is more than ₹2 crore.

The new norms will bring in a greater degree of transparency and accountability, especially in cases where the jump in assets of an incumbent seeking re-election is significant. Separate analyses by the Association for Democratic Reforms (ADR) show that, in the Karnataka assembly polls last year, the average assets of 184 MLAs seeking re-election had grown by 64% during the previous term of the assembly; in Madhya Pradesh, 65 of the 230 MLAs elected in 2013, who were also the members of the assembly in its previous term, saw their average assets grow by 300%, from ₹1.92 crore in 2008 to ₹5.59 crore in 2013. Similarly, the average assets of each of the 43 MLAs in Arunachal Pradesh, who won in 2004 and re-contested in 2009, rose from ₹1.1 crore to ₹2.4 crore—by 2014, it had risen to ₹6.54 crore.

Thus, the new disclosure norms—covering five years preceding an election—should make it hard for a candidate to hide any ill-gotten wealth. This will help the electorate keep a check on its representatives and how they are guided in their law-making function, especially where a quid pro quo involving vested interests is concerned. It will also help parties check for secretly renegade affiliates. While the CBDT and ECI are mulling overways to make the information on the former's scrutiny of cases referred by the ECI public, I-T returns disclosure as a part of the nomination process will empower voters to question representatives and seek accountability. The government should now move on the other major recommendation made by the ECI, that of making "filing of false affidavit" a corrupt practice under the Representation of People Act—this would lead to the disqualification of the candidate and a bar on her contesting for a period of six years. This is an important recommendation since falsification of facts in the affidavit reflects not just moral ineptitude to hold public office, but also could have serious legal implications.

Attack on the Aravallis

SC does well to stall Haryana's land amendments

IVEN HOW CAUSTIC the Supreme Court was in its order to the Haryana $government to \, not \, implement \, the \, amendments \, the \, latter \, recently \, made \, to \,$ the Punjab Land Preservation Act, or PLPA, it is clear that the amendments were a mistake to begin with. They would have opened up thousands of acres of the Aravallis to activities like mining and construction, with serious implications for the environment in the region. They would have also, retrospectively, legitimised illegal construction in the area—the Supreme Court, in September last year, had ordered the demolition of construction after 1992 in areas recognised as 'forest' under the PLPA in Haryana—including the infamous Kant Enclave project, and over 100 farmhouses and banquet halls built on forest land. Not only are the Aravallis important for biodiversity, they are also important for pollution control in the national capital region. But, going by how successive governments in Haryana have viewed the Aravalli question so far—while the state forest department has tried to get the Aravallis classified as forests, the town and planning department has resisted this—it is unlikely that the the amendments will be junked without exhausting all legal options.

In 2009, the Supreme Court extended its 2004 ban on mining in notified areas of the Aravallis to an additional 448 sq km spread across Faridabad, Gurugram and Mewat districts of Haryana. But the ban did little to curb illegal mining and construction. In 2017, Bharti Land felled over 7,000 trees for a real estate project in the Aravallis in Faridabad, though the entire range has been classified as a Natural Conservation Zone while the Kant Enclave stands over 440 acres of forest land. Such destruction of the Aravallis has happened with impunity because Haryana has dragged its feet on notifying large swathes of the Aravallis under its jurisdiction as forest area. Though the notification of forest area has to happen under the Forest Conservation Act—which superseded the 1927 Forest Act—PLPA lands could not be classified as forests because they have been traditionally owned by panchayats. Environmentalists have argued in the the Supreme Court for decades that the PLPA land should be notified as "protected" or "reserve" forests since they are just as ecologically significant and sensitive. In 1996, the Supreme Court ordered all state governments to identify forests in their jurisdiction; though, under the PLPA, 25,000 hectares in Haryana are identified as forests, the Haryana government's response to the SC order managed to keep over 12,000 hectares out of notification as forests. Given the SC, in its September 2018 order, had maintained that the land notified by Haryana under PLPA "must be treated as forest and forest land", the amendments would have stripped away the last vestige of protection for the vulnerable Aravallis in Haryana. In the September order, the SC delivered a stinging censure of the Haryana government, saying, "The rule of law seems to have broken down in Haryana". It is unfortunate that the state should have thought that defanging the law was the appropriate response.

SilentSufferers

Lancet's study reveals the undiagnosed childhood cancer epidemic and calls for urgent institutional action

WING TO BARRIERS of access and referral in health systems, nearly one in two children with cancer worldwide are never diagnosed and are likely to die untreated, reveals an analysis of childhood cancer cases in 200 countries. The study, published in The Lancet Oncology journal, estimates that there are almost four lakh new cases of childhood cancer annually, while current records count only around two lakh. According to the team from Harvard University that conducted the study, 92% of all new cases occur in low- and middle-income countries, a higher proportion than previously thought. The model used by the team suggests there were an estimated 397,000 cases of cancer worldwide in 2015 among those aged up to 14, and only an estimated 224,000 children were diagnosed, meaning 43% of cases were missed. While only 3% of childhood cancer cases in western Europe and North America are thought to have been missed in 2015, the study estimated a high 49% incidence of such misses in south Asia and 57% in western Africa.

With the disease having the capacity to reduce the life years of a child and harming her growth in the early-age years—the timespan in which a person is most likely to be engaged in acquiring education which marks the defining period of her physical growth—the group of researchers have rightly called for global healthcare leaders and policy makers to step up intervention to make detection more widespread and prevent the cancer burden from growing. While the problem of undiagnosed cancer cases is acute in undeveloped and undernourished economies, where appropriate healthcare is often missing, the crisis is further compounded by the fact that endemic diseases like TB or malaria often lead to doctors misdiagnosing cancer as well. The study thus highlights the need for a strengthening of the institutionalisation of cancer detection and treatment, making it more affordable and accessible to all, as well as greater and more accurate reporting of cancer cases through investments in national cancer registries—data stacks that not only give us the number of cancer patients but also allow us to track their treatment progress.

TRACK RECORD

FOR THE FIVE-YEAR TERM OF THE BJP-LED NDA, INDIA'S GDP IS ESTIMATED TO GROW BY OVER ₹76 LAKH CRORE, WITH A RELATIVELY LOWER INFLATION, FISCAL DEFICIT, AND CAD

How Modi is transforming India

The five-year

period has also

seen increased

roads, ports,

RIME MINISTER NAREN-**DRA** Modi's BJP-led NDA government completes five years in May 2019. During this time, the government deployed many unique development and governance models that are significantly different from past governments. These models have had a positive impact on India's citizens and its economy and definitely merit a detailed study that future governments can build upon. India today is the fastest growing major economy in the world. In 2018, our economy reached a formidable GDP of \$2.6 trillion and shows promise of hitting the \$10 trillion mark by 2030! The Modigovernment has undoubtedly accelerated the trend towards that target with multipronged policies and focused investments.

Equally important, this government has done more than any other government in the recent past to tackle India's biggest challenge—ensuring every Indian has access to the bare necessities of life. Significant strides were made towards ensuring a home for all citizens, food on their table, water in the tap, dependable power, a toilet in the house, a gas stove for cooking, a road to reach their homes, education for their children, a bank account with government benefits credited by Direct Benefit Transfer (DBT), a mobile phone with an affordable data plan, medical insurance through Ayushman Bharat and the increasing availability of jobs coupled with greater economic opportunities in a fast-growing low-inflation economy! By 2022, these measures will provide a solid foundation for more rapid growth along with an improved quality of life that we, as a society, must ensure for all our citizens. Jio has dramatically enhanced access to data for India. Today, all Indians enjoy unlimited access to data at a low cost of ₹100 per month. At an average consumption of 11 GB per month per person, India is the largest consumer of cellular data globally. The Stand Up India and Mudra loan programmes, along with the Jan Dhan programme, have dramatically enhanced access to credit for all sections. DBT has reinvigorated the modalities of government benefits and reduced leakages. These are tremendous initiatives that will have an avalanche effect in catapulting the productive participation of hundreds of millions of beneficiaries

into the mainstream economy. Back to economics, reforms in taxation through the GST system have created a single national market for goods and services for the first time in India. Bringing together 29 states and 7 Union territories into a single system in under five years is a remarkable achievement! The few technical glitches that were



TV MOHANDAS

This has driven immensely beneficial feed-forward effects, with overall indirect taxes coming down and increased formalisation in businesses across verticals. For the first time, the honest taxpayer has benefitted with a reduction in taxes, increased ability to compete, lower costs and greater ease of doing business. The IBC-bankruptcy

laws have made many crony capitalists pay back their loans and divested many of their companies. For the first time in our history, we are seeing many who looted our banks taken to bankruptcy with a recovery of around 45%. Phone banking has become a phenomenon of the past. Banks were forced to recognise their bad loans

has also seen an increased focus on infrastructure development with targetted investments in roads, ports, railways, airports, waterways, and more. Road transportation is getting better every day, with increased transit speeds and capacity for larger freight vehicles bringing down logistical costs. With an unprecedented investment in railways, eliminating unmanned crossings, increasing average speeds, modernising stations, and improving passenger safety and comfort are becoming realities all over India. The aviation sector has been a global success with double-digit growth over nearly 60 months enabling every Indian to fly at a lower cost. Moreover, with GST, supply chain costs have reduced, resulting in shorter times to market, decreased wear and tear of vehicles, better fuel utilisation, and so on. These focused investments contribute to making Indian business more competitive. India's economy is visibly transforming into a more productive and effi-

and recapitalised. This five-year period



Prime minister Modi has personally reviewed project execution in infrastructure, resulting in accelerated project completion, eliminating friction in the implementation of older projects, and improving overall efficiencies, preventing more cost increases and time delays. Many large construction and infrastructure companies that are capable of executing larger projects have been created. The massive spending on irrigation projects has

increased reliable water supplies to our farmers. Reforms in farming through e-NAM and higher procurement prices have improved the infra development flow of money into the with investments in farming sector. The recent income scheme of ₹6,000 per annum by DBT is a railways, airports, game changer for farmers, and waterways with more to come. The PM's personal involvement and extremely hard

> work has undoubtedly boosted the probability of success. No other country has managed such a massive change in such a short time as India has. Irrespective of your political affiliations, it is undeniable that these are a deeply impactful array of positive developments for our country.

For the five-year term of the BJP-led NDA, India's GDP is estimated to grow by over ₹76 lakh crore, with lower inflation, lower fiscal deficit, and lower CAD all implying a higher quality of growth. Conversely, the previous five years under Congress-led UPA consistently had a high fiscal deficit, high inflation and high CAD, rocking the very foundations of our economy. Latest data shows both savings rate and investment rate steadily increasing, thereby allaying fears of any declines. Contrary to false narratives, the private sector investment rate has held up remarkably well during the last five years, between 2014-2019. FDI has also increased dramatically over the five years, a consequence of renewedconfidence in our economy by overseas

investors. Globally, India's stock is high due to the massive diplomatic efforts which have deepened our relations across countries with increased respect for India and Indians.

Digital India and Start Up India programmes of PM Modi have been a masterstroke. Over \$40 billion of investment has come in over the last five years into start-ups, creating 26 unicorns, 31 soonicorns, 7 lakh jobs and radically changing India, making it the thirdlargest start-up ecosystem globally. The \$1.5 billion SIDBI Start-up Fund of Funds, several policy initiatives to promote start-ups, and the recognition of start-up founders nationally have infused new energy into this sector.

Job creation has been a major success of this government, contrary to the false narratives by biased economists and some politicians. For the first time, job creation was incentivised through the government paying the employer's share of EPF for new jobs in a country which always incentivised capital and disincentivised jobs. The EPFO and ESI data over the last five years clearly show a massive increase in formal employment by over 2 crore. The burgeoning transport sector, evidenced by an increased sale of vehicles, has created over 1.5 crore jobs over 5 years. NPS data shows over 35 lakh new jobs being added in the last five years in the state and Union governments. Income tax data on employment in the professional sector shows over 40 lakh jobs. These 4 sources alone show over 4.25 crore jobs being created over the last five years. If we add other available job creation data sources, we can safely see the creation of well over 5 crore jobs across India, under PM Modi.

In terms of governance, the BJP-led NDA has an exceptional track record. There have been no corruption scandals in the Central government over the last five years despite efforts by the Opposition to manufacture one with the Rafale deal which lacked evidence. Transparency and openness have been a highlight for government contracts. Ease of business has been enhanced with India going up in global rankings. No longer does business go to New Delhi to influence policy! Many new programmes to foster growth have been institutionalised. The one big failure has been the increase in tax terrorism. Tax disputes and amounts locked up doubled over the five years!

So what of the future? India and Indians look forward to the future with a renewed sense of optimism. From the gloom of the UPA-2 era which saw huge corruption and massive economic underperformance, the NDA under PM Modi has indeed transformed India, ensuring a brighter future for all of us.

India's economy just fell in with bad crowd

cient engine of growth that the world

Not only is growth slowing, but like other emerging—and fully emerged—markets, inflation is basically nowhere. That opens up space for the central bank which means more interest rate cuts and fiscal priming ahead of the national elections

INDIA ISN'T KEEPING the best company. When Reserve Bank of India officials reviewed the global economy at February's meeting, they ticked off a list of major emerging markets that had struggled: China, Russia, Brazil and South Africa all got a must-dobetter grade. Disappointing numbers released Thursday mean policymakers can add one closer to home: India itself.

Gross domestic product rose 6.6% in the final three months of last year, down from 7% in the third quarter and 8% in the period before that.

It is not the figure per se; the miss versus economists' estimates was insignificant. It is that India should be doing better with the avowedly probusiness government of Narendra Modi wrapping up a five-year term. (No ruling party, anywhere, wants a slowdown heading into an election).

The downdraft will likely last through midyear. At that point, lower interest rates will start to kick in and the expansion can pick up a bit. The Reserve Bank cut borrowing costs in a surprise move at its February 5-7 meeting. It is clear from the minutes, released last week, that the Monetary Policy Committee was on to something.

That is generally what you expect to happen, given lags between policy decisions and effects on the ground. But it is worth taking a step back and asking: Is this performance the kind of thing that propels a country to superpower status?

Not only is growth slowing, but like other emerging—and fully emerged markets, inflation is basically nowhere. Nowhere, and receding. That opens up space for central banks, for sure. You also have to ask whether these places have lost some of the key qualities that used to define emerging markets: high growth, relative to the West, and high inflation. They are looking more normal, or at least less abnormal.

China, the Asian country with which India is most commonly compared, is also in the growth doldrums at the moment. That torpor comes within the long-term context of GDP growth slowing from the double-digit years of the aughts. China's expansion touched 15% in 2007. India hasn't come anywhere close.

Not that gangbuster economies are always good. China's economy has its flaws. Much of the reason the country

hasn't gone open-slather in monetary easing has been a wariness to build up too much debt. The People's Bank of China is still trying to deal with the

aftermath of previous stimulus

DANIEL

MOSS

Bloomberg

efforts. When it comes to the institutional framework, there are obviously massive differences between India and China. Any leader in India must contend with Parliament, the courts and state governments. Also known as democracy. That limits how quickly stuff can get done. It can also save politicians from serious mistakes. China has competing interests and constituencies as well, but it is not the same sport, let alone ballpark.

So where does this leave India right now? More interest rate cuts and fiscal priming ahead of national elections in the next few months. It is not hard to see a rate reduction before the next scheduled RBI meeting in April. In that sense, the data is moving in the committee's favour.

Meanwhile, India is firmly a member of the 'Club EM'. For good or ill.

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

LETTERS TO THE EDITOR

The homecoming

The release of IAF pilot Wing

Commander Abhinandan Varthaman by Pakistan came as a great relief. This gesture marked a major breakthrough in efforts to deescalate the military tensions along the border and demonstrated Pakistan's desire for detente. If nothing else, it has certainly opened the door, at least slightly, for diplomacy which, needless to say, is better than war. We cannot spurn the offer of talks by Imran Khan without appearing to be uninterested in the normalisation of relations and the much-needed peace in the region. It was encouraging that Sushma Swaraj acknowledged at the OIC summit in Abu Dhabi that 'military action is just not enough'. Dealing with the causes of terrorism is no less important than combating terrorism — G David Milton, Maruthancode

Expansion of RTI

Central government should put all Public-Private-Partnerships (PPPs), sports bodies, cooperative societies and other such bodies affecting lives of millions directly under RTI Act to effectively check massive misuse of public funds by their office bearers. It is necessary because all such bodies approach High Courts to obtain exparty stay orders on CIC verdicts declaring them under RTI Act — Madhu Agrawal, Delhi

Write to us at feletters@expressindia.com

Regd. No: DL -21048/03-05. R.N.I. No. 26750/74. Printed and Published by R.C. Malhotra on behalf of The Indian Express (P) Limited and printed at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published by R.C. Malhotra on behalf of The Indian Express (P) Limited and printed at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited, Mezzanine Floor, Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published by R.C. Malhotra on behalf of The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published at The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - 201301 and published At The Indian Express (P) Limited Press, A-8, Sector-7, Noida - Chairman of the Board: Viveck Goenka, Managing Editor: Sunil Jain, Deputy Managing Editor: Shobhana Subramanian* (*Responsible for selection of News under the PRB Act) ©Copyright: The Indian Express (P) Limited. All rights reserved. Reproduction in any manner, electronic or otherwise, in whole or in part, without prior written permission is prohibited. The Financial Express (P) Limited. All rights reserved.

FINANCIAL EXPRESS

Helping young Indian entrepreneurs

While efforts to improve business environment, reduce corruption, and increase efficiency of public spending are important, they are no substitute for investment in physical and human infrastructure





NTREPRENEURSHIP **ATTRACTED** a great deal of attention from the policy-makers, given its importance to economic growth, job creation, and

development. There is strong evidence that start-ups provide strong foundations for macroeconomic stability, create jobs, enhance productivity growth, reduce poverty, support climate change agenda, and much more.

Multiple studies have examined the links between entrepreneurship and growth in developed countries, but this work is still scanty for developing countries, which has restricted the effectiveness of public policies. Why are entrepreneurship rates—entry of new and young firms—low in the developing world? Do entrepreneurship rates differ across industries, organised and unorganised sectors, and across gender? What are the similarities and differences between India and the US? Is India's entrepreneurship rate good enough to achieve double-digit growth rates, and create 10 million new workers every year, to benefit from its demographic dividend and young population?


We examined drivers of entrepreneurship rates in 20 major states, which account for more than 90% of employment in manufacturing and services sectors—see Ejaz Ghani, William Kerr, Stephen D.O'Connell, Spatial Determinants of Entrepreneurship in India (Harvard). Many studies have devoted attention to national attitudes to explain the variation in entrepreneurship across countries. But there are also significant differences in levels of entrepreneurship within individual countries. Given the disproportionate degree to which Indian entrepreneurs locate businesses in their home areas, we focused on the local area traits of

entrepreneurship at the district level. The list of local traits selected is comprehensive including demographics, education, quality of local physical infrastructure, access or travel time to major Indian cities, stringency of labor laws, and household banking conditions. We also examined other drivers of entrepreneurship including a district's caste population, conflict, trade levels, and general development levels (leading/lagging designations at the state and district level). Several studies on the US have linked entrepreneurship to education and skill levels, given that entrepreneurship requires a degree of creativity and handling of many tasks, which education prepares one for. But physical infrastructure is as important. Basic services like electricity are essential for all businesses, but new entrants, especially in the unorganised sector, are particularly dependent upon local infrastructure. We also examined other factors including a district's caste population, conflict, trade levels, and general development levels (leading/lagging designations at the state and district level).

India has historically been a nation of great entrepreneurs. But India's entrepreneurship rate is low compared to other countries at a similar stage of development, although it is improving. Entrepreneurship entry rates are a lot higher in services at 20% compared to manufacturing at 15%. Several enterprise surveys have shown that the new firm density—new enterprises created per 1,000 working age (16-64 years) individuals—in India is dismally low, and we create 288 times fewer number of corporations per 1,000 working age individuals compared to Hong Kong.

What explains low entrepreneurship rates in India? Two factors stand out as discouraging entrepreneurship in organised manufacturing: high population density and greater distance to the ten biggest cities. While manufacturers avoid the high costs of urban areas, they also avoid the most remote areas of India in favor of settings that are relatively near to large population centres to access customers directly or

ILLUSTRATION: ROHNIT PHORE





to connect to shipping routes. While India's industrialisation and urbanisation grew together in the 1990s, the two trends have now dispersed, as new entrants are attracted to less dense Are the drivers of entrepreneurship

rates in small enterprises different? Yes. First, local population and market size plays a much greater role in the unorganised sector than in the organised sector. Unorganised manufacturing conforms more closely to the overall contours of India's economic geography. The other two district traits that are associated with strong entry rates in the unorganised sector are the

structure and the strength of local household banking environment. This contrasts with organised manufacturing entry, where education stands out. An intuitive explanation is that these patterns and their differences reflect the factors on which each sector depends most. Organised manufacturing establishments have

reduce dependency on local physical infrastructure and household finance. Likewise, the unorganised sector depends less on educated workers than the organised sector. The strength of the household banking sector is very important for the unorganised sector.

broader resources that

India's entrepreneurship strength is in small enterprises. They account for over 95% of establishments and 80% of employment in the manufacturing sector. They have also become much more productive. A great deal of job growth in the manufacturing sector has come in the form of small establishments in the tradable sector, while small enterprises have contracted in the non-tradable sector. This suggests that the growth in traded industries in India, unlike in China, is not due to plants achieving larger economies of scale, and shipping goods at a distance, as is often imagined. Instead, global supply chains have integrated small enterprises in India.

What about women headed enterprises? The share of women-headed enterprises has increased in small enterprises, but entrepreneurship rates are still low. Female enterprise ownership shares are 2% or less in industries related **Entrepreneurship and the Indian** dream of more jobs and development go hand in hand. Entry of new and young firms is low, but starting to improve, and further growth in entrepreneurship is an important stepping stone for India's development


to computers, motor vehicles, fabricated metal products, and machinery and equipment. In the service sector, female ownership rates in major cities tend to be higher. Among service industries, female ownership shares exceed 30% in industries related to sanitation and education. The states with the highest female service sector ownership rates are Kerala and Tamil Nadu, and the lowest rates are marked for Bihar and Uttar Pradesh.

A better infrastructure and higher female-to-male ratio are most important drivers of women entrepreneurship. Transport infrastructure and paved roads play an important role. In addition, better electricity and water access reduce the burden of women in providing essential household inputs for their families and allow for more time to be directed toward entrepreneurial activities.


The similarities in the spatial locations of enterprises observed for India and those in the US are surprisingly large. Their differences are also instructive. First, the importance and role of education and physical infrastructure in promoting entrepreneurship are much greater in India than in the US. By contrast, other dimensions like population density and regional age structures behave very similarly.

Entrepreneurship and the Indian dream of more jobs and development go hand in hand. Entry of new and young firms is low, but starting to improve, and further growth in entrepreneurship is an important stepping stone in India's continued development. Policy makers can scale up start-ups by investing more in both people and places. While the efforts to improve business environment, reduce corruption, and increase the efficiency of public sector spending are important, they are not a substitute for scaling up investments in physical and human infrastructure.

DATA DRIVE



Cyprus Share of FDI in total investment FDI as share of GDP contracts remains marginal (%) 10 3.0 **7.3** 2.5 1.0 2 0.5 FY12 FY18 FY09 FY19 (E)



Source: DIPP, CSO

बिज़नेस स्टैंडर्ड वर्ष 12 अंक 13

सप्ताह का हासिल

आईं, उनका सबसे बड़ा सकारात्मक हासिल संभवतः भारत की नई कूटनीतिक महत्ता के रूप में सामने आया। जिन्हें अतीत के संघर्ष के हालात याद होंगे वे स्मरण कर सकते हैं कि सन 1960 के दशक की जंगों के दौरान गृटनिरपेक्ष समृह का कोई देश भारत के पक्ष में नहीं बोला। जबिक भारत गटनिरपेक्ष आंदोलन का सह-संस्थापक और नेता था। सन 1971 में केवल सोवियत संघ ही सैद्धांतिक रूप से भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। आज भारत

बीते कुछ दिनों में जो सैन्य गतिविधियां नजर को प्रमुख पश्चिमी देशों का ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का समर्थन है, रूस के साथ रिश्ते मित्रतापूर्ण हैं और अरब देशों का भी सकारात्मक हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। हमारी विदेश मंत्री इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में सम्मानित अतिथि के रूप में शिरकत कर रही हैं जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री विरोध स्वरूप इसका बहिष्कार कर रहे हैं।

> कूटनीतिक हालात में बदलाव सन 1999 में करगिल और बिल क्लिंटन के दौर में शुरू हुआ और इसका श्रेय एक के बाद एक सरकारों

और प्रधानमंत्रियों की कूटनीतिक निरंतरता को दिया जाना चाहिए। इनमें हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। एक बाजार के रूप में हमारे देश का महत्त्व लगातार बढ रहा है. और पाकिस्तान की छवि बिगडी है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री के शब्द उधार लें तो उसे अंतरराष्ट्रीय 'सरदर्द' माना जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने एक सच उजागर करते हुए कहा कि भारत के मिराज विमानों से किए गए हवाई हमले के बाद किसी देश ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान जारी नहीं किया। बीते सप्ताह का सबसे बुरा हासिल था रेटिंग के भुखे टेलीविजन चैनलों का राष्ट्रवाद जिसने खबरों को खब तोडा-मरोडा। समाचार चैनलों के एंकर अपने सुरक्षित स्ट्रडियो में बैठकर युद्ध की चीख-पुकार मचाते रहे। शहीद सैनिकों की पत्नियों ने जब-जब शांति और संवाद की बात कही तब-तब उनका मखौल उड़ाया गया। यह पुराना सिद्धांत है कि

किसी को अपने ही प्रोपगंडा का शिकार नहीं होना चाहिए और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रभारियों के मस्तिष्क टीवी शो पर चीखने वालों की तुलना में शांत रहते होंगे। इन समाचार चैनलों ने ही कंधार अपहरण कांड के समय

वाजपेयी सरकार पर दबाव बनाया था। उस वक्त कुछ अन्य आतंकियों के साथ जैश-ए-मोहम्मद के मौजूदा मुखिया को आज चुकानी पड़ रही है।

सच यही है कि पिछले दिनों हुई सैन्य झड़प में भारत को स्पष्ट जीत हासिल नहीं हुई। मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढकर सीमा पार के आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। परंतु हमें भी अपना एक लड़ाकू विमान गंवाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी

ढंग से पायलट प्रोजेक्ट की बात की और कहा कि अभी तो असली चीजें घटित होनी हैं लेकिन यह तय है कि अगर किसी वजह से सीधी जंग भी होती है तो भी भारत को उसमें स्पष्ट जीत हासिल नहीं हो सकती।

मिग-21 विमान गंवाने के बाद यह प्रश्न

उठता है कि आखिर इतने साप्ताहिक मंथन प्राने विमान उडाकर विमान और पायलट दोनों टी. एन. नाइनन को जोखिम में क्यों डाला

तक को छोड़ना पड़ा था। उसकी कीमत देश जा रहा है। सशस्त्र बलों को उचित संख्या में समकालीन हथियारों से लैस न कर पाने से हम उचित प्रतिकार का मौका भी गंवा रहे हैं। इसके लिए यह कट सत्य जिम्मेदार है कि रक्षा बजट. खासतौर पर हथियार खरीद का बजट काफी वर्षों से बहुत सीमित है। वित्त मंत्री का यह सवाल उचित है कि आखिर क्यों वैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जैसी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए की थी।

इसका एक ही उत्तर है, क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर।

एक और घरेलु मुद्दे पर विचार करना होगा: क्या जम्मू कश्मीर में हमारी नीति कारगर है ? आंकड़े बताते हैं कि वहां हिंसा और हत्या के मामले बढ रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट बताती हैं कि कश्मीर घाटी में अलगाव की भावना बढ रही है। विपरीत वैचारिक ध्रुव वाले दलों की गठबंधन सरकार का अस्वाभाविक प्रयोग लंबा नहीं चल सका और अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। अगर घरेलू समर्थन नहीं होता तो राज्य में आतंकवाद नहीं पनपता। इस वास्तविकता की अनदेखी से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय मामला और खराब होता जाएगा। खासतौर पर अगर देश के अलग–अलग इलाकों में कश्मीरी छात्रों और कामगारों के साथ दुव्यर्वहार का सिलसिला जारी रहा। कश्मीर समस्या को बिना कश्मीरियों का दिल जीते हुए हल नहीं किया जा सकता।



आईडीबीआई बेंक का कैसे हो कायाकल्प?

आईडीबीआई बैंक को आईसीयू से हटाकर एचडीयू में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बैंक के भावी परिदृश्य पर विस्तार से नजर डाल रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

ईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए रखी गई भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की खुली पेशकश में कहा गया था कि निजी बैंकों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तमाम निर्देश और बैंकिंग अधिनियम के सभी प्रावधान इस पर लागू होंगे। इसका मतलब है कि आईडीबीआई बैंक को एक निजी बैंक मानते हुए उस पर ये नियम एवं दिशानिर्देश लागु होंगे। हालांकि आरबीआई इस बैंक को 'सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक' की श्रेणी में रखे हुए है।

घटनाक्रम संकट में फंसे आईडीबीआई बैंक के समक्ष अस्तित्व की दुविधा पैदा कर देता है।

बैंक ने लगातार नौवीं तिमाही में अक्टूबर-दिसंबर 2018 के दौरान 4,185.5 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया था। इसके चलते सितंबर 2015 के बाद से उसका कुल घाटा बढ़कर 28,000 करोड़ रुपये हो गया। आरबीआई ने सितंबर 2015 में ही परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा करने के बाद बैंकों को मार्च 2017 तक तस्वीर साफ करने का निर्देश दिया था। आईडीबीआई बैंक का दिसंबर तिमाही में घाटा और अधिक होता लेकिन उसे कर के मद में चुकाई गई 1,620 करोड़ रुपये वापस मिल गई थी। इसने आखिरी बार सितंबर 2017 में 55.52 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

एलआईसी ने जनवरी में खुली पेशकश के बाद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51 फीसदी कर दी थी। उसने बैंक में सितंबर 2018 के बाद से छह किस्तों में 21,624 करोड़ रुपये

डाले हैं। इसमें नई जान डालने के लिए उसे कितनी और रकम लगाने की जरूरत होगी? क्या यह फंसी हुई रकम पाने के लिए अपने पास रखे पैसे भी फेंकने का क्लासिक

साफ-साफ कहें तो आईडीबीआई बैंक के साथ सब कुछ बुरा ही नहीं है। कुछ मोर्चों पर हालात सुधरे भी हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का 12.51 फीसदी पर पहुंचना सबसे अहम सधार है। भले ही बैंक का घाटा उठाने का सिलसिला जारी है लेकिन प्रावधान कवरेज अनुपात बढ़कर 75.21 फीसदी पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बैंक ने अपनी फंसी परिसंपत्तियों का तीन–चौथाई हिस्सा कवर करने के लिए रकम का प्रावधान कर रखा है और भविष्य में ऐसी परिसंपत्तियों की वसुली होने पर उसका मुनाफा ही बढेगा।

असल में, दिसंबर तिमाही में बैंक को हुए भारी घाटे की बड़ी वजह भारी-भरकम रकम का प्रावधान थी। बैंक का सकल फंसा कर्ज मामूली गिरावट के साथ आवंटित कर्ज का 29.67 फीसदी हो गया और इसका शुद्ध फंसा कर्ज भी 14.01 फीसदी रहा है। जब किसी बैंक का कर्ज बढ़ता है तो खराब परिसंपत्तियों का अनुपात कम होने का आभास होता है लेकिन आईडीबीआई बैंक का ऋण पोर्टफोलियो कम हो रहा है।

एक और सुखद संकेत यह है कि इसके कुल ऋण खाते में भले ही ढांचागत क्षेत्र की हिस्सेदारी 18 फीसदी है लेकिन कुल ऋण में खुदरा कर्जों का अनुपात 48 फीसदी हो चुका है जबकि दो साल पहले यह 41 फीसदी था। इस दौरान कम लागत वाले चालू एवं बचत खातों की हिस्सेदारी भी जमा का 38.36 फीसदी पर पहुंच चुकी है जबकि दो साल पहले यह 36.14 फीसदी था। अगर यही दर कायम रहती है तो आईडीबीआई बैंक को अगली दो तिमाहियों में आरबीआई के त्वरित उपचारात्मक कदम (पीसीए) दायरे से बाहर आ जाना चाहिए। पीसीए में शामिल बैंकों पर कई तरह की रोक होती है।

सवाल है कि क्या यह समय जश्न मनाने का है ? चिकित्सकीय शब्दावली में कहें तो आईडीबीआई बैंक को शायद गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) से हटाकर उच्च निर्भरता कक्ष (एचडीयू) में भेजा जा रहा है। एचडीयू में भी लगातार गहन चिकित्सा की जरूरत होती है लेकिन वहां पर नर्स और रोगियों का अनुपात कम होता है।

सिद्धांत रूप में एलआईसी के हाथों आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण दोनों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है। दोनों के कारोबार में सामंजस्य बिठाने के लिए एक कार्यबल बनाया गया है। एलआईसी ने देश भर में फैली आईडीबीआई शाखाओं में बीमा पॉलिसी बेचने का प्रशिक्षण सत्र चलाना शुरू भी कर दिया है। तकनीकी रूप से इसे बैंकश्योरेंस कहते हैं जिसका मतलब एक बैंक एवं एक बीमा कंपनी के बीच हुए करार से होता है। इस समझौते के तहत बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने में मदद करता है। यह साझेदारी दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि बैंकों को बीमा उत्पादों की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व मिलता है और बीमा कंपनी को भी सेल्स टीम बढ़ाए बगैर ग्राहक आधार बढ़ाने

का मौका मिल जाता है।

आईडीबीआई बैंक की 1800 से अधिक शाखाओं की मौजूदगी और इसके 14 करोड़ ग्राहक एलआईसी के लिए बीमा बेचने में मददगार साबित होंगे। दूसरी तरफ बैंक भी एलआईसी के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल अपने खुदरा कर्जों के लिए कर सकता है। एलआईसी के पास बड़ी मात्रा में दीर्घावधि रकम है जिसकी मदद बैंक अपने प्रोजेक्ट कर्जों के लिए कर सकता है। भविष्य में एलआईसी अपनी मॉर्टगेज इकाई का बैंक में विलय भी कर सकती है। आईडीबीआई बैंक के कुल कर्जों में से आवासीय ऋण की हिस्सेदारी 11.50 फीसदी है।

ये तमाम संभावनाएं सिद्धांत रूप में मुमिकन हैं। लेकिन एलआईसी के पास बैंक चलाने का कोई अनुभव नहीं है और आईडीबीआई बैंक को भी बैंकिंग संचालन ठीक तरह से आता तो ऐसे हालात पैदा नहीं हुए रहते। इसका मतलब है कि बैंक का संचालन पेशेवर प्रबंधन के पास होना चाहिए जो एक काबिल बोर्ड के अधीन काम करे। एलआईसी से आने वाले इकलौते निदेशक को छोड दें तो अभी तक बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

अब इस बैंक में सरकारी की हिस्सेदारी घटकर भले ही 46.46 फीसदी पर आ गई है लेकिन बैंक के मुखिया अक्सर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में ही नजर आते हैं। उन्हें वहां पर क्यों दिखना चाहिए? आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए किए गए इस प्रयोग की सफलता के लिए कंपनी संचालन अहम है। अगर इसका संचालन पहले की ही तरह होता रहा और एलआईसी सरकार का प्रतिनिधि ही बनी रही तो फिर इसका कोई भविष्य नहीं है।

अक्टूबर 2018 में बैंक के एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए राकेश शर्मा पखवाड़े भर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके पूववर्ती बी श्रीराम का कार्यकाल तो महज तीन महीने ही रहा था। इतने अहम मोड पर बैंक के सीईओ का इतना कम कार्यकाल होना गंभीरता नहीं दर्शाता है।

एलआईसी को दिसंबर 2031 तक अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40 फीसदी पर लानी होगी। 12 साल का वक्त काफी लंबा है लेकिन एलआईसी के लिए इस निवेश का लाभपरक होना इस पर निर्भर करेगा कि वह बैंक का संचालन कैसे करता है?

अप्रैल 2001 में जर्मनी की बीमा कंपनी आलियांज एसई ने ड्रेस्डनर बैंक को खरीदकर बैंकिंग, बीमा और निवेश बैंकिंग तीनों कारोबार का समावेश किया था। इसके जरिये दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की सोच थी लेकिन डेस्डनर पर 35.5 अरब यरो के कर्ज ने ऐसा होने नहीं दिया। नतीजतन अगस्त 2008 में आलियांज ने इस बैंक को 9.8 अरब यूरो में बेच दिया। यह अलग बात है कि अब आईडीबीआई बैंक के पास खोने के लिए कुछ अधिक नहीं है।

फरवरी 2016 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईडीबीआई बैंक के कायाकल्प की जिक्र किया था। देखते हैं कि यह कायाकल्प किस तरह आकार लेता है?

(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक एवं जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)

सोशल मीडिया-चैनलों पर नफरत फैलाने के लिए हम जिम्मेदार

आप किसी भीडभाड वाले कॉफी शॉप में घुसिए। वहां पर दर्जनों लोग समृह में या अकेले बैठे हुए मिल जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों के बीच हो रही बातचीत आप सुन भी सकते हैं। कोई अपनी निजी समस्याओं पर चर्चा कर रहा होता है तो कोई राजनीतिक मुद्दों पर बहस में मशगल होता है। इस दौरान आपको कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे आप इत्तफाक नहीं रखते हैं या नापसंद करते हैं। फिर आप उस व्यक्ति से बहस में उलझ जाते हैं। थोडी ही देर में आप उस व्यक्ति के साथ गाली-गलौज करने लग जाते हैं। और फिर वह पुरा कॉफी शॉप जंग का एक मैदान बन जाता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है, कप ट्ट-फूट जाते हैं और मेजें पलट जाती हैं। उसके बाद उस दुकान के मालिक के पास जगह की सफाई कराने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता है। जब वह नए सिरे से अपनी दुकान खोलने ही वाला होता है कि उसे कह दिया जाता है कि उसकी वजह से आस-पड़ोस प्रभावित हो रहा है। अगर वह अपने ग्राहकों को काबू में नहीं रख सकता है तो उसे कॉफी शॉप चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी।

सोशल मीडिया कंपनियों को भी कुछ इसी तरह की गडबडी का सामना करना पड रहा है। ये कंपनियां एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं और कॉफी शॉप के उलट यह मंच नि:शुल्क होता है। उस प्लेटफॉर्म पर जांकर लोग बात करते हैं, बहस करते हैं, झगडा करते हैं और अपने जैसी सोच लेकिन इस मंच के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के चलते वहां पर सभी तरह के लोग भी मौजूद होते हैं। उन्हें आपकी कही बातें पसंद नहीं आती हैं या आपको उनकी बातें नागवार गुजरती हैं। ऐसे में किसी रात्रिभोज की तरह मामला शिष्ट असहमति पर जाकर नहीं खत्म होता है। एक-दूसरे से असहमत हुए लोग गाली-गलौज करने लग जाते हैं और कई बार उनका यह विषवमन मारपीट, हत्या और दंगे की भी शक्ल ले लेता है।

इसके लिए क्या आप इस मंच को दोषी ठहरा सकते हैं ? निश्चित रूप से तकनीकी कंपनियां संवाद के इस मंच को बेहतर संचालित कर सकती हैं। फेसबुक के पास हमारे बारे में तमाम आंकड़े मौजूद



मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

हैं। वहीं अपशब्दों के इस्तेमाल. धमकी देने और फर्जी वीडियो के प्रसार पर टिवटर का कोई काब ही नहीं दिखता है। लेकिन क्या ट्विटर के सीईओ एवं संस्थापक जैक डोर्सी को संसदीय समिति के समक्ष पेश होने से हालात सुधर जाएंगे ? समस्या हम लोग हैं। शायद

अब वक्त आ गया है कि एक

नागरिक, दर्शक और एक सामान्य इंसान होने के नाते हम अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। शायद अब वक्त आ गया है कि हम 'व्हाट्सऐप युनिवर्सिटी' से हासिल ज्ञान के आधार पर इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा के बुनियादी नियम तय कर लें। अधिकांश दिनों में सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों में शामिल लोगों के पास या तो संबंधित जानकारी ही नहीं होती है या फिर अधकचरा ज्ञान होता है। किसी भी फर्जी संदेश या वीडियो पोस्ट के बारे में तथ्यों की पुष्टि के लिए 3-5 मिनट ही लगते हैं लेकिन आप ऐसा तभी करते हैं जब आप अपनी पुरानी धारणाओं से मेल खाने वाली पोस्ट के जाल में उलझना नहीं चाहते हैं।

सच्चाई यह है कि मास मीडिया, खासकर समाचार मीडिया ने भारत और भारतीयों दोनों को नाकाम किया है। भारत में कोई समाचार चैनल या समाचारपत्र लाना जितना आसान हुआ है, उनकी गुणवत्ता उतनी ही खराब हुई है। भारत के पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा 400 समाचार चैनल हैं जिनमें से अधिकांश चैनल अब पत्रकारिता के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं करते हैं। कई चैनल सरकार के प्रवक्ता बन चुके हैं, दूसरे चैनल नफरत फैलाने और भीड को उकसाने में लगे रहते हैं। उनमें से एक भी चैनल को किसी संसदीय पैनल ने नहीं बुलाया

और न ही उनका लाइसेंस निरस्त किया गया। इन चैनलों को समाचार चैनलों की प्रतिनिधि संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) से भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। एनबीए इन चैनलों की अपने स्तर पर गठित नियामक संस्था है लेकिन अपने मकसद में काफी हद तक नाकाम रही है।

खबरों के प्रसारण व्यवसाय

में सबसे बडी समस्या स्वामित्व से जुड़ी हुई है। भारत के आधे से अधिक समाचार चैनलों का स्वामित्व ऐसे लोगों या कंपनियों के पास है जिनकी अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रकारिता में कोई रुचि ही नहीं है। चैनल लाने के पीछे सोच यही होती है कि प्रभाव पैदा किया जा सके, अपने लिए कुछ फायदे उठाए जा सकें या दुष्प्रचार फैलाने का माध्यम बन सके। भारत में तेजी से फैलते टेलीविजन उद्योग में खबरों का हिस्सा तो बहुत ही छोटा और गैर-लाभदायक समृह में है। जांच-पडताल, विश्लेषण और संबंधित जगह पर जाकर खबर देने में यकीन करने वाला कोई भी ईमानदार समाचार संस्थान बढिया फंडिंग वाले उकसाऊ चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा भला कैसे कर सकता है?

तमाम बहसों में इस पर खुब चर्चा होती है कि समाचार चैनल किस तरह टीवी रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के पीछे भागते रहते हैं। टीआरपी असल में टीवी दर्शकों की संख्या मापने का जरिया है। ऐसे में चैनल अगर टीआरपी की फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

ऐसे में समय आ गया है कि हम दर्शक एवं भारतीय नागरिक के तौर पर सोशल मीडिया या समाचार चैनल पर फैलाई जा रही नफरत और बुरे बरताव को खारिज कर दें। एक पत्रकार, संपादक, विशेषज्ञ, अजनबी शख्य या आपके मित्र की किसी मुद्दे पर आपसे अलग राय हो सकती है लेकिन किसी भी व्यक्ति को हिंसा या अपशब्दों के जरिये अपनी असहमति जाहिर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। नफरत फैलाने में क्यों शामिल हों ? अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ट्विटर या फेसबुक से यह उम्मीद क्यों करें कि वे हमारे समाज की गंदगी साफ करेंगे। वह भी तब जब हम असहमत होने पर भी सहमत न हो सकें।

कानाफूसी

अदालत पहुंचा इतिहास

इन दिनों ऐतिहासिक पात्रों की सर्वोच्च न्यायालय यात्रा का मानो सिलसिला सा चल रहा है। पिछले दिनों मुगल सल्तनत के एक वारिस शीर्ष न्यायालय में देखे गए थे तो बीते गुरुवार को एक सज्जन महात्मा गांधी की वेशभूषा बनाए हुए न केवल न्यायालय परिसर में नजर आए बल्कि उन्हें एक अदालती कक्ष में प्रवेश करते हुए भी देखा गया। यह तो पता नहीं चला कि वह किस मामले की सुनवाई में अदालत आए थे लेकिन उनके आगमन ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। गौरतलब है कि इससे पहले एक सज्जन अदालत में आए थे और उन्होंने दावा किया था कि वह आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी के सदस्य हैं। वह राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान वहां पहुंचे थे।

कड़ी चुनौती

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने नई पीढ़ी के उद्यमियों और नवाचारियों के लिए एक नई चुनौती पेश की है। उनका कहना है कि इन उद्यमियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे 2022 तक एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह समाप्त करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह बात देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने संबंधी एक गीत लॉन्च करते वक्त कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच नामक एक स्वयंसेवी संगठन ने यह गीत तैयार किया है। यह



आपका पक्ष

देश का खाद्यान्न उत्पादन होगा कम

देश का खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के मुकाबले वर्ष 2018-19 में एक प्रतिशत कम होने का अनुमान है। सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन 28 करोड़ 13 लाख 70 हजार टन रहने का अनुमान जताया है। इस साल दलहन और मोटे अनाजों का उत्पादन भी कम रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल फसल वर्ष (जुलाई से जून) में 28 करोड़ 48 लाख 30 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। पिछले साल से करीब एक प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन कम होने का नुकसान तथा फायदा किसानों को होगा। बाजार में खाद्यान्न अधिक पहुंचने से किसानों के इसके दाम कम मिलते हैं लेकिन फसल कम पहुं चने से किसानों को इसका



फायदा होता है। वहीं इसके उलट 🔋 सरकार ने इस साल खाद्यान्न आम आदमी भी बाजार से प्रभावित होता है। किसानों को अधिक फायदा मिलने पर आम आदमी की जेब कटने लगती हैं क्योंकि उन्हें अधिक कीमत देनी पडती है। फसल उत्पादन कम

उत्पादन एक प्रतिशत कम रहने का अनुमान जताया है

वर्षों में खाद्यान्न, तिलहन, कपास, होने से खाद्यान्न संकट भी हो ं गन्ना, फल तथा सब्जियों की

सकता है। देश में पिछले कुछ

किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद कम दाम मिले थे। उचित कीमत की मांग पर किसान सड़कों पर आलू, प्याज, टमाटर तथा सिब्जियां फेंक कर अपना विरोध जता रहे थे। फसल की पैदावार कम होने की स्थिति में किसानों को अच्छे दाम तो मिल जाते हैं लेकिन उसकी भरपाई पूरे देश को अधिक कीमत चुका कर करनी पड़ती है। इससे आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ जाता है, महंगाई बढ़ने लगती है। अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ सके।

पैदावार काफी हुई थी जिससे

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादूर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

सही जगह जोश दिखाने की जरूरत

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद

देश की जनता में आक्रोश है। लोगों

में देश की रक्षा करने के लिए काफी जोश दिख रहा है। लेकिन देश की रक्षा में इस जोश का उपयोग प्रत्येक नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी समझाकर किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय उर्जा का उपयोग नेतृत्व क्षमता का विकास करने, आर्थिक रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया आदि योजनाओं का हिस्सा बन कर, राजनीतिक तौर पर देश को तोड़ने व आतंकवादी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर किया जा सकता है। साथ ही बायोपिक फिल्में व राष्ट्रीय घटनाओं का चित्रण कर नवयुवकों में ऊर्जा का संचार किया जा सकता है और मातृभूमि का कर्ज अदा किया जा सकता है।

जनसत्ता

देश में अभिनंदन

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की भारत वापसी मौजूदा घटनाक्रम के दौर में एक अहम अध्याय है। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के जो हालात बने हुए हैं, उनमें पाकिस्तान के कब्जे में फंसे अभिनंदन की स्थिति को लेकर चिंता होना स्वाभाविक ही था। लेकिन इस बीच भारत ने लगातार कूटनीतिक दबाव बनाए रखा और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस करने का फैसला किया। हालांकि यह भी सही है कि इस मसले पर पाकिस्तान ने भारत और यहां के नागरिकों की इच्छाओं का ध्यान रखा और विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को लौटाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाकायदा असेंबली में शांति भावना के तहत भारतीय पालयट अभिनंदन की रिहाई का एलान किया। गौरतलब है कि बुधवार को जब पाकिस्तान ने भारत के सीमा क्षेत्र में हवाई बमबारी की थी तब भारतीय वायुसेना के विमानों ने इसका करारा जवाब दिया था। लेकिन इसी क्रम में भारत का एक लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के इलाके में जा गिरा। इस बीच विमान के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन किसी तरह पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतर तो गए, मगर वहां पाकिस्तान की सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया।

इसके बाद भारत के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि वह कौन-सा रास्ता अपनाए कि कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। जाहिर है, भारत ने लंबे समय में दुनिया भर में जो साख बनाई है और ताजा संकट में भी कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह की पहलकदमी की, उसकी वजह से कई देशों ने भारत के पक्ष में साफ राय जाहिर की और इससे पाकिस्तान पर दबाव बना। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कमांडर अभिनंदन को वापस करने के लिए पाकिस्तान ने दबे-ढके शब्दों में शर्त की तरह बातचीत का जो प्रस्ताव रखा था, उससे भी उसे पीछे हटना पड़ा। इस बीच भारत की ओर से लगातार दबाव बनाए रखा गया और इसी का हासिल है कि पाकिस्तान से कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। वरना यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत के सैनिकों के प्रति पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है। अनेक फौजी आज भी पाकिस्तान की कैद में अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं और उनके मामले में पाकिस्तान ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है।

निश्चित रूप से विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी हमारे देश के लिए एक शानदार उपलब्धि है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है। कि आखिर हालात यहां तक क्यों पहुंचे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के बयालीस जवानों की जान चली गई। उस हमले के पीछे कौन है, अब यह समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने की खबरें अब पुष्ट हो चुकी हैं। भारत की जरूरत और मांग सिर्फ इतनी है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे। मगर बार-बार के आश्वासनों के बावजूद पाकिस्तान ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी अघोषित संरक्षण की वजह से आतंकी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और इसका खिमयाजा भारत को उठाना पड़ता है। पुलवामा हमले और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के अब तक के घटनाक्रम का एक जरूरी सबक यह होना चाहिए कि भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान जमीनी स्तर पर कार्रवाई करे। अगर इस दिशा में ठोस पहलकदमी नहीं हुई तो भारत को जवाबी कार्रवाई करनी होगी और नाहक ही युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, जो किसी के हित में नहीं होगा।

कूटनीतिक हासिल

किस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद वैश्विक बिरादरी ने भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए जो कदम उठाए हैं, उनसे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य देशों- अमेरिका से लेकर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस तक ने भारत की कार्रवाई को सही ठहराया और साथ ही पाकिस्तान को भी चेताया। भारत की यह एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। पर इससे भी बड़ी कामयाबी भारत को शुक्रवार को तब मिली जब इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) में पहली बार भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और आतंकवाद फैलाने वालों को खुले शब्दों में चेताया। भारत की विदेश मंत्री ने अबु धाबी में ओआइसी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, न कि किसी धर्म के। भारत लंबे समय से सीमापार आतंकवाद की समस्या को झेल रहा है और पिछले तीस सालों में इसने काफी कुछ खोया है। सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम का मतलब भी अमन है। ऐसे में अगर धर्म और कट्टरतावाद या चरमपंथ के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी जिस साफगोई के साथ भारत ने अपना पक्ष रखा है वह संगठन के देशों के लिए बड़ा संदेश है।

यह पहला मौका है जब ओआइसी के मंच से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आह्वान किया है। हालांकि विदेश मंत्री ने कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था। दरअसल, भारत की ओर से जो भी कहा गया वह सीधा-सीधा पाकिस्तान को लेकर ही था। भारत सत्तावन देशों वाले ओआइसी का सदस्य नहीं है। फिर भी, पाकिस्तान के कड़े विरोध को दरिकनार करते हुए ओआइसी ने भारत को इस मंच पर आने का निमंत्रण दिया। हालांकि 1969 में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ओआइसी के सम्मेलन में हिस्सा लेने गया था, लेकिन पाकिस्तान के अड़ जाने पर उनका न्योता रद्द कर दिया गया था और बीच रास्ते से ही दल को लौटना पड़ा था। तब से ओआइसी ने भारत से दूरी बना ली। मगर आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में अगर ओआइसी ने भारत को इस सम्मेलन में बुलाया और संबोधन का मौका दिया तो इससे यह संकेत तो साफ है कि इस्लामिक देशों के संगठन में भी भारत का दबदबा भी बढ़ा है और स्वीकार्यता भी। भविष्य में कूटनीतिक और सामरिक परिस्थितियों में भारत नई भूमिका में आ सकता है। पाकिस्तान को इसके अर्थ समझने चाहिए।

दूसरी ओर, ओआइसी में भारत को पहुंचने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से दबाव बनाया, उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर भारत को इस्लामिक देशों के इस मंच पर आमंत्रित किया गया तो पाकिस्तान इस सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। आखिरकार पाकिस्तान इसमें शरीक नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका इसलिए है कि जिस ओआइसी को वह अपना घर कहता है, वहीं उसे तवज्जो नहीं मिली। पाकिस्तान एक तरफ तो भारत से शांति और अच्छे रिश्तों की बात करता है और दूसरी ओर भारत के साथ उस मंच, जिसके सारे सदस्य भारत को चाहते हैं, पर भी नहीं आ सकता। इससे उसकी मंशा जाहिर होती है। बेहतर होता पाकिस्तान ओआइसी की बैठक का बहिष्कार नहीं करता और भारत की उपस्थिति का समर्थन कर सदाशयता दिखाता

कल्पमधा

कायर बहुसंख्यक होने में प्रसन्न होते हैं। बहादुर अकेले लड़ने में गौरव समझते हैं। –महात्मा गांधी

कृषि उत्पादों की बर्बादी

सुविज्ञा जैन

जब हमें यह पता है कि एक तिहाई अनाज बर्बाद चला जाता है तो इसी से अंदाजा लगता है कि कितना अनाज जरूरतमंद तबके तक पहुंच पाएगा और कितना गोदामों में और ढुलाई के समय बर्बाद हो जाएगा? जाहिर है, यह समस्या कम उत्पादन नहीं बल्कि पर्याप्त भंडारण व्यवस्था की कमी से जुड़ी है।

दशों में एक है। इस मामले में हम हर साल अपना पिछला रेकॉर्ड तोड़ देते हैं और इसी को बताते हुए अपने कृषि विकास का प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दावों के बावजूद अगर किसान आत्महत्या कर रहे हों, देश के सकल घरेल उत्पाद में कृषि का हिस्सा घटता ही जा रहा आंकड़े भयानक तस्वीर पेश कर रहे हों तो कृषि के हालात की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए।

हरित क्रांति के बाद भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर घोषित हो गया था। वाकई उन्नत बीजों के इस्तेमाल से उत्पादन अचानक ही काफी बढ़ गया था। लेकिन यह भी हैरत की बात है कि कई दशक पहले खाद्य आत्मनिर्भरता पा लेने के बावजूद भूख के वैश्विक सूचकांक में हम अपनी स्थिति नहीं सुधार पाए। वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में एक साल पहले की स्थिति के मुकाबले हमारी हालत तीन पायदान और नीचे चली गई। सन 2017 में भारत सौ वें पायदान

पर था और 2018 में एक सौ तीन वें नंबर पर आ गया। इस मामले में एक सौ उन्नीस देशों में हमारी हालत सबसे पीछे के सत्रह देशों में दिखाई जा रही है। क्या रेकॉर्ड तोड़ उत्पादन करने वाले किसी देश के लिए यह गंभीर सोच विचार की बात नहीं है?

अट्ठाईस करोड़ टन अनाज उगाने वाले देश में

अगर करीब उन्नीस करोड लोगों को पर्याप्त भोजन

न मिल पाता हो तो यह जानना ही पड़ेगा कि यह

समस्या है किस तरह की। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2018' रिपोर्ट में दिया गया है। समस्या के आकार का अंदाजा लगाएं तो भारत में जितने लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उनकी तादाद फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों की कुल आबादी से दुगनी बैठती है। खासतौर पर यह समस्या और ज्यादा जटिल तब बन जाती है जब हम अपनी मांग या जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करने का दावा भी कर रहे हों। इस समस्या के कई कारण बताए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसका सबसे बड़ा कारण यह बताते हैं कि देश में खाद्य उत्पाद की बर्बादी हद से ज्यादा है। कितनी बर्बादी है, इसका सही-सही हिसाब लगा पाना एक सौ पैंतीस करोड़ की आबादी वाले देश में मुश्किल काम है। फिर भी भूख सूचकांक और छोटे-छोटे नमूने लेकर किए सर्वेक्षणों से एक मोटा अंदाजा लगता है कि ब्रिटेन की आबादी का पेट भरने के लिए जितने अनाज की जरूरत पड़ती है, उतना अनाज हमारे देश में बर्बाद चला जाता है। बर्बादी का मुख्य कारण यह जाना गया है कि अनाज की बर्बादी कई स्तरों पर होती

मानकों से बहुत निचले स्तर की है। भारत में मुख्य फसलों की बात करें तो भारतीय कृषि हमेशा से ही गेहूं और चावल पर आधारित रही है। इसके अलावा दालें, गन्ना, तिलहन आदि भी भारतीय कृषि का बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन हमारे कल कृषि उत्पाद में आज भी गेहं और चावल ही प्रमुखता से उगाया जा रहा है। इस बार गेहं की पैदावार दस करोड़ टन से ज्यादा होगी। सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि देश में अनाज की कमी नहीं है, लेकिन अब चिंता सरकारी खरीद बढ़ाने के बाद उसके भंडारण की है।

इस मामले में कुछ आंकड़ों पर नजर डालना

जरूरी है। इस साल सरकार तीन करोड सत्तावन लाख टन गेहूं की खरीद की योजना बना रही है। इसी तरह चावल के लिए तीन करोड़ पचहत्तर लाख करोड़ टन खरीद का लक्ष्य बनाया गया था, जिसमें से तीन करोड़ पचास लाख टन चावल सरकार की तरफ से इस साल खरीदा जा चुका है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो मुख्य फसलों के कुल उत्पादन का कितना हिस्सा सरकार खरीद पा रही है। जब हमें यह पता है कि एक तिहाई अनाज बर्बाद चला जाता है तो इसी से अंदाजा लगता है कि कितना अनाज जरूरतमंद तबके तक पहुंच पाएगा और कितना गोदामों में और दुलाई के समय बर्बाद हो जाएगा? जाहिर है, यह समस्या कम उत्पादन नहीं बल्कि पर्याप्त भंडारण व्यवस्था की कमी से जुड़ी है।

भारत में खाद्य भंडारण का काम सरकारी संस्था



है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एपसीआइ) दूसरी का थोड़ा हिस्सा ही सरकारी खरीद के जरिए बिक हो, देश का भूख सूचकांक और कुपोषण के जाता है कि हमारी खाद्य भंडारण व्यवस्था निर्धारित सरकारी एजंसियों के साथ मिल कर करती है। यह काम राशन की दुकानों यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए गरीबों तक अन्न पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन आज तक हम अपनी भंडारण क्षमता को इतना दुरुस्त नहीं कर पाए कि देश में अनाज की बर्बादी रुक जाए। मसला सिर्फ अनाज के भंडारण का ही नहीं है। अनाज के अलावा जल्दी खराब होने वाले दूसरे खाद्य उत्पादों जैसे फल और सब्जियां को सरक्षित भंडारण की उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन देश में फलों और सब्जियों के लिए शीत गृहों (कोल्ड स्टोरेज) की सुविधा नाकाफी है। इंस्टीट्युशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के एक शोध सर्वेक्षण के

मताबिक इस समय भारत में करीब छह हजार तीन सौ कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं। इनकी भंडारण क्षमता करीब तीन करोड़ टन है। लेकिन इन कोल्ड स्टोरेज में से पचहत्तर से अस्सी फीसद गोदाम सिर्फ आलू की फसल रखने के लिए ही अनुकूल हैं। लंबे समय तक टिकने वाली मुख्य फसलें यानी गेहूं और चावल के भंडारण की स्थिति खास अच्छी नहीं है। इस समय भारत में सिर्फ आठ करोड़ तियालीस लाख टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था है। इसमें से सरकारी भंडार तीन करोड़ बासठ लाख टन की क्षमता के ही हैं। दूसरी एजंसियों व गैर सरकारी भंडारों की क्षमता चार करोड अस्सी लाख टन है। हालांकि गैर सरकारी भंडारों को सरकार एक सीमित समय के लिए किराए पर ले लेती है। इतना ही नहीं, साढ़े आठ करोड़ टन की भंडारण क्षमता में एक और नुक्ता है। इन गोदामों में भी बंद या छत

> वाले गोदामों की क्षमता सिर्फ सात करोड़ टन है। बाकी डेढ़ करोड़ टन अनाज खुले आसमान के नीचे चबूतरों पर बोरों के कट्टे लगाकर और उन्हें तिरपाल या पॉलीथिन से ढक कर रखने की मजबूरी है।

> कोई कह सकता है कि भंडारण के काम का जिम्मा कृषि के उत्पादकों यानी किसान का है। लेकिन अब तो यह बात गैर-किसान लोग भी जान गए हैं कि मुश्किल हालात में आते जा रहे किसान कर्ज ले-लेकर किसानी कर पा रहे हैं। उनकी माली हालत इतनी खराब है कि फसल तैयार होते ही वे उसे फौरन ही बेचना चाहते हैं ताकि पैसा आए और अगली फसल की तैयारी करें। हर किसान चाहता है कि उसका सारा उत्पाद फौरन ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक जाए। लेकिन किसान की उपज

पाता है। बाकी बड़ा हिस्सा खुले बाजार में ही सस्ते में बेचने की उसकी मजबूरी होती है।

भंडारण पर खर्च बढाने का काम कृषि सुधार की योजनाओं में प्राथमिकता पर होना चाहिए। बीते साल यानी 2017-18 में भंडारण पर एफसीआई के जरिए सरकारी खर्च सिर्फ 2731 करोड़ रुपए बैठा था। लेकिन भंडारण के मामले में अपनी पतली हालत देखते हए इस काम पर खर्च बढ़ाने की सख्त जरूरत दिख रही है। कम से कम मुख्य फसलों की ज्यादा से ज्यादा खरीद का इंतजाम न सिर्फ किसानों को राहत देगा, बल्कि भुख के सुचकांक को ठीक करने और अनाज की कमी से जुझ रहे तबके तक राहत पहंचाने के लिए भी यह जरूरी है।

नाम की पहचान

अमित चमडिया

भाग में क्या रखा है'! विलियम शेक्सपीयर अपने नाटक 'रोमियो जूलियट' के माध्यम से इस उपमा का मतलब समझाते हुए लिखते हैं कि नाम केवल एक शब्द है... यह किसी इंसान की व्याख्या नहीं करता है। गुलाब के फूल को कोई दूसरा नाम देने से उसकी खुशबू कम नहीं हो जाती है। किसी के आंतरिक गुण नाम से ज्यादा महत्त्व रखते हैं। शेक्सपीयर की यह व्याख्या आंतरिक गुणों के महत्त्व को समझाने के लिए है। यह व्याख्या अपने संदर्भों में सही हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में नाम रखने को लेकर बड़ा खेल होता है। नाम में धर्म है, नाम में जाति है, नाम में लिंग है और नाम में क्षेत्र है। इसलिए गली-मोहल्ला, शहर, राज्य आदि जगहों और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, संस्थानों, सरकारी योजनाओं, पुरस्कार आदि के नाम रखने और बाद में नाम बदलने के ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे।

फिल्मों में आने के बाद कई कलाकारों को भी अपने नाम बदलने पड़े हैं। नाम बदलने की राजनीति के पीछे जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रवाद प्रमुख वजह रहे। हैं। यों इस समाज में जो कारक जितना प्रभावशाली

रहा है नाम बदलने में, उसकी उतनी बड़ी भूमिका रही है। भारतीय समाज में जो जाति और धर्म अपनी राजनीति में जितना प्रभृत्व रखते हैं, नाम रखे जाने में भी उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। कुछ समय पहले एक बड़े रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के पीछे का कारण धर्म ही था। भारतीय समाज में पिछड़ी समझी जाने वाली जातियों के लोगों के नाम समाज के उच्च जातियों के लोगों के नाम से प्रकृति में भिन्न

दुनिया मेरे आगे मिलते हैं। संभव है कि यह थोपी हुई परंपरा नहीं हो, लेकिन अंतर और उसके सामाजिक संदर्भ खोजे जा

होने के सैकड़ों उदाहरण

सकते हैं। कई उदाहरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फलां नाम के व्यक्ति की जाति या फिर वर्ग क्या है! मैंने एक खबर में पढ़ा था कि बिहार के सासाराम में रेड लाइट इलाके में देह व्यापार में धकेली गई सभी महिलाओं को अपने बच्चों के पिता का नाम रूपचंद रखना पड़ा था। इसके चलते लगभग सौ बच्चों के पिता का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में एक ही था। दरअसल, पास के मोहल्लों में रहने वाले समाज में उच्च कही जाने वाली एक खास जाति के लोगों की ओर से दूसरा और कोई नाम रखने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि दूसरा और कोई नाम उनकी जाति के लोगों में होने की संभावना थी।

जब बच्चा पैदा होता है तो घर के लोग बड़े शौक से बच्चे का नाम रखते हैं। कई बार नाम ढुंढ़ने में कई महीने लग जाते हैं। यह जगजाहिर है कि नाम किसी बच्चे को एक पहचान देता है और बच्चा उसी पहचान के साथ बडा होता है। नाम बच्चों में 'स्व' की भावना पैदा करता है। बच्चों को भी अपने नाम से जुड़ने में समय लगता है। बिहार के रोहतास जिले के एक कस्बे

में रहने वाले छह बहनों वाले

एक परिवार में तीन बहनों के

नाम शादी के बाद बदल दिए गए। दो बहनों के नाम तो सिर्फ इसलिए बदल दिए गए कि उनके पित को उनके पिता द्वारा रखे गए नाम पसंद नहीं थे। एक अन्य बहन के नाम बदलने के पीछे की वजह यह थी कि यह नाम पहले से ससराल में रिश्ते में लगने वाले किसी बड़े व्यक्ति का था और उसका नाम सभी लोग नहीं पुकार सकते थे।

भारतीय समाज में आज भी यह चलन है कि घर की बह् अपने से बड़े-बुजुर्ग का नाम नहीं ले सकती है। दिलचस्प यह है कि जिस एक बहन का नाम बदला गया, वह अपने ससराल का खर्च चलाने में आर्थिक रूप से मदद भी करती है। हमारे समाज में

महिला के नाम शादी के बाद बदलने की कहानियां आम हैं और इसके पीछे सीधे-सीधे पुरुषवादी मानसिकता रही है। शादी के बाद पुरुषों के नाम बदलने का उदाहरण कहीं नहीं दिखाई देता है। पच्चीस वर्ष की उम्र पार कर जाने के बाद अगर किसी के ऊपर एक नए नाम को थोपा जाए तो क्या यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हमला नहीं होगा?

इस नए नाम से खुद को जोड़ने में कितना वक्त लगता होगा, इसका जवाब शायद वही बता सकता है, जिसके साथ यह 'हादसा' होता है। यों शादी के बाद महिलाओं द्वारा अपने नाम के साथ अपने पति के उपनाम यानी टाइटल को जोड़ना एक सामान्य-सी बात हो चली है। खुद को 'आधुनिक' समझने वाली महिला भी इस प्रचलन को आराम से अपनाती है। हालांकि कम ही सही, लेकिन नई पीढ़ी के कई लोगों में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। अब महिलाएं जन्म आधारित उपनाम को भी बनाए रखती हैं और अपने पति के उपनाम को अंत में जोड़ लेती हैं। इस तरह की तमाम चीजें पुरुष सत्तात्मक समाज में आसानी से देखने को मिलती हैं। जाहिर है, यह मानस के पारंपरिक होने और इस पर विचार नहीं करने की वजह से है कि कैसे यह चलन पहचान और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।

तनाव के तार

इस हफ्ते मंगलवार और बुधवार को भारत-पाक सीमा रपर जितना तनाव दिखा उससे कहीं ज्यादा आक्रामक और उत्तेजित कतिपय न्यूज चैनल और उनके एंकर नजर आए। ऐसा लगा युद्ध सैनिक नहीं, ये एंकर लड़ रहे हो! ज्यादातर टीवी एंकरों की भाषा और दिखाई जाने वाली तस्वीरें तनाव पैदा करने वाली लगीं जबकि स्वस्थ पत्रकारिता बिना किसी उत्तेजना और मिर्च-मसाले के गंभीर और तटस्थ भाव से जनता तक समाचार पहुंचाने की उम्मीद करती है। टीआरपी, लाइक और कमेंट्स के चक्कर में मीडिया और सोशल मीडिया को संकट की घड़ी में उत्तेजना और अफवाह फैलाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचते हुए संयम का परिचय देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कही या दिखाई जाए जो सरकार और सेना का मनोबल कमजोर करने वाली हो। जनता को भी अफवाहों से सावधान रहना चाहिए।

जिनेवा संधि के अनुसार पाकिस्तान द्वारा बुधवार को पकड़े गए भारतीय पायलट के मामले में दो उल्लंघन हुए। एक तो उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया जो उसकी तस्वीर से साफ दिख रहा था। दसरा, उसका घायल अवस्था में फोटो और वीडियो जारी कर उत्तेजना फैलाई गई जो कि संधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। पाकिस्तान ने जो किया वह तो निंदनीय है ही लेकिन भारत के कतिपय मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया ने भी इस मामले में उसके वीडियो और फुटेज दिखा कर जो उत्तेजना फैलाई है वह भी कम निंदनीय नहीं है।

अमेरिका और आस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस और चीन ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद करने की चेतावनी दी है जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष का ही समर्थन है। पाकिस्तान भारत की सैन्य क्षमता से भलीभांति परिचित होते हुए यह भी अच्छी तरह जानता है कि भारत को सीधी जंग में वह कभी नहीं हरा सकता।

इसलिए वह नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके तनाव बढ़ा कर अपनी खीझ निकाल रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी नहीं है जो उसे भारत के साथ युद्ध अनुमति देती हो। यह सब जानते हुए भी पाकिस्तान तनाव बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे मृंह की खानी पडेगी। ऐसे में यदि उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो तनाव कम करने का वातावरण निर्मित करने की पहल उसे ही करनी होगी। उसे यह भी पता है कि सारी दुनिया में उसकी इतनी भद पिटने के बाद भी यदि वह आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता है तो उसे मिलने वाली वैश्विक मदद भी रुक जाएगी।

मामलों से निपटने की सामरिक और कूटनीतिक दोनों तरह की क्षमता है। भारत ने अपनी कूटनीतिक आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए इस दंश को झेल रहे सभी देशों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। • देवेंद्र जोशी, महेशनगर, उज्जैन

एक स्वर में

पाकिस्तान और आतंकवादियों से निबटने के लिए देश में चल रहे घटनाक्रम पर विपक्षी दल अपने खिसकते राजनीतिक आधार को संभालने के लिए ओछी राजनीति कर रहे हैं।

नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7,

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

इन सब परिस्थितियों में युद्ध तो दूर, भारत के साथ होने वाली एक छोटी झड़प भी उसे इतना पीछे धकेल सकती है जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से घेरा है वह काबिले गौर है। चीन, अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों का आतंकवाद के खात्मे के मुद्दे पर भारत के साथ आना इस बात का भी संकेत है कि भारत आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ जंग का एक नया नायक बन कर उभर सकता है। अभी तक यह दर्जा अमेरिका को हासिल था लेकिन अपनी कूटनीति विफलता के चलते वह इस मुद्दे पर सबको साथ लेकर चलने में विफल रहा। जबकि सर्जिकल स्ट्राइक-2 के बाद भारत विश्व समुदाय को यह संदेश देने में कामयाब रहा है कि उसमें ऐसे देश आज कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को चिंता है कि कहीं सत्ताधारी दल विश्व परिदृश्य पर बन रही भारत की स्वच्छ छवि से चुनावों में सहानुभूति न ले ले, इसीलिए इक्कीस विपक्षी दलों ने इकट्ठा होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर डाली। मौजूदा हालात में सभी राजनीतिक दलों और देशवासियों को एक स्वर में दुश्मन को संदेश देना चाहिए कि भारत में भिन्न-भिन्न मत और धर्म होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर सब साथ-साथ हैं अन्यथा यह देश का दुर्भाग्य होगा और दुश्मन इसका भरपूर फायदा उठाएगा। • सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली

चीन पर नजर

इन दिनों सबकी निगाहें चीन पर हैं। क्या अब वह फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा मसूद अजहर पर

प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या पहले की तरह ही वीटो करेगा? उम्मीद यही है कि वह सफलता से दुनिया के देशों को यह जता दिया कि पाकिस्तान का साथ देगा। वैसे भी, अगर चीन वीटो नहीं करेगा तब भी इसका सांकेतिक असर ही पड़ेगा। विदेशों में उसके बैंक खाते सील कर देने या यात्रा प्रतिबंध लगा देने मात्र से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा है कि पहले भी कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा है मगर वे अपना नाम और ठिकाना बदल कर खूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सिपाहे सहाबा और हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया लेकिन ये दोनों आज भी पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ के लिए काम कर रहे हैं। किसी देश की सरकार ही अगर आतंकी संगठन का साथ दे तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन देशों के प्रस्ताव को अगर चीन ने इस बार भी वीटो किया तो सुरक्षा परिषद में सुधार की वर्षों पुरानी मांग को जल्दी पूरा किया जाना जाहिए। अगर स्थायी सदस्यों की संख्या को पांच से अधिक न भी बढ़ाया जाए तो ऐसा बदलाव तो किया ही जाना चाहिए कि वीटो तभी मान्य हो जब पांच में से दो देश किसी प्रस्ताव पर वीटो करें।

• जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर शुभ संदेश

न कोई काम बड़ा होता है न छोटा। हर काम का अपना महत्त्व है। जो भी जैसा कार्य कर रहे हैं उसके महत्त्व को हम नकार नहीं सकते। इस संदर्भ में प्रयाग कुंभ में प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर पखार कर यह शुभ संदेश दिया है कि देश में अगर सभी नागरिक श्रम करने वालों को समान महत्त्व दें तो निश्चित ही देश की सुरत अलग होगी। इससे विषमता वाले सामाजिक ढांचे में समरसता की मिठास घोली जा सकती है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है।

हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन

पाक मीडिया में भी

छाये अभिनंदन

भाग्य ने अभिनंदन का

पाकिस्तानी अखबार 'द डॉन' ने

लिखा है कि भाग्य ने अभिनंदन का

साथ नहीं दिया क्योंकि उनका मिग-

हिस्से में गिरा. अखबार का कहना है

कि आजाद कश्मीर में स्थानीय लोगों

ने उन्हें पकड़ा और पाकिस्तानी सेना

को सौंपा, गुस्साई भीड़ से सेना के

भारतीय पायलट ने की

पाक सेना की तारीफ

एक अन्य अखबार एक्सप्रेस

द्रिब्यून ने अभिनंदन से जुड़ी दो

अधिकारियों ने उन्हें बचाया .

एक्सप्रेस ट्रिब्युन

21 बाइसन पाक के नियंत्रण वाले

साथ नहीं दिया

द डॉन

गौरव. पाकिस्तान के एफ-१६ विमान को खदेड़ते हुए पीओके पहुंच गये थे अभिनंदन, बहादुरी से पाकिस्तानी भी हैं हैरान

60 घंटे की मशक्कत के बाद भारत में अभिनंदन


नेशनल कंटेंट सेल

पाकिस्तान के बार-बार वक्त बदलने के बाद आखिरकार, विंग कमांडर अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीं पर वापस लौट आये. गिरफ्तार होने से लेकर वापस स्वदेश लौटने के बीच देश ने 60 घंटों तक अभिनंदन के जज्बे, बहादुरी और हौसले को देखा. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, सुबह करीब 8:45 बजे अभिनंदन पीओके में उतरे थे. इसके बाद शुरू हुआ पाक का खेल. बुधवार दोपहर 3.15 पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट के 'मिसिंग इन एक्शन' यानी लड़ाई के दौरान गायब होने की बात कही. बुधवार शाम को ही अभिनंदन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चाय पीते दिखे.

- बुधवार शाम होते–होते जब पूरी तरह
 गुरुवार शाम करीब सात बजे भारत साफ हो गया कि अभिनंदन पाक सेना के कब्जे में है तो भारत की ओर से सख्त लहजे में पाक को कहा गया कि वह तुरंत अभिनंदन को लौटायें.
- रात होते–होते, अभिनंदन की वापसी के लिए भारत हर कूटनीतिक दरवाजे खोल चुका था.
- गुरुवार सुबह करीब नौ बजे खबर आयी कि एनएसए डोभाल ने युएस के विदेश मंत्री से फोन पर बात की .
- पाक स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाक विदेश मंत्रालय को आपत्ति पत्र (डिमार्शे) सौंपकर अभिनंदन की तूरंत रिहाई की मांग की.
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोई अच्छी खबर सामने आने वाली है. जाहिर है, भारत का कुटनीतिक दबाव काम करने लगा था.
- पाक के विदेश मंत्री ने कहा कि इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं.
- दोपहर करीब तीन बजे भारत ने एक बार फिर चेतावनी दी कि पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं की जायेगी. भारत ने दोहराया कि अभिनंदन को खरोंच भी आयी तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
- शाम करीब 4 .30 बजे पाकिस्तान ने आखिरकार झुकते हुए कहा कि वह भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ने को तैयार है . इसका एलान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संसद के भीतर से किया.

की तीनों सेनाओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की . इसमें पाकिस्तान के हरेक झूट को बेनकाब किया गया

- शुक्रवार सुबह एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रामेबाजी शुरू की . पहले तय हुआ कि अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर दोपहर २ बजे सौंपा जायेगा. फिर खबर आयी कि पाक उन्हें शाम को बीटिंग रिटीट के दौरान सौंपना चाहता है . भारत ने पाक को सीधे शब्दों में यह संदेश भिजवाया कि पायलट को बीटिंग रिट्रीट से पहले ही सौंप दिया जाये.
- दिन भर वाघा बॉर्डर पर गहमा-गहमी बनी रही. भारत ने अपनी तरफ की बीटिंग रिटीट सेरेमनी रद्द करने का एलान किया.
- लेकिन पाक ने अपनी तरफ की सेरेमनी रद्द नहीं की . इस बीच एक खबर यह भी आयी कि पाकिस्तान की अदालत में अभिनंदन को भारत को सौंपने के खिलाफ अर्जी दाखिल हो गयी है . कुछ पल के लिए सांसें टहर गयीं, दिल थम गये .
- कुछ देर में ही राहत भरी खबर आयी कि अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है.
- आखिरकार, पुरे ६० घंटे तक पाकिस्तान की जमीं पर रहने के बाद जोश, जज्बे, जांबाजी और जिंदादिली की मिसाल विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान ने भारत की जमीं पर अपने कदम रखे.





बॉलीवुड बोला

मैं खुश हूं कि विंग कमांडर अभिनंदन घर वापस आ रहे हैं .

अमिताभ बच्चन

घर वापस आने से बेहतर कोई एहसास नहीं है, क्योंकि घर प्यार, उम्मीद और सपनों का स्थान है . आपकी बहादुरी हमें मजबूत बनाती है. सदा आभारी

विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी

शाहरुख खान

खुशी से भर गये हैं. जय हिंद विवेक ओबरॉय पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर ख़ुशी आ

गई . अब बस अभिनंदन की वापसी का

पर बहुत खुशी हुई . हमारे दिल गर्व और

तापसी पन्नू



विंग कमांडर अभिनंदन, आपके आत्मविश्वास, प्रताप और बहादूर ने हम सभी को गर्व से भरने का काम किया है.

राहुल गांधी



प्रिय, विंग कमांडर अभिनंदन आपकी दिलेरी और साहस ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है. आपकी वापसी से भारत खुश है . अमित शाह

खबरों को अपने पन्ने पर जगह दी है. खबर के अनुसार अभिनंदन के साथ जिस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तानी सेना कर रही है उसकी देश के बाहर भी प्रशंसा मिल रही

द नेशन

सलामती बताने को सेना ने दूसरा वीडियो डाला

है. दूसरी खबर के अनुसार, एक

है जो स्वागतयोग्य है.

भारतीय ने पाक सेना की तारीफ की

पैराशूट से उतरने के बाद स्थानीय लोगों ने अभिनंदन के साथ मारपीट की थी. कुछ लोगों ने अभिनंदन का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया जिसमें उनके चेहरे पर काफी सारा खून दिखायी दे रहा था. पायलट की सुरक्षा को लेकर भारत में चिंता न हो इसलिए बाद में सेना ने उनका दूसरा वीडियो जारी किया जिसमें वह सुरक्षित चाय पीते हुए दिखायी दे रहे थे.

फेक न्यूज

एक महिला बता दी गयी अभिनंदन की पत्नी



14 किया जा चुका है 🌑

बाद देखा जा चका है

विंग कमांडर अभिनंदन के देश लौटने से पहले ही सोशल मीडिया पर उनके परिवार को लेकर बहुत सी जानकारी शेयर की जा चुकी है. अब फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और ट्विटर पर एक विडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक महिला खुद को आर्मी अफसर की पत्नी बताते हुए राजनेताओं से जवानों के त्याग पर राजनीति न करने की अपील कर रही है. इस महिला को विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी बताया जा रहा है.

दावा

फेसबुक यूजर दिनेश सिंगता ने गुरुवार को एक विडियो पोस्ट किया और साथ में कैप्शन लिखा कि विंग कमांडर अभिनंदन जी की पत्नी का संदेश कि सैनिकों के बलिदान पर भाजपा न करे राजनीति. विडियो में महिला जो कह रही हैं उसका अनुवाद इस तरह है- हैलो, मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हुं और सभी सशस्त्र बलों के परिवारों की ओर से अपने भारत के लोगों और खासतौर पर राजनेताओं से अपील करूंगी की हमारे जवानों के बलिदान पर राजनीति न करें. एक सैनिक होने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है. जरा सोचिए कि इस समय अभिनंदन का परिवार किस पीड़ा, किस परेशानी से गुजर रहा होगा. इसलिए जब तक भारत-पाक सीमा पर तनाव कम न हों जाये कृपया अपनी रैलियां बंद कर दें और हमारे जवानों की मेहनत का श्रेय लेने की हिम्मत भी न करें. मैं फिर दोहरा रही हं कि हिम्मत भी न करें. कृपया अपनी टिकट गिनना और राजनीति करना बंद करें. आपके पास राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है लेकिन इस वक्त नहीं. हमारे जवानों के बलिदान की कीमत पर नहीं. यह मेरा सभी राजनेताओं से निवेदन है.

सच

विडियो में दिखने वाली महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी नहीं है. बल्कि, एक अन्य आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं.

कैसे हुई पड़ताल

गूगल पर 'अभिनंदन वर्दमान वाइफ' कीवर्ड सर्च करने पर 'तेलुगू समयम' को एक रिपोर्ट मिली. जिसमें बताया गया है कि अभिनंदन की पत्नी खुद भी भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुकी हैं. इस रिपोर्ट में अभिनंदन की पत्नी तनवी मारवाह की तस्वीर भी दी गयी है. इस तस्वीर में अभिनंदन की पत्नी और विडियो में दिखने वाली महिला एकदम अलग हैं.

पाक विदेश मंत्री ने मसूद के पाकिस्तान में होने की बात कबूली

मसूद बेहद बीमार, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता : कुरैशी

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमद कुरैशी ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसुद अजहर के उनके देश में मौजूद होने की बात कबूल कर ली है. लेकिन, उनका कहना है कि भारत द्वारा ठोस तथा अकाट्य प्रमाण देने (जो कि अदालत में पेश किये जा सकें) पर ही सरकार उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती है. कुरैशी ने अजहर पर सीएनएन से कहा कि मुझे मिली जानकारी के मुताबिक वह पाकिस्तान में ही है. वह इस हद तक बीमार है कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकता. उन्होंने कहा कि मसुद अजहर पाकिस्तान में है. वह बहत अस्वस्थ है. वह इस हद तक अस्वस्थ है कि वह अपना घर नहीं छोड़ सकता. कुरैशी ने यह भी कहा कि अदालत में पेश किये जाने लायक सबत देने पर पाकिस्तान उसके खिलाफ कदम उठायेगा.

उन्होंने कहा कि अगर उनके पास ठोस सबत और ऐसे प्रमाण हैं जो कि अदालत में सबूत के तौर पर पेश किये जा सकें. उन्हें हमसे साझा करें ताकि हम लोगों को विश्वास दिला सकें और



जैश और मसूद अजहर पर कार्रवार्ड करेगा अमेरिका

अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई का एलान किया है . अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका जैश और उसके सरगना के खिलाफ के काननू कार्रवाई करेगा, उसे पैसे पर रोक लग सके .

जैश सरगना अजहर मसूद ने भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद जारी रखने का संकल्प लिया : रिपोर्ट

पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार जैश सरगना अजहर मसूद ने करीब सालभर पहले एक सम्मेलन में संकल्प लिया था कि भारत पाकिस्तान संबंध चाहे जिस भी स्थिति में रहे वह अपना 'गजवा ए हिंद' (भारत के खिलाफ जिहाद) जारी रखेगा. यह बात एक गुप्तचर रिपोर्ट में कही गयी है . अधिकारियों ने पाकिस्तान के ओकारा जिले में 27 नवंबर, 2017 को आयोजित सम्मेलन का उल्लेख करते हुए यह बात कही . उस सम्मेलन में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और जैश–ए–मोहम्मद की संगठनात्मक गतिविधियों और उसके प्रमुख मसूद अजहर की भिमका की प्रशंसा की थी.

पाकिस्तान की स्वतंत्र न्यायपालिका को विश्वास दिला सकें. उन्होंने कहा कि हमें काननी प्रक्रिया परी करनी होगी. करैशी

अभिनंदन वर्तमान को सौंपने के कदम को शांति की पहल बताते हुए कहा कि इसे पाकिस्तान की तनाव कम करने की ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर 🛮 इच्छा के तौर पर देखा जाना चाहिए.

देश में कई जगहों विदेशी मीडिया ने अभिनंदन पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट

नयी दिल्ली. भारत-पाक के बीच जारी तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को अलर्ट किया है. खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आतंकी हमला कर सकते हैं. अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकी ग्रुप अब जम्मू-कश्मीर के अलावा हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करना चाहते हैं. खुफिया जानकारी के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी दिल्ली के 29 महत्वपूर्ण स्थलों को आतंकी निशाना

बना सकते हैं. दिल्ली के 29 स्थलों पर हो सकते हैं आतंकी हमले : सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के 29 महत्वपूर्ण और खास स्थलों पर आतंकी हमलों की चेतावनी जारी की गयी है. दिल्ली में आतंकियों के निशाने पर इंडिया गेट, सेना भवन, प्रेसिडेंट हाउस, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट. सरोजिनी नगर बाजार. चांदनी चौक, पालिका बाजार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लोटस टेंपल, लालकिला, नेशनल डिफेंस कॉलेज, चीफ जस्टिस हाउस, दिल्ली एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया, दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय. एम्स. मॉल्स सिनेमा हॉल, डिफेंस कॉलेज और अक्षरधाम मंदिर शामिल हैं.

पर मोदी को जम कर सराहा

नेशनल कंटेंट सेल

भारतीय वायसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल और जल्द वापसी को भारत की कुटनीतिक जीत बताया जा रहा है. पूरी दुनिया की मीडिया ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और पीएम मोदी को तुरंत फैसला लेने वाले नेता के रूप में पेश किया है. द गार्जियन

ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि इमरान का अभिनंदन को रिहा करने का एलान काफी आश्चर्यजनक है. इसके बाद पाक भारत पर दबाव बनायेगा जिससे तनाव कम हो. लेकिन जब तक पाक यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वह अपनी जमीन पर मौजुद आतंकी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है, तब तक भारत कार्रवाई जारी रख सकता है.

न्ययॉर्क टाइम्स

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी पाक पीएम इमरान के प्रस्ताव को मानने के पक्ष में नहीं थे. बीते कई दशकों से पाकिस्तान के साथ चल रही बातचीत की प्रक्रिया थका देने वाली है. पाकिस्तान में मौजद आतंकी समुहों पर कार्रवाई नहीं करने से भारत थका हुआ महसस करने लगा है.

वॉशिंगटन पोस्ट

अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत- पाक के बीच दशकों से सैन्य मुठभेड़ जारी हैं. दबाव के बीच इमरान ने अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा की. वहीं, मोदी ने खुद को अचानक फैसले लेने वाले नेता के रूप में पेश किया, पाक नहीं जानता कि वह कहां वार कर सकता है.

सीएनएन

अमेरिकी समाचार संस्थान सीएनएन ने लिखा है कि जब दो बड़े देशों के बीच लडाई होती है तो लोगों के अंजाम भृगतने की संभावना ज्यादा होती है. यह बात कुछ समय पहले पाक में चुन कर सत्ता में आये इमरान और भारत में नरेंद्र मोदी दोनों महसूस कर रहे हैं.

पाक अखबार डॉन ने लिखा है कि सैन्य घुसपैठ को लेकर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें भारतीय सीमा या नियंत्रण रेखा पर हमला करना चाहिए या पार करना चाहिए. पाकिस्तानी राजनियकों के लिए इस तरह की आक्रामकता के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना एक बड़ी

पहले भी वायु सेना के तीन अधिकारी लौट चुके हैं स्वदेश

भारत विंग कमांडर अभिनंदन के 'अभिनंदन' के लिए तैयार है. अभिनंदन को पाक फौज ने उस वक्त पकड़ लिया था जब उनका विमान पीओके में गिर गया था.

नेशनल कंटेंट सेल

भारत विंग कमांडर अभिनंदन के 'अभिनंदन' के लिए तैयार है. अभिनंदन को पाक फौज ने उस वक्त पकड़ लिया था जब उनका विमान, पाक लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर में जा गिरा था. अभिनंदन की ही बदौलत भारत में पाकिस्तानी वायुसेना की घुसपैठ नाकाम हुई थी. इसे बाद भारत सरकार के दबाव के बाद गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में अभिनंदन को सकुशल भारत को सौंपने घोषणा की थी. अभिनंदन के अलावा ऐसे तीन भारतीय वायुसेना

अधिकारी भी हैं जो पाकिस्तान के

साथ हुए 1965, 1971 और 1999 के युद्ध के दौरान पाक फौज की हिरासत में रहे और जिन्होंने वहां कारावास में फौज का उत्पीड़न सहा था. तीनों को ही अभिनंदन की ही तरह पाकिस्तानी वायुसेना को करारा जवाब देने के दौरान पकड़ लिया गया था. ये तीन भारतीय वायुसेना पायलट कंबंपति नचिकेता, जेएल भार्गव और केसी करियप्पा हैं. नचिकेता भारत और पाकिस्तान के बीच हए 1999 के करगिल युद्ध के दौरान गिरफ्तार हुए और आठ दिनों तक पाक हिरासत में रहे. वहीं, जेएल भार्गव 1971 के युद्ध में एक साल तक पाक सेना की कैद में रहे. 1965 के यद्ध में एयर मार्शल केसी करियप्पा ने चार महीने पाक फौज की हिरासत में बिताये.

जेएल भार्गव से पाक के अधिकारी ने कहा- कलमा पढें



पूर्व एयर कोमोडोर जेएल भार्गव १९७१ के युद्ध में पाक सेना द्वारा पकड़े गये . भार्गव को पाक सेना ने कलमा पढने के लिए कहा और जब वह नहीं पढ पाये

तो उन्हें जेल भेज दिया गया भार्गव का विमान 5 दिसंबर, 1971 को पाक में गिरा था . उन्होंने पाक फौज के हाथ लगने से पहले बारह घंटे तक अपनी पहचान छिपाये रखी थी. अपनी पहचान छिपाते-छिपाते आखिर में वे पाक फौज के हाथ लग ही गये. इससे पहले तक वे खुद को पाक सेना का जवान बताते रहे . उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था तो अभिनंदन की तरह ही उनसे भी पूछा गया कि वह कहां से हैं, उन्होंने खुद को रावलिपंडी का बताया. जब किसी ने उनसे कहा कि वह भारत में खड़े हैं तो भार्गव चालाकी समझ गये और खुद को पाक भेजने की गुजारिश करने लगे.

🛖 नचिकेता को आट दिनों तक 🚄 अंधेरे कारावास में रखा



फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता करगिल यद्ध के हीरो हैं. 26 मई, १९९९ को करगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में जाने वाले नंबर ९स्क्वाडन

आइएएफ पायलटों में से एक थे. नचिकेता ने 80 एमएम रॉकेट्स के जरिये दुश्मन के ठिकाने पर पहला वार किया और जैसे ही 30एमएम केनन से दूसरा वार कर रहे थे. विमान के इंजन में आग लग गयी और इंजन फेल हो गया . नचिकेता विमान से कूद गये और पाक की धरती पर पहुंच गये . जैसे ही वह पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे उन्होंने पहले दो-तीन घंटों तक खुद को पाक फौज की पकड़ में आने से बचाये रखा . इसके बाद गस्त पर आयी पाक फौज ने उन्हें पकड़ लिया और आठ दिनों तक रावलिपंडी में अंधेरे कारावास में डाले रखा . यहां उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया. उनसे तरह–तरह की जानकारी मांगी गयी.

ŋ पाक हिरासत में चार महीने 🔰 रहे एयर मार्शल करियप्पा



एयर मार्शल केसी करियप्पा का विमान 1965 के युद्ध के आखिरी दिन पीओके में जा गिरा था . चार महीने पाक हिरासत में बिताने के बाद वह सकुशल

भारत लौटे थे . केसी करियप्पा ने भी दूसरे वायुसेना अधिकारियों की ही तरह पाक फौज को सिर्फ अपना नाम, यूनिट नंबर व रैंक बतायी थी . उन्होंने पाक स्तानी फौज को यह जानकारी नहीं दी कि उनके पिता फील्ड मार्शल केएम करियप्पा हैं, जो कि आजाद भारत में सशस्त्र बलों के पहले भारतीय प्रमुख थे . इसके बाद पाकिस्तान के जनरल अयुब खान ने रेडियो के जरिये उनके पाक में गिरफ्तारी की घोषणा की और उनके सुरक्षित होने के बारे में जानकारी दी इतना ही नहीं अयूब खान ने उन्हें जल्द रिहा करने की भी घोषणा की क्योंकि केसी करियप्पा के पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी के दौरान अयूब खान के बॉस थे.



प्रेम की भाषा समझने के लिए उसकी अनुभूति भी आवश्यक है

ओआइसी में भारत

यह बहस तो अभी लंबी खिंचेगी कि पाकिस्तान मूलतः किन कारणों से भारतीय वायसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को आनन-फानन रिहा करने पर सहमत हो गया, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि उसे इस्लामी देशों के सबसे बड़े समह ओआइसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में मुंह की खानी पड़ी। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इस संगठन ने पाकिस्तान की नाराजगी और यहां तक कि आयोजन के बहिष्कार की उसकी धमकी की भी अनदेखी कर यह सुनिश्चित किया कि अतिथि वक्ता के तौर पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उसके मंच को अवश्य संबोधित करें। उन्होंने ऐसा ही किया। इसी के साथ इस पर मुहर लग गई कि खुद इस्लामी देश पाकिस्तान को एक सीमा से अधिक अहमियत देने को तैयार नहीं। उनके रवैये ने भारत के बढ़ते कद को ही प्रमाणित किया। यह इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि एक समय पाकिस्तान के विरोध के चलते भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मोरक्को में इस संगठन के समारोह में शिरकत नहीं करने दी गई थी। दरअसल तब पाकिस्तान ने जिद पकड़ ली थी कि यदि भारतीय दल को अनुमित दी गई तो वह आयोजन का बहिष्कार कर देगा। वक्त ने करवट ली और अब हालत यह है कि अबधाबी में उसके विरोध को दरकिनार कर दिया गया।

यह सही है कि हाल के समय में भारत ओआइसी में भागीदारी करने का इच्छक नहीं रहा और अभी भी यह साफ नहीं कि भारतीय नेतत्व इस संगठन में अपनी भावी भूमिका को लेकर क्या सोच रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान इसकी अनदेखी करे कि भारत के इस्लामी देशों से संबंध सदियों पराने हैं। इन संबंधों और भारत में मसलमानों की बड़ी आबादी के कारण ही भारत को मोरक्को में निमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान को यह वैसे ही नहीं सुहाया था जैसे अब यह नहीं भाया कि भारतीय विदेश मंत्री ओआइसी के मंच से बोलें। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कमजोर पड़ने के साथ ही विश्व स्तर पर बदनाम हो रहे पाकिस्तान को ओआइसी के मौजूदा नेतृत्व से बदलते जमाने के साथ चलना सीखना चाहिए, लेकिन शायद उसने न सुधरने की ठान ली है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है कि वह एक ओर शांति का संदेश देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला करता है और दूसरी ओर ओआइसी में भारतीय विदेश मंत्री के संबोधन को सुनने के लिए तैयार नहीं होता? इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के प्रति अपने बैर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए उससे सतर्क रहना होगा। अभिनंदन को छोड़ने का उसका फैसला यह नहीं साफ करता कि वह आतंक का साथ छोड़ने को तैयार है। वह यह काम इसलिए आसानी से नहीं करने वाला, क्योंकि उसे लगता है कि भारत को आतंकवाद के जरिये ही झुकाया जा सकता है। इस मुगालते से ग्रस्त होने के कारण ही मुंबई हमले के गुनहगार उसके यहां छुट्टा घूम रहे हैं। इमरान खान को शांति का मसीहा करार देने वाले यह समझें तो बेहतर कि एक तो जैश जैसे संगठन उनके लिए वोट जुटाने का काम कर चुके हैं और दूसरे वह पाकिस्तान के

नया सियासी समीकरण

भाजपा के पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटों पर लड़ने की तैयारी करने को लेकर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस, वाममोर्चा और कांग्रेस के समक्ष भी चुनौती खड़ी हो गई है। भाजपा यह मान कर चल रही है कि बंगाल में उसकी सीधी टक्कर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस से है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आधा से अधिक यानी लगभग दो दर्जन सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वहीं तुणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुल 42 सीटों पर कब्जा करने को ध्यान में रख कर तैयारी करने का निर्देश पार्टी नेताओं को दिया है। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी माकपा की स्थिति क्या होगी? बदलते नए राजनीतिक समीकरण में माकपा और कांग्रेस के एक-दूसरे के करीब आने और मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना बनी है, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। वाममोर्चा के घटक दल कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल करने के पक्ष में नहीं हैं। घटक दलों के दबाव में माकपा कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से चुनावी गठबंधन करने से पीछे हट गई है। इस पर अब प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी अपनी गरिमा से समझौता करके माकपा के साथ सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। बुधवार को कांग्रेस के बंगाल पार्टी प्रभारी गौरव गोगोई की अध्यक्षता में राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य और विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान सीट बंटवारे के मुद्दे पर माकपा से बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर तीन मार्च तक स्थिति स्पष्ट कर लेनी होगी। दरअसल कांग्रेस रायगंज और मुर्शिदाबाद सीटों के अतिरिक्त कम से कम 15 अन्य सीटों पर लड़ने की इच्छुक है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि रायगंज और मुर्शिदाबाद माकपा की जीती हुई सीट है जिस पर वह किसी भी हाल में अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि माकपा उसकी शर्तों पर तालमेल नहीं करती है तो कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी।

आतंक पर किया जाए निर्णायक प्रहार



छल-कपट पाकिस्तान का चरित्र और स्वभाव है तो आतंक उसका उपकरण । ऐसे में भारत को अपनी कूटनीतिक बढ़त का लाभ उठाकर पाक पर ऐसा शिकंजा कसना चाहिए कि वहां आतंक फिर से सिर न उढा पाए

रुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई का एलान किया। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ सौदेबाजी की जो कोशिश की थी वह उसके मानसिक दिवालियेपन का ही परिचायक था। इसमें पाकिस्तान न सिर्फ जेनेवा कन्वेंशन की अनदेखी कर रहा था, बल्कि यह भी भूल रहा था कि 1971 में हमने कैसे उसके नब्बे हजार से अधिक सैनिक उसे सौंप दिए थे। पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तानी दुस्साहस के बाद सामने आए इस मामले के साथ ही सब कुछ सहज नहीं होने वाला। छल-कपट पाकिस्तान का चरित्र और स्वभाव है तो आतंक उसका उपकरण। बीते कई दशकों से वह भारत में आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करता आ रहा है। इससे निपटने में भारत का रवैया भी रक्षात्मक रहा है, लेकिन मोदी सरकार में यह रुख बदला है। पहले उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक और अब बालाकोट में हवाई हमले के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भारत के पास सभी विकल्प खुले हैं। सरकार का खैया सैन्य मोर्चे पर ही आक्रामक नहीं, बल्कि उसकी सोच में भी परिवर्तन दिख रहा है। बालाकोट कार्रवाई के बाद विदेश मंत्रालय के बयान में यह जाहिर भी हुआ जब पहली बार 'जिहादी' शब्द का जिक्र किया गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार इसके उल्लेख से कन्नी काटती रहीं, क्योंकि इससे उन्हें एक तबके के कुपित होने की आशंका सताती

थी। ऐसे में पाकिस्तानी आतंकवाद को 'नॉन स्टेट एक्टर' जैसे आवरण से ढंकने का प्रयास होता था। मोदी सरकार ने यह परिपाटी तोड़ते हुए जो इच्छाशक्ति दिखाई है उससे पाकिस्तान आज हर मोर्चे पर असहाय दिखता है। मगर उसके चरित्र को देखते हुए नहीं लगता कि वह अपनी हरकतों से बाज आएगा। इसके लिए उसके असली स्वरूप को समझना बेहद जरूरी है।

एक बार कराची में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे रात्रिभोज पर आमंत्रित किया। मुख्य द्वार से उनके बंगले की दूरी करीब एक किलोमीटर थी और बंगले की सजावट किसी महल के माफिक थी। ऐसे ठाट-बाट कहां से आते हैं? पाकिस्तानी सेना करीब तीन दर्जन से अधिक वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करती है और भ्रष्टाचार एवं अय्याशी का पर्याय बनी हुई है। जिहादी संगठनों को पालना उसके अस्तित्व और 'चुनी हुई' सरकार पर नियंत्रण के लिए जरूरी है। पाकिस्तानी समाज को अशिक्षित, अतार्किक और विकासशून्यता की स्थिति में रखना उनकी नीति है ताकि धर्म के नाम पर एक विकृत मानसिकता कायम ख उसका दोहन किया जा सके। पाकिस्तान अपने जीडीपी का 3.8 प्रतिशत सेना पर ही खर्च करता है, जबकि जीडीपी के पैमाने पर भारत इसका आधा ही खर्च करता है, फिर भी पाकिस्तान सेना अपनी क्षमताओं से जगहंसाई ही कराती आई है। इसमें चाहे भारत के साथ हुए युद्ध हों या हाल में बालाकोट हमला। स्पष्ट है कि सेना के संसाधनों को वहां फौजी हुक्मरान अपने ऐशो-आराम पर



खर्च करते हैं और भारत से सीधी लड़ाई नहीं लड सकते तो आतंकवाद को पोषित करते हैं। यह भी एक विडंबना है कि पाकिस्तान खुद को आतंक पीड़ित देश बताकर इससे लड़ाई के नाम पर दुनिया से उगाही करता है। इससे मिली अधिकांश रकम को भी वह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में ही इस्तेमाल करता है। एक उदाहरण से पाकिस्तान के इस 'डीप

स्टेट' और उससे निपटने में जुटी भारतीय खुफिया एजेंसियों की तैयारी को समझ सकते हैं। यह 2008 के आसपास की बात है। खुफिया एजेंसी में मेरे परिचित अधिकारी अचानक मुझसे मिलने दफ्तर आए और पूछा कि पाकिस्तान से आया कोई अमुक व्यक्ति क्या आपके चैनल का मेहमान है? मैंने कहा कि हां और पाकिस्तान में उनकी मेहमाननवाजी का जिक्र भी किया कि वह एक पाकिस्तानी अखबार के संपादक हैं। मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि वह हमारे स्टुडियो में पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर चर्चा करें। इस जवाब से उक्त अधिकारी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। हैरानी के साथ मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है? उन्होंने विनम्रतापूर्वक

कहा, 'यह साहब दोबारा कभी भारत आएं तो इन्हें अपना मेहमान मत बनाइएगा।' मैंने लगभग घबराते हुए पूछा कि क्या गड़बड़ हुई? इस पर उन्होंने कहा, 'जब यह जनाब कराची से चले थे तो आइएसआइ मुख्यालय में इनकी चार घंटे ब्रीफिंग हुई और अमुक नंबर की कार से इन्हें कराची हवाई अड्डे छोड़ा गया था।' मैंने उत्सकतावश पुछा कि क्या भारतीय एजेंसियों की पाकिस्तान में इस स्तर तक पहुंच हो गई है कि ऐसी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं? इस पर अधिकारी ने हंसते हुए कहा, 'हमें तो यह भी मालूम है कि वह आइएसआइ का कौन-सा संदेश किस-किस के लिए लाया है और हम उसके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे।' मुझे हमारी एजेंसियों की पेशेवर दक्षता पर गर्व हुआ। असल में जब आपका शत्रु पाकिस्तान जैसा ढीठ देश हो

यह हमारी खुफिया एजेंसियों के अलावा इजरायल और अमेरिका जैसे देशों के सहयोग का ही कमाल था कि बालाकोट में जैश के ठिकानों की इतनी सटीक जानकारी मिल सकी। उन्हें मालूम है कि आतंकी रंगरूटों की

तो ऐसी सजगता बेहद जरूरी हो जाती है।

भर्ती के लिहाज के पाकिस्तान के कौन-कौन से इलाके कितने संवेदनशील हैं। धर्म की आड़ मे उन्हें बरगलाकर विश्वास दिलाया जाता है कि वे सौभाग्यशाली हैं जो अल्लाह ने अपने काम के लिए उन्हें चुना है। करीब दो साल की कड़ी प्रक्रिया के दौरान उन्हें सख्त शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही हथियार चलाने और बम बनान सिखाया जाता है। पाकिस्तान में आतंक एक कुटीर उद्योग बन चुका है। यहीं से आत्मघाती हमलावर निकलते हैं। ऐसे में जब दुश्मन छुपकर वार करने वाला हो तो उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखना अपरिहार्य हो जाता है और हमारी खुफिया एजेंसियां इसी मकसद में लगी हैं।

जो लोग खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली से वाकिफ नहीं वें सवाल उठा सकते हैं कि यदि इतनी जानकारी थी तो मुंबई और पुलवामा जैसे हमलों को क्यों नहीं रोका गया। इसके दो कारण हैं। एक यही कि खुफिया जानकारी चाहे कितनी भी पुख्ता हो, अगर दुश्मन हमला करना चाहे तो रास्ता निकाल लेता है। दूसरा यही कि जब दुश्मन देश की एक बड़ी आबादी का ब्रेनवॉश कर उन्हें फिदायीन बना दे तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। भारत की लंबी सीमा रेखा से भी यह चुनौती बढ़ जाती है। तीसरी दिक्कत कश्मीर जैसी जगह पर दुश्मन को मिलने वाली मदद भी है, क्योंकि स्थानीय वर्ग मजहबी आधार या आर्थिक लोभ में उनकी मदद करता है या फिर आतंकी भयादोहन से अपने हित साधते हैं।

भारत ही नहीं आज पूरा विश्व आतंक से परेशान है और इस आतंक का सबसे बड़ा स्रोत पाकिस्तान है। भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत है। वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज सुनी और मानी जा रही है। ऐसे में यह सही समय है कि वैश्विक समुदाय को साथ लेकर पाकिस्तान में आतंक के फन पर निर्णायक हमला किया जाए ताकि वह फिर से सिर न उठा पाए।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ट

response@jagran.com

सोशल मीडिया का खतरनाक इस्तेमाल

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के लिए आधुनिक सामरिक तकनीक के साथ सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद द्वारा हमलावर आदिल अहमद के सोशल मीडिया के माध्यम से जारी वीडियो से कश्मीर में आतंक के नए रक्तबीज पनपेंगे। इस प्रसारण से तकनीक के विनाशकारी चेहरे का भी घिनौना रूप प्रकट हुआ है। सोशल मीडिया कंपनियों में फेसबुक सबसे बड़ी है, जिसके यूजर्स की संख्या विश्व के किसी भी देश की आबादी से अधिक है। हाल में ब्रिटेन की संसदीय समिति ने फेसबुक को 'डिजिटल गैंगस्टर' कहते हुए सभी सोशल मीडिया कंपनियों की कार्यप्रणाली पर बडा सवाल खडा किया है। जांच से यह बात सामने आई है कि लोगों के सोने, जागने, घूमने, खरीदारी, बैंक, परिवार समेत सभी निजी जानकारियों और पल-पल का डाटा इन कंपनियों के पास है।

जनता को मुफ्त में जानकारी देने का झांसा देकर इन कंपनियों द्वारा देश के सभी संवेदनशील स्थानों की भी जानकारी हासिल कर ली गई है, जिनका अब आतंकियों द्वारा इस्तेमाल होने लगा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए सिम कार्ड चाहिए होता है। दूरसंचार नियामक ट्राई के निर्देशों के अनसार केवाईसी वेरिफिकेशन के बिना सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत के कानून और एजेंसियों से बचने के लिए आतंकियों द्वारा पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों का मोबाइल नंबर इस्तेमाल होने लगा। पुलवामा हमले में जैश-ए-महम्मद के कर्ताधर्ताओं ने आदिल से संपर्क करने के लिए पीयर टू पीयर तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वे भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगरानी से बच गए। जाहिर है इस तरह के नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर तकनीकी समन्वय की

तथ्य-कथ्य । भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन (हजार टन में)

अप्रैल

8,434

दिसंबर, 2017 जनवरी, 2018 फरवरी



रोक लगाई ही जा सकती है।

आशंका बढ़ रही है जरूरत है, लेकिन आतंकियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक के प्रसार और जनसंपर्क पर तो इन कंपनियों द्वारा

सोशल मीडिया पर

गुमनाम यूजर्स को

स्वीकृति मिलने से

गलत उपयोग की

आतंकियों द्वारा इसके

फेसबुक, वाट्सएप और ट्विटर समेत सभी कंपनियों की नीति के अनुसार इनके प्लेटफॉर्म पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आपत्तिजनक समूहों और संदेशों को हटाने के लिए इन कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर महिम भी चलती है। इसके बावजद आतंकियों द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाना इन कंपनियों की नाकामी को ही दर्शाता है। इन कंपनियों के पास जब ग्राहकों का निजी डाटा और सारी जानकारी रहती है तो फिर आतंकी लोगों को सोशल मीडिया ग्रुपों में प्रवेश कैसे मिल जाता है? इन कंपनियों द्वारा एक फीसद से भी कम लोगों के अकाउंट का वेरिफिकेशन किए जाने से ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का आतंकी संगठनों द्वारा दुरुपयोग संभव हो पा रहा है। देश में गुमनाम तरीके से किरायेदार रखने पर मकान मालिक को सजा होती है तो फिर करोड़ों गुमनाम लोगों को प्लेटफॉर्म महैया कराने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए?

दरअसल यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इन कंपनियों का कारोबार और आमदनी भी बढ़ती है। इसीलिए इन कंपनियों द्वारा गुमनाम यूजर्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से अपराधियों और आतंकवादियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में आसानी हो जाती है। अमेरिका में इन कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सालाना विवरण के अनुसार लगभग आठ से दस फीसद यूजर्स बोगस, डुप्लीकेट और गुमनाम हैं। भारत में उद्योग सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों के तीस फीसद से अधिक ग्राहक फर्जी और गुमनाम हैं। लोगों को जोड़कर एक विश्व ग्राम बनाने के सपने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का विकास हुआ था, परंतु अब फेक-न्यूज, मॉब लिचिंग, अपराध, ड्रग्स और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका बहुतायत से इस्तेमाल होना चिंताजनक है।

आतंकी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत और हिंसा भड़काने की मुहिम पर लगाम लगाने के लिए इन कंपनियों द्वारा भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। देश के लोगों के डाटा के कारोबार से मालामाल सोशल मीडिया कंपनियों की भारत में जवाबदेही तय करने के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है। बोगस यूजर्स की कालाबाजारी कर रही ये कंपनियां जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी ढाल के तौर पर बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। इस वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया की व्यवस्था अराजक और बेलगाम हो गई है। डिजिटल इंडिया में स्वच्छ भारत के लिए सोशल मीडिया को भी स्वच्छ रखने के लिए इन कंपनियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी आतंक के नासर पर लगाम लगेगी।

स्रोत : वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

अगस्त सितंबर अक्टूबर

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं) response@jagran.com



जीवन और परीक्षा असफलता की स्थिति में प्रायः हम अपनी तुलना दूसरों

से करने लगते हैं। यह बड़े भटकाव और भ्रम की स्थिति होती है। यह मनोदशा हमारा सबसे अधिक नुकसान कर जाती है। इसके कारण सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह से डिग जाता है और हम खुद को हारे हुए होने के साथ-साथ खुद को अयोग्य समझने लगते हैं। सच पूछिए तो हम अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से इसलिए करते हैं, क्योंकि हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि लगभग साढ़े सात अरब आबादी वाली इस धरती पर किसी भी दो व्यक्तियों के जीन और क्रोमोजोम एक-दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। इसके अतिरिक्त किसी दो व्यक्तियों के व्यवहार और विचार भी कभी आपस में नहीं मिलते हैं। इस धरती पर हर व्यक्ति अपने में असाधारण और अद्वितीय प्रतिभा का जीव होता है। सच पूछिए तो इस प्रकार की दुविधा की स्थिति में धैर्य से काम करने की जरूरत है। घबराने से और चिंता करने से परिस्थित और गंभीर हो सकती है। पहले तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि परीक्षा का परिणाम जीवन से बडा नहीं होता है और यदि आप किसी परीक्षा में अच्छ नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप अयोग्य हैं और आप अपने जीवन की सारी बाजियां हार गए हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में असफलता को बिना धैर्य खोये हुए जो व्यक्ति अपने आप पर झेल लेता है उसके जैसा साहसी व्यक्ति कोई नहीं होता है। लिहाजा परीक्षा परिणाम के संकट की स्थिति में खुद पर नियंत्रण रखें दिल को मजबूत रखें और भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहें

असफलता की स्थिति में सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि आपसे गलतियां कहां हुई हैं। जब यह पता लग जाए तो हमें उन कमजोरियों को दूर करने के लिए जी-जान से हर प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि स्वाध्याय के माध्यम से मानव पूर्णता के रास्ते देवता बन सकता है। स्वाध्याय का अर्थ है-नित्य सीखते रहना और अपनी कमियों को निरंतर दूर करते रहना। एकलव्य सरीखा दूसरा स्वाध्यायी पूरी दुनिया में अनोखा है। लिहाजा असफलता की स्थिति में मन को व्यथित करने के बजाय मन को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए-फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

पहला सुख निरोगी काया

देवेंद्रराज सुथार

हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग हेल्दिएस्ट कंट्री इंडेक्स 2019 में 169 देशों पर किए गए सर्वे के मुताबिक स्पेन इटली को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे स्वस्थ देश बन गया है। भारत इस सूची में एक अंक के नुकसान के साथ 120वें स्थान पर है। अपनी स्थिति में सुधार करने वाले देशों में चीन और इंग्लैंड अग्रणी हैं। साल 2017 में चीन 55वें नंबर पर था, जबिक साल 2018 में वह 52वें नंबर पर पहुंच गया। वहीं इंग्लैंड की रैंकिंग साल 2017 में 23वें नंबर पर थी, जबकि साल 2018 में 19वीं है। इस सूची में श्रीलंका 66वें, बांग्लादेश 91वें और नेपाल ने 110वें नंबर के साथ भारत को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सूची में प्रथम दस स्थानों पर आइसलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं।

भूमध्यसागरीय देशों के आहार को दुनिया में सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। स्पेन जैसे भूमध्यसागरीय देश में अभी भी प्राकृतिक उत्पाद अपना मूल्य बनाए हुए हैं। स्पेन के लोग फार्म के बजाय घर के बने उत्पाद पर अधिक विश्वास करते हैं। स्पेन में खाना बनाने, पकाने

भारत को अपनी स्वास्थ्य स्थिति सुधारने के लिए स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना होगा, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर तुरंत रोक लगानी होगी

और उसके लिए सामग्रियों को तकनीकी रूप से इस्तेमाल करने की दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अनुठी कला मौजूद है। वहां विभिन्न जलवायु है तथा विविध जनसंख्या के कारण अनेकों संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। वहां के आहार में मांस, जैविक सिब्जियां, पनीर, दही, अंडे, जैतून का तेल, साबुत अनाज, दालें आदि प्रमुखता से शामिल हैं। गौरतलब है कि स्पेन में जितना जैतून का तेल होता है, उतना किसी देश में नहीं होता। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि यह महत्वपूर्ण है। भूमध्यसागरीय देशों के आहार मोटापे के खिलाफ भी काम करते हैं, मधुमेह को कम करते हैं, कुछ हृदय रोगों के खिलाफ काम करते हैं, स्मृति के लिए अच्छे हैं और हड्डी के फ्रैक्चर के जोखिम को कम करते हैं। फेरान अद्रिआ, जुआन मारी आरजाक और मार्टीन बेरासैगुई दुनिया के प्रसिद्ध शेफ हैं जो स्पेन के हैं। यह वहां

की संस्कृति में भोजन के महत्व का प्रमाण है। स्पेन और इटली दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में अपने देश के नागरिकों की सेहत पर प्रति व्यक्ति खर्च काफी कम करते हैं। ये दोनों देश हेल्थकेयर पर प्रति व्यक्ति 3500 डॉलर खर्च करते हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहां हेल्थकेयर पर किया जाने वाला प्रति व्यक्ति खर्च महज 240 डॉलर है। इसमें भी ज्यादातर पैसा लोग अपने स्रोत से खर्च करते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से बेहद कम सपॉर्ट मिलता है। जिन देशों ने इस लिस्ट में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया वे वैसे देश हैं जहां लोगों के हेल्थकेयर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा खर्च वहां की सरकारें करती हैं। निःसंदेह भारत जैसे देश को अपनी स्वास्थ्य स्थिति सुधारने के लिए स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना होगा, कुपोषण जैसी समस्या को मिटाना होगा, मिलावटी एवं गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों पर तुरंत रोक लगानी होगी। योग और व्यायाम को केवल योग दिवस तक सीमित न रखकर इसको लेकर नियमितता बरकरार रखनी होगी। भारतीयों के लिए 'पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया' को अब साबित करने का समय आ गया है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

स्थायी उपाय तलाशने की दरकार

जून

जुलाई

पुरानी धारणाएं तोड़ते मोदी शीर्षक से लिखे अपने आलेख में प्रदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नापाक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसे ईंट का जबाव पत्थर से देने के प्रयासों का वर्णन किया है। इसमें दोराय नहीं है कि मजबूत नेतृत्व ही अपने नापाक पड़ोसी को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब दे सकता है, लेकिन यह भी सच है कि मोदी सरकार भी आतंकवाद के पालक पाकिस्तान के प्रति तब-तब ही सख्त हुई जब-जब आतंकवादियों ने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया। खैर देर आए दुरुस्त आए। जो बुद्धिजीवी या अन्य लोग वायुसेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर किए हमलों का श्रेय मोदी सरकार को देने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश में कोई आतंकी हमला होता है तब उसका ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा जाता है तो फिर 26 फरवरी को वायुसेना की कार्रवाई का क्रेडिट मोदी सरकार को देने पर वे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जिस तरह से पुलवामा हमले का बदला भारतीय वायुसेना ने लिया है, उसने यह साफ कर दिया है कि हमारे देश की सेना शेर नहीं सवा सेर है। और यह भी शायद देश के शीर्ष नेतृत्व के दृढ़संकल्प से ही हो पाया है। आम चुनावों में मोदी सरकार को इसका फायदा जरूर होगा। अब आतंकवाद के पालक पाकिस्तान पर इसका कितना, कब तक असर रहेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि लेखक ने यह नहीं बताया है कि मोदी सरकार ने कश्मीर की समस्या के हल के लिए कौन-सी पुरानी धारणाएं तोड़ी है? कश्मीर समस्या के लिए न तो मोदी सरकार ने धारा-370 हटाने के लिए कोई गंभीरता दिखाई और न ही पत्थरबाजों के लिए सख्त रवैया अपनाया है। जब तक कश्मीर में पाकिस्तान के हमदर्द रहेंगे,

मलबाक्स

नवंबर दिसंबर, 2018

तब तक वह इनकी मदद से घाटी में आतंकवाद फैलाता रहेगा। राजेश कुमार चौहान, जालंधर

राजनीति बनी कमाई का जरिया

सांसदों द्वारा दिए गए संपत्ति ब्यौरे से पता चलता है कि 16 वीं लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या और संपत्ति दोनों ही पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। 10 सांसदों की कुल संपत्ति 2616 करोड़ है। यह सर्वविदित तथ्य है कि चुनाव लड़ने वाले अधिकांश नेता संपदा से संपन्न होते हैं। उन्हें चुनाव जीतने के बाद मोटे वेतन-भत्ते और अन्य सरकारी सुविधाएं देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिना वेतन जनसेवा करने का जज्बा दिखाया है एवं जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के परिजनों ने उनके मरणोपरांत सरकारी सुविधाओं को ठुकराया है, क्या ठीक उसी प्रकार अन्य सांसद भी अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को राष्ट्रहित में त्यागने का साहस दिखा सकते हैं? वैसे तो राजनीति जनसेवा का माध्यम है न कि कमाई का, किंतु वर्तमान में अधिकांश नेताओं ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। लाखों रुपये महीने वेतन पाने वाले सांसदों को देशसेवा के लिए मेवा (वेतन) पाने की क्या आवश्यकता?

sonimohit95@gmail.com

सैनिक हैं असली हीरो

भारत की वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। इस जांबाज ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम की मिसाल दी है। इस वीर ने साबित कर दिया कि किसी भी नेता, अभिनेता या खिलाड़ी से बढ़ कर हैं हमारे

वीर सैनिक। यही देश के असली हीरो हैं। आज हर देशवासी को भरोसा है कि अभिनंदन जैसे वीरों के रहते भारत पर कोई आंच नहीं आ सकती।

बुजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

भारत की बड़ी विजय

पाकिस्तान सरकार को मजबूरी में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने का फैसला करना पड़ा। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उन्होंने शांति के लिए बातचीत के दरवाजे को खोलने के उद्देश्य यह कदम उठाया है, लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि यह भारत की संभावित कार्रवाई का डर है जिसने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरने को मजबूर कर दिया है। बहरहाल यह भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक विजय है। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान दुनिया से अलग-थलग पड़ गया है। सारा विश्व जानता है क कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और पिछले दो-तीन दशकों से भी अधिक समय से वह इस्लामिक आतंकवाद का सिरमौर बना हुआ है।

सतप्रकाश सनोठिया. रोहिणी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

> अपने पत्र इस पते पर भेजें : दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी–210–211, सेक्टर–63, नोएडा ई-मेल: mailbox@jagran.com

पाक मीडिया में भी

छाये अभिनंदन

भाग्य ने अभिनंदन का

पाकिस्तानी अखबार 'द डॉन' ने

लिखा है कि भाग्य ने अभिनंदन का

साथ नहीं दिया क्योंकि उनका मिग-

हिस्से में गिरा. अखबार का कहना है

कि आजाद कश्मीर में स्थानीय लोगों

ने उन्हें पकड़ा और पाकिस्तानी सेना

को सौंपा, गुस्साई भीड़ से सेना के

भारतीय पायलट ने की

पाक सेना की तारीफ

एक अन्य अखबार एक्सप्रेस

द्रिब्यून ने अभिनंदन से जुड़ी दो

अधिकारियों ने उन्हें बचाया .

एक्सप्रेस ट्रिब्युन

21 बाइसन पाक के नियंत्रण वाले

साथ नहीं दिया

द डॉन

गौरव. पाकिस्तान के एफ-१६ विमान को खदेड़ते हुए पीओके पहुंच गये थे अभिनंदन, बहादुरी से पाकिस्तानी भी हैं हैरान

60 घंटे की मशक्कत के बाद भारत में अभिनंदन


नेशनल कंटेंट सेल

पाकिस्तान के बार-बार वक्त बदलने के बाद आखिरकार, विंग कमांडर अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीं पर वापस लौट आये. गिरफ्तार होने से लेकर वापस स्वदेश लौटने के बीच देश ने 60 घंटों तक अभिनंदन के जज्बे, बहादुरी और हौसले को देखा. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, सुबह करीब 8:45 बजे अभिनंदन पीओके में उतरे थे. इसके बाद शुरू हुआ पाक का खेल. बुधवार दोपहर 3.15 पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट के 'मिसिंग इन एक्शन' यानी लड़ाई के दौरान गायब होने की बात कही. बुधवार शाम को ही अभिनंदन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चाय पीते दिखे.

- बुधवार शाम होते–होते जब पूरी तरह
 गुरुवार शाम करीब सात बजे भारत साफ हो गया कि अभिनंदन पाक सेना के कब्जे में है तो भारत की ओर से सख्त लहजे में पाक को कहा गया कि वह तुरंत अभिनंदन को लौटायें.
- रात होते–होते, अभिनंदन की वापसी के लिए भारत हर कूटनीतिक दरवाजे खोल चुका था.
- गुरुवार सुबह करीब नौ बजे खबर आयी कि एनएसए डोभाल ने युएस के विदेश मंत्री से फोन पर बात की .
- पाक स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाक विदेश मंत्रालय को आपत्ति पत्र (डिमार्शे) सौंपकर अभिनंदन की तूरंत रिहाई की मांग की.
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोई अच्छी खबर सामने आने वाली है. जाहिर है, भारत का कुटनीतिक दबाव काम करने लगा था.
- पाक के विदेश मंत्री ने कहा कि इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं.
- दोपहर करीब तीन बजे भारत ने एक बार फिर चेतावनी दी कि पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं की जायेगी. भारत ने दोहराया कि अभिनंदन को खरोंच भी आयी तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
- शाम करीब 4 .30 बजे पाकिस्तान ने आखिरकार झुकते हुए कहा कि वह भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ने को तैयार है . इसका एलान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संसद के भीतर से किया.

की तीनों सेनाओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की . इसमें पाकिस्तान के हरेक झूट को बेनकाब किया गया

- शुक्रवार सुबह एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रामेबाजी शुरू की . पहले तय हुआ कि अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर दोपहर २ बजे सौंपा जायेगा. फिर खबर आयी कि पाक उन्हें शाम को बीटिंग रिटीट के दौरान सौंपना चाहता है . भारत ने पाक को सीधे शब्दों में यह संदेश भिजवाया कि पायलट को बीटिंग रिट्रीट से पहले ही सौंप दिया जाये.
- दिन भर वाघा बॉर्डर पर गहमा-गहमी बनी रही. भारत ने अपनी तरफ की बीटिंग रिटीट सेरेमनी रद्द करने का एलान किया.
- लेकिन पाक ने अपनी तरफ की सेरेमनी रद्द नहीं की . इस बीच एक खबर यह भी आयी कि पाकिस्तान की अदालत में अभिनंदन को भारत को सौंपने के खिलाफ अर्जी दाखिल हो गयी है . कुछ पल के लिए सांसें टहर गयीं, दिल थम गये.
- कुछ देर में ही राहत भरी खबर आयी कि अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है.
- आखिरकार, पुरे ६० घंटे तक पाकिस्तान की जमीं पर रहने के बाद जोश, जज्बे, जांबाजी और जिंदादिली की मिसाल विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान ने भारत की जमीं पर अपने कदम रखे.





बॉलीवुड बोला

मैं खुश हूं कि विंग कमांडर अभिनंदन घर वापस आ रहे हैं .

अमिताभ बच्चन

घर वापस आने से बेहतर कोई एहसास नहीं है, क्योंकि घर प्यार, उम्मीद और सपनों का स्थान है . आपकी बहादुरी हमें मजबूत बनाती है. सदा आभारी

विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी

शाहरुख खान

खुशी से भर गये हैं. जय हिंद विवेक ओबरॉय पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर ख़ुशी आ

गई . अब बस अभिनंदन की वापसी का

पर बहुत खुशी हुई . हमारे दिल गर्व और

तापसी पन्नू



विंग कमांडर अभिनंदन, आपके आत्मविश्वास, प्रताप और बहादूर ने हम सभी को गर्व से भरने का काम किया है.

राहुल गांधी



प्रिय, विंग कमांडर अभिनंदन आपकी दिलेरी और साहस ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है. आपकी वापसी से भारत खुश है . अमित शाह

खबरों को अपने पन्ने पर जगह दी है. खबर के अनुसार अभिनंदन के साथ जिस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तानी सेना कर रही है उसकी देश के बाहर भी प्रशंसा मिल रही

द नेशन

सलामती बताने को सेना ने दूसरा वीडियो डाला

है. दूसरी खबर के अनुसार, एक

है जो स्वागतयोग्य है.

भारतीय ने पाक सेना की तारीफ की

पैराशूट से उतरने के बाद स्थानीय लोगों ने अभिनंदन के साथ मारपीट की थी. कुछ लोगों ने अभिनंदन का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया जिसमें उनके चेहरे पर काफी सारा खून दिखायी दे रहा था. पायलट की सुरक्षा को लेकर भारत में चिंता न हो इसलिए बाद में सेना ने उनका दूसरा वीडियो जारी किया जिसमें वह सुरक्षित चाय पीते हुए दिखायी दे रहे थे.

फेक न्यूज

एक महिला बता दी गयी अभिनंदन की पत्नी



14 किया जा चुका है 🌑

बाद देखा जा चका है

विंग कमांडर अभिनंदन के देश लौटने से पहले ही सोशल मीडिया पर उनके परिवार को लेकर बहुत सी जानकारी शेयर की जा चुकी है. अब फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और ट्विटर पर एक विडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक महिला खुद को आर्मी अफसर की पत्नी बताते हुए राजनेताओं से जवानों के त्याग पर राजनीति न करने की अपील कर रही है. इस महिला को विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी बताया जा रहा है.

दावा

फेसबुक यूजर दिनेश सिंगता ने गुरुवार को एक विडियो पोस्ट किया और साथ में कैप्शन लिखा कि विंग कमांडर अभिनंदन जी की पत्नी का संदेश कि सैनिकों के बलिदान पर भाजपा न करे राजनीति. विडियो में महिला जो कह रही हैं उसका अनुवाद इस तरह है- हैलो, मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हुं और सभी सशस्त्र बलों के परिवारों की ओर से अपने भारत के लोगों और खासतौर पर राजनेताओं से अपील करूंगी की हमारे जवानों के बलिदान पर राजनीति न करें. एक सैनिक होने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है. जरा सोचिए कि इस समय अभिनंदन का परिवार किस पीड़ा, किस परेशानी से गुजर रहा होगा. इसलिए जब तक भारत-पाक सीमा पर तनाव कम न हों जाये कृपया अपनी रैलियां बंद कर दें और हमारे जवानों की मेहनत का श्रेय लेने की हिम्मत भी न करें. मैं फिर दोहरा रही हं कि हिम्मत भी न करें. कृपया अपनी टिकट गिनना और राजनीति करना बंद करें. आपके पास राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है लेकिन इस वक्त नहीं. हमारे जवानों के बलिदान की कीमत पर नहीं. यह मेरा सभी राजनेताओं से निवेदन है.

सच

विडियो में दिखने वाली महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी नहीं है. बल्कि, एक अन्य आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं.

कैसे हुई पड़ताल

गूगल पर 'अभिनंदन वर्दमान वाइफ' कीवर्ड सर्च करने पर 'तेलुगू समयम' को एक रिपोर्ट मिली. जिसमें बताया गया है कि अभिनंदन की पत्नी खुद भी भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुकी हैं. इस रिपोर्ट में अभिनंदन की पत्नी तनवी मारवाह की तस्वीर भी दी गयी है. इस तस्वीर में अभिनंदन की पत्नी और विडियो में दिखने वाली महिला एकदम अलग हैं.

पाक विदेश मंत्री ने मसूद के पाकिस्तान में होने की बात कबूली

मसूद बेहद बीमार, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता : कुरैशी

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमद कुरैशी ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसुद अजहर के उनके देश में मौजूद होने की बात कबूल कर ली है. लेकिन, उनका कहना है कि भारत द्वारा ठोस तथा अकाट्य प्रमाण देने (जो कि अदालत में पेश किये जा सकें) पर ही सरकार उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती है. कुरैशी ने अजहर पर सीएनएन से कहा कि मुझे मिली जानकारी के मुताबिक वह पाकिस्तान में ही है. वह इस हद तक बीमार है कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकता. उन्होंने कहा कि मसुद अजहर पाकिस्तान में है. वह बहत अस्वस्थ है. वह इस हद तक अस्वस्थ है कि वह अपना घर नहीं छोड़ सकता. कुरैशी ने यह भी कहा कि अदालत में पेश किये जाने लायक सबत देने पर पाकिस्तान उसके खिलाफ कदम उठायेगा.

उन्होंने कहा कि अगर उनके पास ठोस सबत और ऐसे प्रमाण हैं जो कि अदालत में सबूत के तौर पर पेश किये जा सकें. उन्हें हमसे साझा करें ताकि हम लोगों को विश्वास दिला सकें और



जैश और मसूद अजहर पर कार्रवार्ड करेगा अमेरिका

अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई का एलान किया है . अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका जैश और उसके सरगना के खिलाफ के काननू कार्रवाई करेगा, उसे पैसे पर रोक लग सके .

जैश सरगना अजहर मसूद ने भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद जारी रखने का संकल्प लिया : रिपोर्ट

पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार जैश सरगना अजहर मसूद ने करीब सालभर पहले एक सम्मेलन में संकल्प लिया था कि भारत पाकिस्तान संबंध चाहे जिस भी स्थिति में रहे वह अपना 'गजवा ए हिंद' (भारत के खिलाफ जिहाद) जारी रखेगा. यह बात एक गुप्तचर रिपोर्ट में कही गयी है . अधिकारियों ने पाकिस्तान के ओकारा जिले में 27 नवंबर, 2017 को आयोजित सम्मेलन का उल्लेख करते हुए यह बात कही . उस सम्मेलन में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और जैश–ए–मोहम्मद की संगठनात्मक गतिविधियों और उसके प्रमुख मसूद अजहर की भिमका की प्रशंसा की थी.

पाकिस्तान की स्वतंत्र न्यायपालिका को विश्वास दिला सकें. उन्होंने कहा कि हमें काननी प्रक्रिया परी करनी होगी. करैशी

अभिनंदन वर्तमान को सौंपने के कदम को शांति की पहल बताते हुए कहा कि इसे पाकिस्तान की तनाव कम करने की ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर 🛮 इच्छा के तौर पर देखा जाना चाहिए.

देश में कई जगहों विदेशी मीडिया ने अभिनंदन पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट

नयी दिल्ली. भारत-पाक के बीच जारी तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को अलर्ट किया है. खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आतंकी हमला कर सकते हैं. अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकी ग्रुप अब जम्मू-कश्मीर के अलावा हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करना चाहते हैं. खुफिया जानकारी के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी दिल्ली के 29 महत्वपूर्ण स्थलों को आतंकी निशाना

बना सकते हैं. दिल्ली के 29 स्थलों पर हो सकते हैं आतंकी हमले : सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के 29 महत्वपूर्ण और खास स्थलों पर आतंकी हमलों की चेतावनी जारी की गयी है. दिल्ली में आतंकियों के निशाने पर इंडिया गेट, सेना भवन, प्रेसिडेंट हाउस, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट. सरोजिनी नगर बाजार. चांदनी चौक, पालिका बाजार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लोटस टेंपल, लालकिला, नेशनल डिफेंस कॉलेज, चीफ जस्टिस हाउस, दिल्ली एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया, दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय. एम्स. मॉल्स सिनेमा हॉल, डिफेंस कॉलेज और अक्षरधाम मंदिर शामिल हैं.

पर मोदी को जम कर सराहा

नेशनल कंटेंट सेल

भारतीय वायसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल और जल्द वापसी को भारत की कुटनीतिक जीत बताया जा रहा है. पूरी दुनिया की मीडिया ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और पीएम मोदी को तुरंत फैसला लेने वाले नेता के रूप में पेश किया है. द गार्जियन

ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि इमरान का अभिनंदन को रिहा करने का एलान काफी आश्चर्यजनक है. इसके बाद पाक भारत पर दबाव बनायेगा जिससे तनाव कम हो. लेकिन जब तक पाक यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वह अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है, तब तक भारत कार्रवाई जारी रख सकता है.

न्ययॉर्क टाइम्स

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी पाक पीएम इमरान के प्रस्ताव को मानने के पक्ष में नहीं थे. बीते कई दशकों से पाकिस्तान के साथ चल रही बातचीत की प्रक्रिया थका देने वाली है. पाकिस्तान में मौजद आतंकी समुहों पर कार्रवाई नहीं करने से भारत थका हुआ महसस करने लगा है.

वॉशिंगटन पोस्ट

अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत- पाक के बीच दशकों से सैन्य मुठभेड़ जारी हैं. दबाव के बीच इमरान ने अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा की. वहीं, मोदी ने खुद को अचानक फैसले लेने वाले नेता के रूप में पेश किया, पाक नहीं जानता कि वह कहां वार कर सकता है.

सीएनएन

अमेरिकी समाचार संस्थान सीएनएन ने लिखा है कि जब दो बड़े देशों के बीच लडाई होती है तो लोगों के अंजाम भृगतने की संभावना ज्यादा होती है. यह बात कुछ समय पहले पाक में चुन कर सत्ता में आये इमरान और भारत में नरेंद्र मोदी दोनों महसूस कर रहे हैं.

पाक अखबार डॉन ने लिखा है कि सैन्य घुसपैठ को लेकर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें भारतीय सीमा या नियंत्रण रेखा पर हमला करना चाहिए या पार करना चाहिए. पाकिस्तानी राजनियकों के लिए इस तरह की आक्रामकता के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना एक बड़ी

पहले भी वायु सेना के तीन अधिकारी लौट चुके हैं स्वदेश

भारत विंग कमांडर अभिनंदन के 'अभिनंदन' के लिए तैयार है. अभिनंदन को पाक फौज ने उस वक्त पकड़ लिया था जब उनका विमान पीओके में गिर गया था.

नेशनल कंटेंट सेल

भारत विंग कमांडर अभिनंदन के 'अभिनंदन' के लिए तैयार है. अभिनंदन को पाक फौज ने उस वक्त पकड़ लिया था जब उनका विमान, पाक लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर में जा गिरा था. अभिनंदन की ही बदौलत भारत में पाकिस्तानी वायुसेना की घुसपैठ नाकाम हुई थी. इसे बाद भारत सरकार के दबाव के बाद गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में अभिनंदन को सकुशल भारत को सौंपने घोषणा की थी. अभिनंदन के अलावा ऐसे तीन भारतीय वायुसेना अधिकारी भी हैं जो पाकिस्तान के

साथ हुए 1965, 1971 और 1999 के युद्ध के दौरान पाक फौज की हिरासत में रहे और जिन्होंने वहां कारावास में फौज का उत्पीड़न सहा था. तीनों को ही अभिनंदन की ही तरह पाकिस्तानी वायुसेना को करारा जवाब देने के दौरान पकड़ लिया गया था. ये तीन भारतीय वायुसेना पायलट कंबंपति नचिकेता, जेएल भार्गव और केसी करियप्पा हैं. नचिकेता भारत और पाकिस्तान के बीच हए 1999 के करगिल युद्ध के दौरान गिरफ्तार हुए और आठ दिनों तक पाक हिरासत में रहे. वहीं, जेएल भार्गव 1971 के युद्ध में एक साल तक पाक सेना की कैद में रहे. 1965 के यद्ध में एयर मार्शल केसी करियप्पा ने चार महीने पाक फौज की हिरासत में बिताये.

जेएल भार्गव से पाक के अधिकारी ने कहा- कलमा पढें



पूर्व एयर कोमोडोर जेएल भार्गव १९७१ के युद्ध में पाक सेना द्वारा पकड़े गये . भार्गव को पाक सेना ने कलमा पढने के लिए कहा और

जब वह नहीं पढ पाये

तो उन्हें जेल भेज दिया गया भार्गव का विमान 5 दिसंबर, 1971 को पाक में गिरा था . उन्होंने पाक फौज के हाथ लगने से पहले बारह घंटे तक अपनी पहचान छिपाये रखी थी. अपनी पहचान छिपाते-छिपाते आखिर में वे पाक फौज के हाथ लग ही गये. इससे पहले तक वे खुद को पाक सेना का जवान बताते रहे . उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था तो अभिनंदन की तरह ही उनसे भी पूछा गया कि वह कहां से हैं, उन्होंने खुद को रावलिपंडी का बताया. जब किसी ने उनसे कहा कि वह भारत में खड़े हैं तो भार्गव चालाकी समझ गये और खुद को पाक भेजने की गुजारिश करने लगे.

🛖 नचिकेता को आट दिनों तक 🚄 अंधेरे कारावास में रखा



फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता करगिल यद्ध के हीरो हैं. 26 मई, १९९९ को करगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में जाने वाले नंबर ९स्क्वाडन

आइएएफ पायलटों में से एक थे. नचिकेता ने 80 एमएम रॉकेट्स के जरिये दुश्मन के ठिकाने पर पहला वार किया और जैसे ही 30एमएम केनन से दूसरा वार कर रहे थे. विमान के इंजन में आग लग गयी और इंजन फेल हो गया . नचिकेता विमान से कूद गये और पाक की धरती पर पहुंच गये . जैसे ही वह पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे उन्होंने पहले दो-तीन घंटों तक खुद को पाक फौज की पकड़ में आने से बचाये रखा . इसके बाद गस्त पर आयी पाक फौज ने उन्हें पकड़ लिया और आठ दिनों तक रावलिपंडी में अंधेरे कारावास में डाले रखा . यहां उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया. उनसे तरह–तरह की जानकारी मांगी गयी.

ŋ पाक हिरासत में चार महीने 🔰 रहे एयर मार्शल करियप्पा



एयर मार्शल केसी करियप्पा का विमान 1965 के युद्ध के आखिरी दिन पीओके में जा गिरा था . चार महीने पाक हिरासत में बिताने के बाद वह सकुशल

भारत लौटे थे . केसी करियप्पा ने भी दूसरे वायुसेना अधिकारियों की ही तरह पाक फौज को सिर्फ अपना नाम, यूनिट नंबर व रैंक बतायी थी . उन्होंने पाक स्तानी फौज को यह जानकारी नहीं दी कि उनके पिता फील्ड मार्शल केएम करियप्पा हैं, जो कि आजाद भारत में सशस्त्र बलों के पहले भारतीय प्रमुख थे . इसके बाद पाकिस्तान के जनरल अयुब खान ने रेडियो के जरिये उनके पाक में गिरफ्तारी की घोषणा की और उनके सुरक्षित होने के बारे में जानकारी दी इतना ही नहीं अयूब खान ने उन्हें जल्द रिहा करने की भी घोषणा की क्योंकि केसी करियप्पा के पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी के दौरान अयूब खान के बॉस थे.

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक



विफलता ज्यादा समझदारी के साथ फिर से शुरुआत करने का एक अवसर है...

...हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक

अपने गठन के पांच दशक बाद ही सही, ओआईसी को अगर यह एहसास हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर भारत की अनदेखी नहीं की जा सकती, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।

अबुधाबी में नई शुरुआत



आईसी यानी इस्लामी देशों के संगठन की बैठक में पहली बार, वह भी विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाना भारत के लिए जितने सम्मान की बात है, इसके उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री सषमा स्वराज का संबोधन उतना ही

उल्लेखनीय और प्रासंगिक था। उन्होंने इस आमंत्रण को भारत की बहुलतावादी संस्कृति का सम्मान तो बताया ही, मुस्लिम देशों के साथ हमारे शानदार रिश्ते का भी अपने भाषण में जिक्र किया। पाकिस्तान के साथ तल्ख रिश्ते की पृष्ठभूमि में अबुधाबी में सुषमा स्वराज की मौजदूगी भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता इसलिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को दिया गया न्योता रद्द नहीं किया, नतीजतन उस पाकिस्तान को ही बैठक से अलग होने पर विवश होना पड़ा, जो ओआईसी के संस्थापक सदस्यों में से है। मानो यही किरकिरी कम न

हो, सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद पर करारा हमला बोलकर उसके जले पर नमक छिड़का। आतंकवाद पर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के सख्त रुख के बाद ओआईसी द्वारा पाकिस्तान को दरिकनार कर भारत को बुलाना इस्लामाबाद के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक यही संगठन उसका साथ देता आया था। दूसरी ओर, भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजद भारत को ओआईसी में पहले कभी नहीं बलाया गया, जबकि भारत से कम मुस्लिम आबादी वाले कई देशों को उसमें पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। ज्यादातर मुस्लिम देशों से बेहतर रिश्ता होने के बावजूद पाकिस्तान की शह पर ओआईसी ने भारत को न केवल अलग-थलग रखा, बल्कि कश्मीर पर हमारे रुख की आलोचना की, बालाकोट में हवाई हमले की आलोचना करने वाला यह अकेला संगठन था। जबकि इसके ज्यादातर सदस्य देशों से हमारे बेहतर रिश्ते



हैं। संयुक्त अरब अमीरात से हमारी प्रत्यर्पण संधि है, और उसने पिछले दिनों अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित किया था, तो बांग्लादेश ओआईसी में भारत को शामिल करने की बात कह चुका है। अपने गठन के पांच दशक बाद ही सही, ओआईसी को अगर यह एहसास हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर भारत जैसे देश की अनदेखी नहीं की जा सकती, तो इससे स्वागतयोग्य और कुछ

वार्ता की विफलता के बाद

एक खराब सौदे को स्वीकार करने के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मुलाकात को बेनतीजा खत्म कर देना सही था, लेकिन देखने की बात है कि आगे क्या होता है, क्योंकि कूटनीति के लिए अब भी गुंजाइश बची है, जो दुनिया को बेहतर बनाती है।

मेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक खराब परमाण समझौते को स्वीकार करने के बजाय किम जोंग उन के साथ अपने शिखर सम्मेलन को खत्म कर सही फैसला किया, लेकिन परिणाम यह बताते हैं कि पिछले वर्ष किम के साथ अपनी पहली शिखर मुलाकात में वह धोखा खा गए थे। जो भी हो, प्रतिभाशाली ट्रंप जब आईने में अपना चेहरा देखते होंगे, तो जानते होंगे कि 'सौदेबाजी की कला' उनके वश

की बात नहीं है। इस बैठक में किम ने कुछ परमाणु स्थलों को बंद करने के बदले में उत्तर कोरिया पर से सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। यह कोई

अच्छा सौदा नहीं था और ट्रंप ने इसे स्वीकार करने के बजाय बैठक खत्म करके सही किया।

ट्रंप ने कहा कि 'वास्तव में वे चाहते थे कि हम पूरी तरह से प्रतिबंध हटा लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। आगे उन्होंने कहा कि 'कभी-कभी आपको कुछ चीजों को छोड़ देना पड़ता है।' राष्ट्रपति रीगन रूस के साथ

हथियार नियंत्रण समझौते को स्वीकार करने आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित शिखर सम्मेलन से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उस सौदे को उन्होंने त्रुटिपूर्ण माना था। एक वर्ष बाद रूस कुछ बेहतर शर्तों के साथ लौटा और तब जाकर सौदा हुआ- और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा।

फिर भी, आगे कई महत्वपूर्ण जोखिम हैं। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर कोरिया परमाण् हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का फिर से परीक्षण कर सकता है, इससे बहुत ज्यादा तनाव बढ़ेगा और एक बार फिर से युद्ध एवं

दुर्भाग्य से, उत्तर कोरिया एक अन्यथा महत्वहीन देश है, जो केवल तभी ध्यान आकर्षित करता है, जब वह भड़काऊ व्यवहार करता है।

फेक्ट फाडल

विकोलस क्रिस्टॉफ

अस्थिरता को लेकर चिंता पैदा होगी।



इसलिए उसके नेताओं ने यह मान लिया है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति मिसाइल दागना, विस्फोटकों का धमाका करना या परमाणु परिसरों को चालू करना है।

बेशक इस मामले में समझौते न करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया, लेकिन लगता है कि उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को बहुत खराब ढंग से संचालित किया। विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने संकेत दिया था कि वह उत्सुकता से यह समझौता करना चाहते हैं और उस 'शानदार सफलता' की संभावना थी, इन सबने शायद किम को इस विश्वास के साथ मांगों को उठाने के लिए प्रेरित किया कि वह

सामान्य राष्ट्रपतियों के साथ शिखर सम्मेलन के समझौते पर समय से पहले ही सहमति व्यक्त की जाती है। जैसा कि एक अनभवी राजनियक ने कहा है कि राष्ट्रपति अपनी टोपियों से खरगोशों को इसलिए निकाल पाते हैं, क्योंकि इससे पहले राजनियक काफी मेहनत कर टोपियों में खरगोशों को रखते हैं। लेकिन ट्रंप ने उस सावधानीपूर्ण कटनीतिक प्रक्रिया के लिए कभी धैर्य नहीं रखा, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों से पैदा होने वाली सफलताओं पर ज्यादा भरोसा किया और साफ है कि इस बार उनका भरोसा स्पष्ट रूप से गलत था।

उत्तर कोरियाई पक्ष ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बेगुन द्वारा

अनुमानित शिखर सम्मेलन के नतीजों को पहले से मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि किम ने सोचा कि वह हनोई में राष्ट्रपति ट्रंप को चतुराई में मात दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने नौ महीने पहले सिंगापुर में किया था।

नवीनतम बातचीत का इस तरह बेनतीजा खत्म होना यह भी रेखांकित करता है कि पहले की बैठक में ट्रंप कितने गुमराह थे। वह यह समझ नहीं पाए कि किम ने 'गैर-परमाणवीकरण' का वह अर्थ लगाया, जो अमेरिका के मायने से अलग था और उन्होंने किम को वैधता का एक बड़ा तोहफा दिया, जो शिखर सम्मेलन के साथ उन्हें मिला, वह भी बदले में बिना कुछ हासिल किए।

ट्रंप ने किम की जिस तरह से प्रशंसा की थी, वह बेहद अरुचिपूर्ण था। उन्होंने किम को अपना दोस्त और महान नेता बताया था और जोर देकर कहा था कि किम ने उन्हें 'खूबसूरत पत्र' भेजे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। निर्दयी तानाशाह से संवाद करना उचित है, लेकिन उसकी खुशामद करना हमारे मूल्यों के साथ विश्वासघात है।

वियतनाम में ट्रंप ने किम को संभवतः यह भी दिखाया होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता कैसी दिखती है। जबकि ह्वाइट हाउस ने चार अमेरिकी पत्रकारों को डिनर से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया था, क्योंकि उनमें से दो ने ट्रंप से सवाल करने की कोशिश की थी।

फिर भी, अगर आगे भारी तनाव का जोखिम है, तो कुछ समय बाद उत्तर कोरिया के साथ रिश्तों में प्रगति के लिए रास्ता बनाना भी संभव है। मैं उन संदेहों से सहमत हूं, जो मानते हैं कि अपने परमाणु हथियार भंडार सौंपने का किम का कोई इरादा नहीं है (जैसा कि 2017 में उत्तर कोरिया की मेरी यात्रा के दौरान वहां के लोगों ने मुझे बताया था), फिर भी कूटनीति के लिए अब भी गुंजाइश बची है, जो दुनिया को बेहतर बनाती है।

विशेष रूप से किम विस्फोटक आयुधों और मिसाइलों के परीक्षण पर प्रतिबंध तथा योंगब्योन में परमाणु ईंधन के उत्पादन ठप करने पर सौदेबाजी करना चाहता है और ये बहुत कीमती नहीं, तो योग्य लक्ष्य जरूर हैं। अंतर-कोरियाई परियोजनाओं पर प्रतिबंध से राहत उचित मूल्य होगा, जो उसे बाहरी दुनिया में हिस्सेदारी का मौका देगा और शासन के अधिकार को कमतर करेगा। इस तरह के सीमित सौदे आगामी कूटनीति का लक्ष्य होना चाहिए और दक्षिण कोरिया को राष्ट्रपति मून जे इन (जिन्होंने उत्तर कोरिया और पश्चिम के बीच शांति प्रक्रिया शुरू करने में मदद की) अमेरिकी समर्थन से इसे आगे बढ़ाने के लिए बेहतर व्यक्ति हैं।


© The New York Times 2019

बचपन की मीठी यादें और 'पीरियड्स' का निर्माण



अपनी कहानी

जब मुझे पहली बार यह पता चला कि माहवारी के कारण बिच्चयां स्कूल तक छोड़ देती हैं, तो मुझे हैरत हुई थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में भी सैनेटरी नैपकिन की मांग बढ़ रही है।



अभी मैं 25 वर्ष की हूं और हाल ही में मैंने सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कल ऑफ सिनेमैटिक आदर्स से स्नातक किया है। अभी मैं लास एंजिलिस में रह रही हं, लेकिन मेरा बचपन दक्षिण कैलिफोर्निया में बीता है और वहां की कुछ मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है कि जब कभी मुझे या मेरी बहन को पीरियड आते थे, तो पिता हमें चॉकलेट लाकर देते थे। हमारे लिए यह बहुत सामान्य था तकरीबन एक दशक बाद जब माहवारी पर फिल्म बनाने के सिलसिले में मैं भारत आई, तब तक मुझे एहसास नहीं था कि हम कितने सौभाग्यशाली थे, क्योंकि दुनिया में आज भी माहवारी को लेकर बहुत-सी वर्जनाएं हैं।

टूट रही हैं बेड़ियां

पीरियड्सः एंड ऑफ सेंटेंस ने माहवारी के कारण महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर वैश्विक चिंता को रेखांकित किया है। बहुत से देशों में इसे लेकर महिलाओं और लड़िकयों को असमानता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अमेरिका जैसे देश में भी सारी महिलाओं तक सैनेटरी पैड की पहुंच नहीं है। लेकिन अब इस पर खुलकर बातें की जा रही हैं। एक सहयोगी के जरिये मुझे पता चला कि दुनिया में माहवारी एक बड़ी समस्या है। खासतौर से विकासशील देशों में लड़कियों को माहवारी के कारण स्कूल तक छोड़ना पड़ जाता है। यहां तक स्वास्थ्यवर्धक महिला उत्पादों तक भी उनकी पहुंच नहीं है

पहली ही डाक्यूमेंटरी को ऑस्कर

पीरियड़स... मेरी पहली डाक्युमेंटरी है। यह फिल्म हमने भारत की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर स्थित हापुड़ में बनाई थी। इस पूरी फिल्म की शूटिंग भारत में की गई थी। मुश्किल यह थी कि न तो मैं और न ही अमेरिका के मेरे सहयोगी हिंदी बोल पाते हैं। इसमें इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी हमारी भारतीय सहयोगी मंदाकिनी कक्कड़ ने हमारी मदद की। उन्होंने हमारे लिए दुभाषिये का काम किया। हमने जब फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तब गांव में मुरुगननाथम (पैड मैन) की डिजाइन की एक ही मशीन थी। लेकिन अब पूरे भारत में सैनेटरी नैपिकन बनाने की मशीनें कुटीर उद्योग की तरह फैल गई हैं। हमें यह देखकर अच्छा लगा कि ग्रामीण महिलाएं अब माहवारी से जुड़ी स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रही हैं और गांवों में सैनेटरी नैपिकन की मांग बढ़ रही है।

जड़ों से जुड़ाव

मैंने अब तक सिर्फ तीन फिल्मों का निर्देशन किया है। मैं अमेरिकी-ईरानी माता-पिता की संतान हूं। शायद यह ईरानी जड़ों की वजह से है, मुझे ईरानी कहानियां और महिलाओं से संबंधित कहानियां सुनना-सुनाना अच्छा लगता है। मैंने निर्देशक के तौर पर पहली शॉर्ट फिल्म ईरानी भाषा में ही बनाई थी। *मदारन* नामक यह फिल्म दुनिया भर के फिल्म उत्सवों में दिखाई जा चुकी है, जिनमें प्रतिष्ठित एनएफएफवाई (नेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर टैलेंटेड यूथ) शामिल है। एनएफएफवाई उभरते निर्देशकों की फिल्मों का सबसे बड़ा उत्सव है। इस फिल्म को अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। यहां तक कि 2016 में 89 वें अकादमी अवार्ड (ऑस्कर) के लिए भी वह नामांकित की गई थी। मदारन एक ऐसी ईरानी मां की कहानी है, जो इस दुविधा में होती है कि वह अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दे या उसे मार डाले। अंततः वह उसे माफ कर देती है

-ऑस्कर जीतने वाली डाक्यूमेंटरी की निर्देशक के साक्षात्कारों पर आधारित।



किराये के कमरे से हो सकती है नई शुरुआत

मेरा जन्म 1854 में वाटरविले, न्यूयॉर्क में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद चौदह वर्ष की उम्र में मैंने स्कल छोड़ दिया और एक बीमा कंपनी में काम करने लगा दस वर्ष बाद मैं रोचेस्टर सेविंग बैंक में मुनीम बन गया। हालांकि व्यवसाय ही मेरे लिए सब कुछ नहीं था, मुझे घूमना काफी पसंद था। एक बार मैंने कैरिबियाई द्वीप हिसानियोला की यात्रा की योजना बनाई। मेरे एक सहकर्मी ने मुझे सुझाया कि मैं अपनी यात्रा की तस्वीरें लं। इसके लिए मैं अपना पहला कैमरा खरीदने पहंचा। उस समय फोटोग्राफी आसान काम नहीं था। फोटोग्राफरों को कंप्यूटर के मॉनीटर के

बराबर कैमरा, उसे रखने के लिए स्टैंड, कांच की प्लेटें. प्लेट होल्डर, और अंधेरे में फोटो डेवलप करने के लिए एक टेंट रखना पड़ता था। इतना सारा तामझाम देखकर मैंने यात्रा में कैमरा ले जाने का इरादा तो छोड़ ही दिया, फोटोग्राफी को ज्यादा आसान बनाने के प्रयोगों में जुट गया। हालांकि मैंने कभी रसायन विज्ञान नहीं पढ़ा था, लेकिन प्रयोग करना शुरू किया और अंततः कांच की सूखी प्लेट तैयार की। 1880 में मुझे अपने आविष्कार का पेटेंट मिल गया और मैंने किराये के कमरे में रात को सूखी प्लेट बनाने का काम शुरू कर दिया,



जबिक दिन में बैंक की नौकरी करता था। मेरे शुरुआती ग्राहक स्थानीय पेशेवर फोटोग्राफर, कई रिटेल स्टोर और कुछ शौकिया फोटोग्राफर थे। फिर मैंने हेनरी स्ट्रांग के साथ मिलकर नई तकनीक में निवेश किया और ईस्टमैन ड्राई प्लेट कंपनी शुरू की और अपने नए व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक की नौकरी छोड़ दी। मैं कैमरे को पेंसिल की तरह कहीं भी ले जाने लायक सुविधाजनक बनाना चाहता था। इसलिए मैंने कांच की प्लेट के बजाय पारदर्शी फिल्म रोल तैयार की पहले कागज की, फिर प्लास्टिक की। शुरू में तो मैं अपनी सुविधा के लिए फोटोग्राफी को सरल बनाना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने उसकी व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में भी सोचा। मैंने एक छोटा-सा उपकरण तैयार किया, जिसमें फिल्म रोल रखा जा सकता था। लेकिन लोग हमारी फिल्म रोल को खरीदते नहीं थे, इसलिए हमने एक ऐसा कैमरा बनाया, जिससे कोई भी व्यक्ति तस्वीरें ले सकता था। व्यावसायिक सफलता के लिए हमने नारा दिया-आप बटन दबाएं, बाकी काम कैमरा खुद करेगा। और इस तरह हमने दुनिया का पहला पोर्टेबल कैमरा तैयार किया, जो जल्द ही बाजार में लोकप्रिय हो गया।

> सफलता के लिए दृढ़ निश्चय, जुनून और अपने काम के प्रति लगन बेहद जरूरी है।

तालिबान के खिलाफ महिलाएं



जिनेवा संधि

22 अगस्त, 1864 को पहले जिनेवा कन्वेंशन का जन्म हुआ।

भारतीय वायसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर पाकिस्तान पर भारतीय कूटनीतिक दबाव के साथ ही जिनेवा संधि का भी दबाव रहा है। 'जिनेवा कन्वेंशन' जिसे सामान्य तौर पर जिनेवा संधि के रूप में जाना जाता है, उसमें चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के मानक तैयार करना है। वर्तमान में जो जिनेवा संधि अस्तित्व में है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में स्थापित की गई थी। इस संधि में 196 देश शामिल हैं। युद्धबंदियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जिनेवा कन्वेंशन में कई नियम दिए गए हैं। इसके अनुच्छेद उ के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए। 1859 में इटली और फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोलफेरिनो युद्ध के दौरान एक स्विस कारोबारी हेनरी ड्यूनांट घायल सैनिकों की दशा देखकर बहुत आहत हुए थे। उन्होंने युद्ध की विभीषिका पर एक किताब लिखी मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो, जो कि आगे चलकर रेड क्रॉस की स्थापना का आधार बनी। इसी पृष्टभूमि में 22 अगस्त, 1864 को पहले जिनेवा कन्वेंशन का जन्म हुआ। हेनरी को उनके इस योगदान के लिए 1901 में शांति के पहले नोबेल पुरस्कार से

सम्मानित किया गया। जिनेवा संधि के तहत

युद्धबंदियों को डराया-धमकाया नहीं जा सकता

और न ही उन्हें अपमानित किया जा सकता है।

काबुल में सात सौ महिलाओं ने इकट्ठा होकर तालिबान



के खिलाफ और अपनी आजादी के पक्ष में बातें रखीं।

व्यूयॉर्क टाइम्स के लिए फातिमा फैजी, डेविड ज्यूकिनो

यह एक विरल दृश्य था। अफगानिस्तान में प्रगति के अट्ठारह साल के बाद देश भर से सात सौ महिलाएं काबुल में महिला अधिकारों पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को संदेश देने के लिए इकट्ठा हुईं, जिसने तालिबान से अब एक दौर की वार्ता पूरी कर ली है। इन महिलाओं ने कहा कि हम शांति चाहती हैं, लेकिन अपने अधिकारों की कीमत पर नहीं। अफगानी यह समझ पाने में नाकाम हैं कि तालिबान के साथ वार्ता से उन्हें क्या हासिल होगा, जबिक उनके साथ लड़ाई भी कम भीषण नहीं रही है। अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने दोहा में तालिबान के साथ बातचीत की, लेकिन इस वार्ता में अफगानिस्तान शामिल नहीं था।

कुछ अफगानी औरतों को यह आशंका है कि इस वार्ता से तालिबान फिर से सत्ता में आ सकते हैं, जिससे लड़िकयों और महिलाओं को फिर से वैसे प्रतिबंधों और फतवों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि 2001 में उन्हें सत्ता से बाहर किए जाने से पहले तक करना पड़ा था। तब तालिबान के फतवों का उल्लंघन करने के कारण औरतों की प्रायः



पिटाई होती थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक औरत नरगिस कुर्बानी ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से कहा कि आपको हत्यारों के साथ बातचीत करने के बजाय उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। तालिबान ने 1997 में नरगिस के पित की हत्या कर दी थी और बाद में उसके सैनिक बेटे को जख्मी कर दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में आईं महिलाओं में ज्यादातर शहरी इलाकों से थीं। उन महिलाओं ने मेकअप कर रखा था। अनेक महिलाओं ने स्कार्फ से अपने बाल ढक रखे थे, लेकिन कुछ ने

अपने बाल खुले भी रखे थे। वहां मौजूद महिलाएं मुल्क की औरतों की आजादी के बारे में गीत गाते हुए छोटा अफगानी झंडा लहरा रही थीं। उन्होंने तालिबान के दौर के पहले का एक वीडियो भी देखा, जिसमें कुछ महिलाएं आधुनिक लिबास में थीं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अशरफ गनी की पत्नी रूला गनी ने महिलाओं से कहा कि वे बेहिचक अपनी बात कहें। उन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया कि अफगानी महिलाओं के पास अपनी आवाज है और आज वे बेखौफ होकर अपनी बात रख रही हैं।

अशरफ गनी ने अपने भाषण में सीधे-सीधे यह तो नहीं कहा कि शांति वार्ता के बाद जो नई सरकार बनेगी, उसमें महिलाओं के अधिकारों की कितनी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि महिलाओं को पहले दबाया जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आप शिकार नहीं हो, बल्कि भविष्य बना रही हो।गनी के भाषण की काफी तारीफ हुई, लेकिन कुछ महिलाओं का कहना था कि तालिबान के साथ शांति समझौते में महिलाओं की स्वतंत्रता की गारंटी भी होनी चाहिए। वहां मौजूद अकीला मुस्तफावी ने कहा कि यहां तक पहुंचने में हमें काफी समय लगा है। हम अब पुराने दौर में कर्तई

नहीं लौट सकतीं। 52 साल की लतीफा ने कहा कि मैं यहां यह संदेश देने के लिए आई हूं कि मैं अपनी बेटियों को मेरी तरह गुलामी में नहीं जीने देना चाहती।



इस हफ्ते के शब्द

सौरभ चौधरी सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।



ग्रिफ्ट (GRIFT) माइकल कोहेन के अमेरिकी संसद में गवाही से पहले मरियम वेबस्टर ने इस शब्द को ट्वीट कर ट्रंप पर तंज कसा, इसका अर्थ होता है, अवैध रूप से पैसे लेना।



ओसामा के बेटे पर इनाम १० लाख डॉलर

का इनाम देने की घोषणा की है अमेरिका ने ओसामा बिन-लादेन के बेटे हमजा बिन-लादेन के बारे में सूचना देने वाले को।